

प्रकाशक-

“सम्यक् ज्ञान प्रचारक मंडल”
(त्रिपोलिया) जोधपुर

लागत ५०० प्रति

कम्पोज	४८७॥) रुपये
छपाई	७८) ”
वाइडिंग	५७) ”
कागज	२६२॥) ”
टाइटल	२५) ”

कुल ९१०)

मुद्रित
श्री दुर्गाप्रसाद

दुर्गा प्रेस धानमण्डी, अजमेर ।

← प्रबन्धक के दो शब्द →

लक्ष्य रहित, अनियन्त्रित जीवन, जीवन नहीं, महद्भावों से भरा अनुशासित एवं संयत जीवन ही आदर्श-मानवीय-जीवन है। जो, मनुष्य जीवन जैसे अनमोक्ष, दुर्लभ जीवन को पाकर भी अपनी उदास-लालसा, विषय-तृष्णा तथा क्रोधादि-कषाय भावों पर नियन्त्रण नहीं रखता, दुर्विचारों का उपशमन नहीं करता, भला वह भी क्या मानव कहाने का अधिकारी है? उससे तो वे पशु पक्षी अच्छे, जो अज्ञानता की दशा में भी पर्यातिरेक से बचे रहते हैं।

संसार में जितने भी सहापुरुष हुए हैं, उनकी महत्ता उनके शुभाचरणों के द्वारा ही कुन्दन की तरह तपकर निखर पायी। शास्त्र, पुराणों में उनके अलौकिक आचरणों का महत्त्वपूर्ण दिग्दर्शन है, जो भावी पीढ़ी के पथ प्रदर्शन के लिये प्रकाश-स्तम्भ की तरह चिरकाल से चमकता आरहा है।

“वृहत्कल्प” उन्हीं आदर्श पुरुषों के कर्त्तव्यों का परिचायक शास्त्र है, जिसमें दिखाया गया है कि उभयलोक कल्याण कामियों को कैसे चलना, ठहरना, खाना, पीना, आना, जाना, तथा लोक समुदाय के संग व्यवस्थित व्यवहार पूर्वक जीवन यापन करना चाहिए। यद्यपि वृहत्कल्प का प्रणयन साधु वर्ग के निमित्त हुआ है, फिर भी हय संसारी मानव इसमें प्रतिपादित अनुशासनात्मक तरीके से अपनी आत्मा का अभ्युदय कर जीवन को सफल बना सकते हैं।

पूज्य श्री ने इस सूत्र का अनुवाद आज से बहुत पहले ही सम्पादित कर दिया था, किन्तु इसी बीच दूसरे सूत्रों के प्रकाशन होते रहने से इसके प्रकाशन का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इस वर्ष मेड़ता चातुर्मास में “सम्यक् ज्ञान प्रचारक मण्डल” (जोधपुर) के कुछ उत्साही एवं आगमप्रेमी सज्जनों की राय इसको प्रकाशित कर देने की हुई। सुयोग से उस समय श्रीमाद् “सरदारनाथजी सोदी एडमोकेट जोधपुर”

(आ)

वहां उपस्थित थे। उन्होंने इसके प्रकाशन का द्रव्य भार अपने ऊपर उठा लिया। तदनुसार इसके प्रकाशन का कार्य मुझपर सौंपा गया, और बड़ी मिहनत के बाद थल्प समय में ही मैं इसको प्रकाशित करवा रहा हूँ। इसलिये इसमें त्रुटियों का रह जाना असंभव नहीं। हां, यह कहने में मुझे कुछ भी संकोच नहीं कि जितना भी प्रयास मैं कर सकता था करने में नहीं चूका, फिर भी पृष्ठ ४० के २१ वीं पंक्ति में 'कप्पइ' की जगह 'नो कप्पइ' तथा पृष्ठ ४० " ऽऽवश्यायेपु में ये छूट गया है। ऐसे विन्दु, विसर्ग या मात्रा अथवा अक्षर जो भी दृष्टिदोष अथवा मुद्रण यन्त्र दोष से छूट गए हों पाठक उन्हें सुधारकर पढ़ें।


प्रकाशन की सारी जिम्मेदारी मुझपर है, इसलिये इसकी समस्त त्रुटियों का जिम्मेदार मैं हूँ। आशा है विज्ञ पाठक मानवीय अन्तःकरण की दुर्बलताओं को ध्यान रखते हुए मुझे क्षमा करेंगे।

अंत में मैं उन सब सज्जनों का आभारी हूँ जिनके सहयोग से इस काम को पूरा कर पाया हूँ।

विनीत

शशिकान्त झा, 'शास्त्री' व्याकरणाचार्य

— * प्रकाशन सहायक का संक्षिप्त परिचय * —



मरुधरा में जोधपुर चिर अतीत से लेकर इस क्षण तक अपनी कतिपय विशिष्टताओं के कारण सुप्रसिद्ध रहा है। यहां के नागरिकों में एक बड़ी संख्या जैन धर्मावलम्बी ओसवालों की हैं जो शिक्षा एवं राजकारिणी के क्षेत्र में जोधपुर ही नहीं अपितु राजस्थान भर में काफी ख्यात रहे हैं। इसी ओसवाल वंश की मोदी शाखा में इस सूत्र के प्रकाशन सहायक श्री सरदारनाथजी साहब का शुभ जन्म हुआ। आपके पिता श्री सुजाननाथजी मोदी हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू के अच्छे विद्वान् थे। और इसी आनुवंशिक संस्कार के फलस्वरूप सरदारनाथजी साहब १८ वर्ष की छोटी उम्र में ही वकालत की परीक्षा पास कर गए। सं० १८७५ में सुजाननाथजी साहब ने 'परवतसर' में अपनी इह लीला समाप्त की, जब सरदारनाथजी की उम्र केवल २१ वर्ष की थी। आपके ऊपर एक बड़े परिवार का भार आ पड़ा और आपने उसे बड़ी दक्षता के साथ माथे चढ़ाया। कुछ दिन भी नहीं बीतने पाये कि मारवाड़ में प्लेग और मलेरिया का दौरा प्रारम्भ हुआ। जिसमें आपकी धर्मपत्नी तथा दो लड़के एवं अन्य कतिपय स्नेही स्वजन चल बसे। यद्यपि यह घटना बड़े बड़े संगदिलों को भी घबरा सकती थी, किन्तु आपने इस आकस्मिक दारुण दुःख को बड़े धैर्य से सहन किया और अपनी दुनियादारी में कोई आंच नहीं लगने दी। एक साधारण मुनीमी से लेकर जोधपुर राज्य के ख्यातिनामा वकील के रूप में आप अपना कार्य सम्पादन करते रहे हैं। इह अध्यवसाय तथा अटूट लगन से आपने अच्छी सम्पत्ति भी उपार्जन करली है।

भीवालिया में वैज्ञानिक यन्त्रों से आपकी देख रेख में चलने वाला कृषि कार्य जोधपुर के कृषि-क्षेत्र का एक जीता जागता उदाहरण है। आप जोधपुर के "रत्न भावक मण्डल" के उप-प्रधान मन्त्री हैं तथा समाजमें आपका आदरणीय स्थान है।

(३)

आप एक परिश्रमी तथा दूरदर्शी व्यक्ति हैं। जैनधर्म में आपकी अटूट आस्था तथा विश्वास है। आप हर काम को पूर्ण मुस्तैदी तथा लगनसे करते हैं, यही कारण है कि आपने अपने जीवन में काफी प्रगति भी करली है। आपने द्रव्य दानसे इस सूत्र को प्रकाशित करने में मण्डल की मदद की है। अतः मण्डल की ओर से मैं आपको धन्यवाद देते हुए शासनदेव से प्रार्थना करता हूँ कि वे आपकी इस उदार तथा भार्मिक भावना को सकल यनाए रहें।

विनीत

शशिकान्त 'भा' शास्त्री



जैन शास्त्रों को प्रमुख चार भागों में बांटा गया है अंग, उपांग, मूल और छेद । उनमें बृहत्कल्प का स्थान भी छेद सूत्र में एक है । आगमों में विभिन्न जगह 'दस्ता कल्पवचनहाराणं उद्देशण कालेण' ऐसा निर्देश आता है, जिसमें दशाश्रुत स्कंध के साथ बृहत्कल्प का भी कल्प के संकेत से उल्लेख किया गया है । ज्ञात होता है कि इसका पूर्व नाम कल्पसूत्र ही रक्खा गया हो, क्योंकि वृत्तिकार आचार्य मलयगिरि भी इसी नाम से परिचय देते हैं । स्थानांग और आवश्यक आदि में कल्प नाम का उल्लेख होते हुए और वृत्ति में भी कल्प नाम से परिचय होते हुए इसको बृहत्कल्प नाम से क्यों कहा जाता है, 'निगूढाशया हि आचार्याः ऐसा होने पर भी यथासाध्य कारण का पता लगाना चाहिये । संस्कृत में एक नियम है कि—'संभव व्यभिचाराभ्यांस्याद्विशेषणमर्थवत्' विशेषण का संभव हो या उसके बिना दोष आने की संभावना हो, तभी विशेषण की नाम के साथ सार्थकता होती है । इस दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता है कि बृहत्कल्प और दशाश्रुतस्कंध का पर्युपण-कल्प जिसको आज कल्पसूत्र के नाम से कहते हैं, दोनों को यदि एक ही नाम से कहा जाय तो ग्रंथ का सही परिचय प्राप्त नहीं होगा । अतः आवश्यकता हुई दोनों में विशेषण देने की । कल्प सूत्र के अन्तिम भाग समाचारी में भी कुछ कल्पाकल्प का भेद दिखाने को उल्लेख किया है और इसमें उसी का विस्तृत विचार है—संभव है इसी दृष्टिकोण को लेकर मध्यकाल के आचार्यों ने इसका नाम बृहत्कल्प रखा हो । सामग्री के अभाव और समय की कमी से यहां अभी यह निर्णय नहीं कर सकते कि बृहत्कल्प नाम की प्रसिद्धि कब से हुई ।

कर्ता—

प्राप्त सामग्री के अनुसार बृहत्कल्प सूत्र के कर्ता श्रुतकेवली भद्रबाहु माने गये हैं । आचार्य मलयगिरि कहते हैं कि—अथ कः सूत्रमकार्षीत् ! को वा नियुक्तिं ! को वा

भाष्यम् ? इति, उच्यते—इह पूर्वेषु यद् नवमं प्रत्याख्यानं नामकं पूर्वं तस्य यत् तृतीय-
 माचाराख्यं वस्तु तस्मिन् विशतितमे प्राभृते मूलगुणेषूत्तरगुणेषु चापराधेषु दशविध-
 मालोचनादिकं प्रायश्चित्तमुपवर्णितम् । कालक्रमेण च दुपमानुभावतो धृति-बल वीर्य-
 बुद्ध्या-ऽऽयुः प्रभृतिषु परिहीयमानेषु पूर्वाणि दुरवगाहानि जातानि, ततो 'मा भूत-
 प्रायश्चित्त व्यवच्छेदः—इति साधूनामनुग्रहाय चतुर्दशपूर्वधरेण भगवता भद्रवाहुस्वा-
 मिना कल्पसूत्र व्यवहार सूत्रं चाकारि, उभयोःपि च सूत्रस्पर्शकनियुक्तिः । इमे
 अपि च कल्प-व्यवहार सूत्रे सनियुक्तिके अल्पग्रन्थतया महार्थत्वेन च दुपमानु
 भावतो हीयमानमेधा-ऽऽयुरादि गुणानामिदानीन्तनजन्तूनामलक्षणीनां दुर्ग्रहे
 दुखधारे जाते, ततः सुखग्रहण-धारणाय भाष्यकारो भाष्यं कृतवान्, तच्च सूत्रस्पर्शक-
 नियुक्त्यनुगतमिति सूत्रस्पर्शकनियुक्तिर्भाष्यं चैको ग्रन्थो जातः । टी०

रचना का उद्देश्य—

टीकाकार आचार्य मलयगिरि ने कहा है कि पूर्व का यह प्रायश्चित्त भाग नष्ट
 नहीं होजाय इसलिये भद्रवाहु ने इसकी रचना की । किन्तु कुछ गहगाई से सोचने पर
 मालूम होगा कि छेद सूत्र की रचना का उद्देश्य विभिन्न देशकाल में होने वाले
 साधु साधिवर्गों की परिस्थिति वश उलझी समस्या को सुलझाना और मोह,
 अज्ञान एवं प्रमाद आदि से लगने वाले दोषों से संयम की रक्षा करना भी है ।

यह सर्व विदित बात है कि साधु भी शरीरधारी प्राणी है । काम, क्रोध लोभादि
 उसके साथ भी लगे हैं । यद्यपि वह इनको आश्रय नहीं देता और न उद्वेग को टिकाने
 का ही यत्न करता है, फिर भी छेद से ११ वें गुणस्थान तक लाख प्रयत्न करने पर
 भी इनका समूल नाश नहीं होता । इन छ दूर्जों में वह अपने प्रयत्न के बल पर
 इनको मन्द, मन्दतर, मन्दतम बना लेता है, और ह्म्यारवें पहुँचकर तो उसको
 'भस्माच्छन्न' आग की तरह हत शक्ति कर देता है । किन्तु अधिकता से प्रमत्तदशा
 के प्रथम स्थानपर रहने वाले साधु साधिवर्गों के लिये तो सदा कषाय का खतरा बना
 रहता है । उनके लिये निर्माह और वीतरागता का आदर्श वांछनीय होकर भी प्राप्त
 नहीं है । उनका शरीर और संघ से प्रेम सम्बन्ध टूटा नहीं है । शरीर, संगी और
 संयम की रक्षा के लिये आहार, वस्त्र, पात्र, स्थान आदि साधनों की समय समय
 पर आवश्यकता होती है । अतः उत्सर्ग और अपवाद के कथन से मुक्ति धर्म की रक्षा
 और शुद्धि करना इसका प्रधान उद्देश्य समझना चाहिये ।

शास्त्र के अधिकारी—

प्राचीन समय की एक मर्यादा है कि अयोग्य को ज्ञान नहीं देना चाहिए यदि कोई आचार्य ज्ञान दान में योग्याऽयोग्य का विचार नहीं करे तो शास्त्र ने उसे दोषभागी माना है। आवश्यक सूत्र में इसको “ सुट्ठु दिन्नं ” नामक ज्ञानका अतिचार कहा है। स्थानांग के तीसरे स्थान में कहा है कि अविनीत १ रसलोलुपी २ और कलह का उपशमन नहीं करने वाला तीव्र कषायवान ये ३ वाचना देने योग्य नहीं हैं।

प्रश्न हो सकता है कि ज्ञान तो पापी को धर्मी बनाता और दुर्जन को भी सज्जन करता है फिर इसके लिये ऐसा परहेज क्यों ? बात यह है कि ज्ञान दो प्रकार का है एक ग्रहण शिक्षा रूप दूसरा सेवन रूप। इनमें पदार्थ ज्ञान एवं उत्सर्गापवाद की शिक्षा वाला जो प्रथम ज्ञान है उसके लिये अधिकारी का विचार आवश्यक है। आज भी अणु विज्ञान आदि के तत्व गुप्त रक्खे जाते हैं, कारण उनके दुरुपयोग की आशंका रहती है। इसलिये भाष्यकार कहते हैं कि-शास्त्र के रहस्यों को जो साधारण में प्रगट करता और अपवाद पद का गलत उपयोग करता है। वैसे ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की शिथिल प्रवृत्ति वाले को ज्ञान देना दोष का हेतु है। ऐसे अपात्र में शास्त्र ज्ञान देने वाला चतुर्गतिक संसार में परिभ्रमण करता है। इसलिये कल्पशास्त्र का ज्ञान देने के लिये निम्न गुण देखने चाहिये कहा है—

अरहस्सधारण, पारण्य, असदकरणे तुलासमं समिते ।

कप्पाणु पालणा दीवणाय, आराहणं छिन्न संसारी । ६४६० ।

अर्थात् जो गम्भीर रहस्य को धारण करने वाला है, प्रारम्भ किये भुत को बीच में नहीं छोड़ता, छल और अहंकार से दूर तथा तुला के समान राग द्वेष रहित समवृद्धि वाला है, जितेन्द्रिय है उसको देना चाहिये, जिससे भगवत्कथित कल्प की आराधना हो। अथवा जो शास्त्र कथित विधि का पालन करे उसको देना चाहिये। ऐसा करने से मार्ग की दीपना होती है।

शास्त्रान्तर से तुलना—

बृहत्कल्प की शास्त्रान्तर से दो प्रकार की तुलना हो सकती है, एक शब्द से और दूसरी अर्थ से। यहां आर्थिक तुलना समयभावात् से नहीं कर थोड़ीसी शाब्दिक तुलना ही की जायगी। भगवती, व्यवहार और स्थानांग सूत्र में तुलना के स्थल मिलते हैं। जैसे-चतुर्थ स्थान के आदि में -तत्रो अणुघाद्या प० तं० हृत्थकम्मं

करेमाणे-ते तयो सुवत्तणुपा प० सं०..... लक्ष्मणाय । पंचम ३३ सूत्रों का तृतीय उद्देश में पूर्ण साम्य है ।

स्थानांग की विशेषता यह है कि उसके पंचम स्थान के द्वितीय उद्देश में पांच प्रकार का अनुद्घातिक बताया है, जैसे कि--पंच कणुत्तया उ० सं० प्रायः कर्म करेमाणे १, गेहुगं पांडनेवमाणे २, राटभोगंभुजमाणे ३, मागारिय विट भुजमाणे ४, रावपिंडं भुजमाणे ५ ।

द्वितीय उद्देशके अंतिम दो सूत्रों का पंचम स्थान के तृतीय उद्देश के "कपड निग्गंवाणवा निग्गंथीण वा पंच वत्थाइं धारित्त" सूत्र में पूर्ण साम्य है केवल यहां 'इमाइं' पद नहीं है ।

चतुर्थ उद्देश के २० वें सूत्र के साथ पंचम स्थान द्वितीय उद्देश के आदि सूत्र में प्रायः साम्य है । यहां 'कोथिया' के स्थान पर 'एरापइं' का प्रयोग है ।

अववाद में स्थानांग की विशेषता है, यहां पांच कारण बताये हैं । जैसे कि--पंचदिं ठाणेहिं कपपति, तं० अयंसि वा १, दुभिकचंभिया २, पववेज्जपयंकोइ ३, उद्योवंसिवा एज्जमाणंसि गहनावा ४ अणारिएसु ५ । "

छट्टे उद्देश के अवचनादि चार सूत्र भी स्थानांग के छट्टे स्थान में मिलते हैं ।

दुर्ग प्रकृत के 'निग्गंथे निग्गंथि दुग्गंभिया विससंसिवा' आदि सूत्रों का स्थानांग पंचम स्थान के द्वितीय उद्देश और छट्टे स्थान में साम्य मिलता है ।

अर्थ की तुलना के लिये आचारांग आदि अन्य शास्त्र भी तुलना स्वतः हो सकते हैं ।

बृहत्कल्प के टीका ग्रन्थ और संस्करण

भद्रबाहु स्वामिकृत निर्युक्ति के अतिरिक्त एक संवदासगणीकृत प्राकृत भाष्य है जो गाथा बद्ध है । आचार्य मलयगिरि ने कहा है कि--"सूत्रार्थिकनिर्युक्तिर्भाष्यं चैको ग्रन्थो जातः ।" निर्युक्ति और भाष्य का पृथक्करण करना कठिन हो गया है । क्षेम कीर्ति के उल्लेख से चृषि का होना भी पाया जाता है । फिर आचार्य मलयगिरि ने इस पर संस्कृत टीका की है, जो पूर्ण उपलब्ध नहीं होती, आचार्य क्षेमकीर्ति कहते हैं कि--तदपि कुतोऽपि हेतोर्विद्वानां परिपूर्णं नावलोक्यत इति परिभाष्य मन्दमति मौलिनाऽपि मया ॥ गुरुरूपदेशं निश्चीकृत्य श्री मलयगिरि विरचित विवरणादूर्ध्वं त्रिवरीतुमारभ्यते ।" इससे ज्ञात होता है कि मलयगिरिकृत टीका का जो भाग उपलब्ध नहीं है, उसी की क्षेमकीर्ति ने पूर्ति की है । पूर्वाचार्यों ने

(औ)

कुछ ट्वार्थ भी किये हैं। उपरोक्त नियुक्ति, भाष्य और टीका सहित संपूर्ण ग्रन्थ "आत्मानन्द जैन सभा भावनगर" से ६ भागों में प्रकाशित हुआ है। मुद्रित भाष्य के साथ लगे हुए लघु विशेषण से यह अनुमान सहज होता है कि बृहद्भाष्य भी होना चाहिये। इसके अतिरिक्त डा० जीवराज छेलाभाई ने गुजराती अनुवाद सहित अहमदाबाद से भी १ संस्करण निकाला है। बाल ब्रह्मचारी शास्त्र विशारद पूज्य श्री अमोलक ऋषिजी महाराज द्वारा इसका हिन्दी अनुवाद भी किया गया है जो हैदराबाद दक्षिण से प्रकाशित हुआ है। आगम मन्दिर पालीताणा और मुनि जिन विजयजी द्वारा मूल संस्करण भी निकाले गये हैं।

हमारा संपादन कार्य:—

पाठक सोचेंगे कि वृहत्कल्प सूत्र के २-३ संस्करण पहले निकल चुके हैं और एस० एस० जैन का० भी आगम बत्तीसी में इसको निकालना चाहती है। फिर यह अलग प्रयत्न क्यों? किन्तु बात ऐसी नहीं है, आज तक के छपे हुए से इसमें विशिष्टता है। हिन्दी और गुजराती के अतिरिक्त संस्कृत टीका के साथ शुद्ध संस्करण अभी तक कोई प्रकाशित नहीं हुआ है। भावनगरसे प्रकाशित वृहत्कल्प सूत्र-भाष्य विशालकाय ६ भागों में है, जिससे सभी जिज्ञासुओं के लिये वह सुलभ नहीं हो सकता। अतः आज से १० वर्ष पहले स्व० सौभागमजी ढुङ्गा अजमेर वालों के भंडार से प्राप्त इसकी हस्तलिखितप्रति जो संस्कृत टीका सहित थी जीर्ण शीर्ण दशा में होने से उसका रक्षण भी कठिन था, दक्षिण चातुर्मास में प्रतिलिपि करवाई गई। संशोधन के लिये गवेषणा करने पर भी कोई अन्य प्रति नहीं मिली, किन्तु प्रयत्न जारी रहा। जब मुनि श्री पुण्यविजयजी द्वारा संपादित वृहत्कल्प भाष्य से मिलान करना आरम्भ किया तब सहसा बृहद् वृत्ति के अङ्गलप यह टीका भी उसमें प्राप्त होगई। अभिलाषा की पूर्ति के साधन पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वाद् उपयुक्त टिप्पण, शब्दकोश और अर्थ भी तय्यार किया गया। इसी बीच जिनागम प्रकाशन समिति व्यावर से कुछ आगमों के मूल संशोधन के लिये कहा गया। आगम संशोधन के उस परम पुनीत कार्ग में ६ सूत्र लिये गये, जिनमें वृहत्कल्प का भी एक स्थान था। अतः आगम मंदिर पालीताणा और भाष्य की प्रति से इसका संशोधन किया गया। शब्दार्थ के लिये यह उचित प्रतीत हुआ कि संपूर्ण नहीं देकर कुछ सार भाग ही दिया जाय। इस प्रकार वर्गों के प्रयत्न और विभिन्न

(७०)

संस्करण एवं विद्वान् मुनियों के परामर्श को ध्यान में रख कर कार्य किया गया है। विशेष कर जैनाचार्य जैन धर्म दिवाकर पूज्य श्री आत्मारामजी म० तथा कविवर उपाध्याय पं० श्री अमरचन्द्रजी म० के विचारों का अधिक सहयोग मिला है। एतदर्थ उन सत्र ग्रन्थकार और माननीय मुनिधरों का सादर स्मरण करना भी मेरा कर्तव्य हो जाता है।

संशोधन आदि में सावधानता रखते हुए भी छद्मस्थता यश कुछ त्रुटियाँ रहना संभव है। जिसके लिये 'वायविकस्त्रलियं न था नतं उवहसे सुणी' इस आगम वचन के अनुसार गीतार्थ मुनि—'तन्तु मर्हाः' त्रुटियों के लिये क्षमा कर भविष्य के लिये मार्ग दर्शन करेंगे।

इत्यलम्...

आचार्य हस्तिमञ्जु मुनिः



बृहत्कल्प परिचय

बहिरंग में इसका मूल भद्रवाहुकृत होने से प्राकृत भाषा में है। जिसको ६ उद्देशकों में बांटा गया है। उनमें कुल ८१ अधिकार हैं। प्रथम उद्देश में ५१, दूसरे में २५, तीसरे में ३१, चतुर्थ में ३७, पंचम में ४२, और छठे में २० कुल २०६ सूत्र हैं। साथ ही बृहतीका से सौभाग्यसागरसूरि द्वारा उद्धृत सुबोधा टीका भी है। विशिष्ट शब्द कोश और टिप्पण, पाठान्तर आदि से परिशिष्ट सजाये गये हैं।

प्रथम उद्देशक में-२४ अधिकार हैं, पहले प्रलंबाधिकार है, जिसमें कहा गया है कि ताल एवं केला आदि प्रलंबफल साधु साध्वियों को कैसा लेना और कैसा नहीं लेना। कच्चा हो तो साधु साध्वियों को बिना कटा लेना नहीं कल्पता-कटा हुआ ले सकते हैं। साधुओं के लिए पक्के ताल प्रलंब का निषेध नहीं किन्तु साध्वी उसे भी विधि पूर्वक कटे होने पर ले सकती है। अन्यथा नहीं।

दूसरा मास कल्पाधिकार-इसमें कहा है कि वर्षाकाल के अतिरिक्त साधु १ मास और साध्वी २ मास एक गांव में रह सकते हैं। यदि गांव बाहर भीतर आदि रूप से दो भागमें हो तो द्विगुण कालतकरह सकते हैं, किन्तु उस समय जहां रहते हों उसी हिस्से से भिक्षा लेनी चाहिए। तीसरे अधिकार में साधु साध्वियों के एक गांव में एकत्र रहने का विचार है। जो गांव एक ही द्वार वाला हो, जहां उसीसे निकलना और प्रवेश करना हो वहां दोनों को एक साथ रहना निषिद्ध है। भिन्न मार्ग होने पर रह सकते हैं। चौथे उपाश्रय अधिकार में साध्वियों के लिये बाजार या गली के मुंह पर ठहरना निषिद्ध कहा है। साधु वहां ठहर सकते हैं। साध्वियां खुले मकान में बिना आवरण किये नहीं ठहर सकती, साधु रह सकते हैं। पंचम अधिकार में बताया है कि यदि मिट्टी का भांड लेना आवश्यक हो तो साध्वियां सकड़े मुंह के अरहट की घड़ी जैसा भांड ले सकती हैं किन्तु साधु वैसा नहीं ले सकता। षष्ठे अधि-कार में साधु साध्वियों को वस्त्र की चिलिमिलिका-मच्छरदानी-रखने की अनुमति दी गई है। सप्तम अधिकार में कहा है कि पानी के किनारे साधु साध्वियों को १० काम नहीं करना चाहिए, जैसे-खड़े रहना, बैठना, सोना और खाना, पीना, स्वा-ध्याय आदि। आठवें अधिकार में चित्रवाले घर में साधु साध्वियों के लिये

ठहरना निषिद्ध कहा है। क्योंकि यहां ज्ञान ध्यान में विक्षेप हो सकता है। अतः साधु साध्वियों को चित्र रहित स्थान में ठहरना चाहिए। नवमें अधिकार में साध्वियों के शीत रक्षण की दृष्टि से कहा है कि—उन्हें शय्यादाता की देख रेख में ही रहना चाहिए। साधुओं के लिये ऐसा नियम नहीं है। दशमें अधिकार में कहा गया है कि साधु को सागारिक उपाश्रय में नहीं रहना चाहिये, किन्तु सागारिक रहित स्थान में रह सकते हैं। फिर स्पष्ट कर इसी बात को ह्यार्ये अधिकार में कहा है—साधु स्त्री वाले उपाश्रय में नहीं रहे। पुरुष वाले घर में रह सकते हैं। ऐसे साध्वियों के लिये पुरुष सागारिक का निषेध और स्त्री वाले स्थान की अनुमति समझनी चाहिए। बारहवें अधिकार में कहा है कि जहां स्त्री आदि का प्रतिबन्ध हो वहां साध्वियां रह सकती हैं, साधु नहीं। १३वां अधिकार—जहां घर में होकर आना जाना पड़ता हो उस जगह साधु नहीं रह सकते, साध्वियां स्थानाभाव से रह सकती हैं। १४ वें अधिकार में कहा है कि साधुओं को क्रोध नहीं रखना चाहिये कभी कलह-बोलना-हो जाय तो अविलम्ब क्रोध का अन्त कर लेना चाहिये। कारण प्रशमभाव ही संयम का सार है। १५ वें अधिकार में विहार का विचार है। वर्षा काल में विहार का निषेध और शेष काल में अनुमति है। १६ वें अधिकार में साधु साध्वियों के लिये दो विरोधी राज्यों में परस्पर शङ्का हो इस प्रकार जल्दी गमना-गमन करने का निषेध है। १७ वां अधिकार अवग्रह का है, इस में कहा है कि भिक्षा के लिये घरमें गये हुए या स्वाध्याय और वहिर्भूमि जाते समय कभी गृहस्थ वैश्व पात्रादि से निमन्त्रण करे तो साधु साध्वी का कर्तव्य है कि वे आचार्य एवं प्रवर्तनी की निश्राय से लार्वे और उनकी अनुमति पाकर ही ग्रहण करें। १८ वें से २१ वें तक चार अधिकार में रात्रि के निषिद्ध कार्यों का वर्णन किया गया है। पहले में कहा गया है कि रात या विकाल में चारों आहार ग्रहण नहीं करे, केवल दिन को देखे हुए शय्या-संस्तारक रात में ले सकते हैं। ऐसे रात या विकाल में साधु, साध्वी वस्त्र भी नहीं ले सकते, अपना चुराया गया वस्त्र यदि रात में लाया गया हो तो वह ले सकते हैं। फिर—रात में एक गांव से दूसरे गांव विहार करना भी नहीं कल्पता। २२ वें अधिकार में जीमणघार में जाने का निषेध है। २३ वें अधिकार में कहा है कि साधु साध्वियों को शारीरिक कारण या स्वाध्याय के लिए रात्रि में उपाश्रय के बाहर जाता हो तो, अनुकूलतानुसार १-२ दो को साथ लेकर जाना चाहिए। २४ वें अधिकार में विहारक्षेत्र बताया गया है, पूर्व में अंग और

मगध, दक्षिण में कौशाम्बी, पश्चिम में स्थूणा और उत्तर में कुणाला देशात्क आर्य-क्षेत्र कहा गया है ।

उद्देश २—दूसरे उद्देश में ७ अधिकार हैं । प्रथम उपाश्रयाधिकार जिसमें खास तौर से १२ सूत्रों के द्वारा यह बताया गया है कि कैसे उपाश्रय में उतरना और कैसे में नहीं । पहले कहा है कि जहां शालि आदि के बोज बिखरे हों वहां नहीं ठहरना चाहिए, जहां मद्य के घड़े रखे हों और ठंडे या गर्म जल के घड़े भरे रहते हों, वहां भी साधु साध्वी के लिये ठहरना निषिद्ध है । जिस घर में रात भर आग जलती हो या दीपक रात भर जलता रहे, वहां भी साधु साध्वियों को नहीं ठहरना चाहिए । उपाश्रय की सीमा में घृत, गुड़ और मोदकादि खाद्यपदार्थ बिखरे हों वहां भी नहीं ठहरना चाहिए । साध्वियों के लिये सार्वजनिक धर्मशाला-मुसाफिर खाना-में एवं खुजा घर या वृत्त के नीचे ठहरना निषिद्ध है । साधु ऐसे स्थान में ठहर सकते हैं । दूसरे अधिकार में शय्यातर पिंड का विचार है । यदि किसी मकान के एक से अधिक स्वामी हों तो उनमें से एक को शय्यादाता बनाकर शेष घर की मित्ता ले सकते हैं । शय्यातर का पिंड बाहर निकलने पर भी कत्र लिया जा सकता है, बताया गया है । ३-३-५ म अधिकार में, जो भोजन शय्यातर के यहां दूसरे का आया हो, या शय्यातर के यहां से भेजा गया हो, तथा उसके पूज्य-माननीय-पुरुष के लिये बनाया गया हो, उसको किस प्रकार ग्रहण करना, कहा गया है । छठे अधिकार में कहा है कि साधु पांच प्रकार के वस्त्र धारण कर सकते हैं । जंगमज-ऊन, रेशम आदि १, अलसी २, सणसूत्र ३, कपास और वृत्त की छाल के वस्त्र ४-५ । सातमें अधिकार में पांच प्रकार के रजोहरण बताये हैं—१ ऊनका २ ऊंट की जट का ३ सणका ४-५ कुटे हुए घास और मुज्ज का ।

३-तीसरे उद्देशक—में १६ अधिकार हैं । प्रथम अधिकार में कहा है कि जहां साधु रहते हों उस स्थान पर साध्वी को और साध्वी के यहां साधु को बिना कारण जाना नहीं । दूसरे अधिकार में सकारण चमड़ा लेने का विचार है । तीसरे अधिकार में कहा है कि साधु साध्वियों को अस्वण्ड, याने बहुमूल्य वस्त्र नहीं रखना, आवश्यकता से टुकड़ा रख सकते हैं । चतुर्थ अधिकार में कहा कि साधु कच्छा नहीं रखें, साध्वियां रख सकती हैं । पंचम अधिकार में भिक्षा के लिये गयी हुई साध्वी को वस्त्र की आवश्यकता हो तो लाने की विधि बताई गई है । षष्ठ अधिकार में सर्व प्रथम दीक्षा लेने वाले साधु साध्वी के लिये उपकरण का विचार है । सप्तम

अधिकार में कहा है कि शीतकालके आरंभ में अर्थात् चातुर्मासके अन्तमें वस्त्र ग्रहण कर सकते हैं। वर्षा के आरंभ (चातुर्मास) में नहीं। ८-९ और १० में कहा है कि वस्त्र ग्रहण, शय्या ग्रहण और वन्दन छोटे बड़े के क्रम से ही करना चाहिये। ११ वें १२ वें अधिकार में गृहस्थ के घर पर साधु साध्वियों के लिये ठहरना और उपाख्यान का निषेध है, अपवाद भी बताया गया है। १३ वें अधिकार में पाट आदि पांडि-हारिक शय्या संधारा के देने की विधि कही गई है। १४ वें अधिकार में शय्या वापिस देते समय दूसरे साधु आ जाय तो अवग्रह की विधि बतलाई गई है। १५ वें अधिकार में कहा है कि गांव के बाहर सेना पड़ा हो तो भिक्षा के लिये वहां जाकर रात में नहीं रहना चाहिये। १६ वें अधिकारमें साधु साध्वियों के लिये गांव के चारों ओर ४-५ कोश का अवग्रह लेकर रहने का विधान है।

४-चतुर्थ उद्देश-में १६ अधिकार हैं। प्रथम द्वितीय और तृतीय अधिकार में क्रमशः तीन प्रकार के अनुद्घातिक, पारांचित और अनवस्थाप्य प्रायश्चित के कारण कहे गये हैं। चतुर्थ अधिकार में कहा है कि तीन प्रकार के मनुष्य दीक्षा, मुंडन, शिञ्जा, उपस्थापन, संभोग और संवास के अयोग्य है। पंचम अधिकार में अविनीत आदि तीन प्रकार के पुरुषों को वाचना के अयोग्य और विनीत आदि को वाचना योग्य कहा है। षष्ठ अधिकार में दुष्ट, मूढ आदि तीन प्रकार के मनुष्य को दुर्योध्य और अदुष्ट आदि को सुखबोध्य कहा है। सप्तम अधिकार में कहा है कि कष्ट में गतानि पाते हुए साधु को साध्वी एवं साध्वी को साधु आवश्यकता समझकर संझाव से सकारण सहारा दे तो आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। अष्टम अधिकार में कहा है कि काल या क्षेत्र की-पहर तथा कोश रूप-मर्यादा का उल्लंघन कर आहार आदि का उपभोग करने से साधु साध्वी प्रायश्चित के अधिकारी होते हैं। नवमें अधिकार में आकस्मिक कोई अनेपणीय वस्तु आजाय तो साधु को क्या करना चाहिये, यह बताया गया है। दशम अधिकार में कल्पस्थित और अकल्प-स्थित साधु के लिये औद्देशिक आहार की विधि कही गई है। एकादशवें अधिकार में साधुगणावच्छेदक और आचार्य आदि के गणान्तर करने की विधि बतलाई है। १२ वें अधिकार में कदाचित् किसी साधु का आकस्मिक निधन हो जाय और साधु परठना चाहे तो उसकी विधि बतलाई है। तेरहवें अधिकार में कहा है कि कदाचित् मोहोदय से साधु का किसी के साथ कलह हो जाय तो तत्काल उसका उपशमन करना चाहिये, विना शान्त किये भिक्षा आदि के लिये जाना नहीं कल्पता।

चौहद्वे अङ्क अधिकार में परिहार तप वाले के साथ कैसा व्यवहार किया जाय, यह बताया गया है। पन्द्रहवें अङ्क अधिकार में कहा है कि गंगा, यमुना जैसी पांच बड़ी नदियां एक मास २-३ बार उतरना नहीं कल्पता। कैसी दशा में उतर सकते यह भी दिखाया है। १६ वें अङ्क अधिकार में बताया कि घास आदि का कच्चा घर यदि निर्जीव हो तो कितनी ऊंचाई होने पर वहां मास कल्प या वर्षाकाल रह सकते हैं।

पंचमोद्देश-प्रथम अङ्क अधिकार में कहा है कि-साधु साध्वी को यदि स्त्री पुरुष के रूप में कोई देव देवी ग्रहण करे और वे उनको अच्छा समझे तो प्रायश्चित्त के अधिकारी होते हैं। दूसरे अङ्क अधिकार में बताया है कि कोई साधु कलह करके दूसरे गण में जावे तो वहां कोमल वचनों से शान्त कर उसे फिर मूल गण में भेज देना चाहिये आदि। तीसरे अङ्क अधिकार में प्रातःकाल या सायंकाल भोजन करते समय यदि मालूम हो जाय कि सूर्य उदय नहीं हुआ अथवा अस्त हो गया है, तो क्या करना चाहिये, बताया है। चौथे अङ्क अधिकार में रात्रि या विकाल में कंठ के नीचे से गुचलका जाय तो उसकी विधि कही गई है। पंचम अङ्क अधिकार में वीज या जन्तु उपर से पात्र में गिर जाय तो किस प्रकार करना चाहिये, बताया गया है। छठे अङ्क अधिकार में-भोजन में सचित्त जल की बूंद गिर जाय तब उसके उपयोग की विधि कही गई है। सप्तम अङ्क अधिकार में साध्वी के व्रत रक्षा का विचार है, उसके लिये निम्न बातों का निषेध है-१ एकाकिनी होकर भिक्षा, जंगल और ग्रामानुग्राम विहार करना। २ वस्त्र रहित रहना, ३ अपात्र होना, ४ कायोत्सर्ग में देह का भान भूलना, ५ गांव के बाहर खड़े आतापना लेना, ६ स्थानायत आसन से रहना, ७ एक रात्रि की पडिमा कायोत्सर्ग रूप करना, ८ निषद्या आसन करना, ९ उकडू आसन से बैठना, १० वीरासन से बैठना, ११ दंडासन करना, १२ लकडासन करना, १३ उलटे मुंह सोना, १४ सीधे सोना, १५ आम्रकुब्जासन करना, १६ एक पार्श्व से अभिग्रह कर लेटना, ये कार्य साध्वी को नहीं करने चाहिये।

साधु की तरह साध्वी को आकुंचन पट्ट धारण करना, पीछे तकिये-सहारेदार-आसन पर बैठना, दोनों बाजू खुद्रीदार पट्ट पर बैठना, नालवाला तुम्बा रखना खुली दंडी का रजोहरण धारण करना, पुंजनी में दण्डी रखना ये बातें भी साध्वियों के लिये निषिद्ध हैं। अष्टम अङ्क अधिकार में मोक प्रतिमा का विचार है। नवम अङ्क अधिकार में रात में रहे हुए आहार के सेवन का निषेध है। लेप भी रात में

रक्खा हुआ गाढ कारण बिना निषिद्ध है। ऐसे वासी रक्खे हुए घृत आदि की मालिश भी निषिद्ध है। दशवें अधिकार में परिहार तप वाले के व्यवहार की विधि कही गई है। ११ वें अधिकार में कहा है कि निस्सार आहार पाकर साध्वी निर्वाह नहीं कर सके तो दूसरी बार भी भिक्षा को जाना कल्पता है।

षष्ठ उद्देश—प्रथम अधिकार में छः अवचन कहे हैं—जैसे १ हंसी आदि से भूठ धोलना, २ अवहेलना करना, ३ खिसलाने वाले वचन ४ कठोर वचन ५ गृहस्थ जैसे अपशब्द, ६ शान्त कलह को उत्तेजित करने वाले वचन ये अवाच्य हैं। दूसरे अधिकार में—हिंसा, भूठ, चोरी, मैथुन, अपुरुषवचन और दास वचन रूप छः प्रायश्चित के स्थान कहे गये हैं। तीसरे अधिकार में चार सूत्रों से कहा गया है कि साधु साध्वी के पैर में कांटा, कील आदि लग जाय एवं आंख में रज कण या जन्तु गिर जाय और वे निकाल नहीं सके तो आवश्यकता से साधु का साध्वी तथा साध्वी का साधु निकाल सकते हैं।

किन्तु यह विशेष प्रसंग का सूत्र है। चौथे और पांचवें अधिकार में कहा है कि १२ कारणों से साधु साध्वी का स्पर्श करते हुए आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। जैसे दुर्गादि भूमि में साध्वी का पैर फिसलता हो, कीचड़ आदि में फिसलती हो, २ नौका पर चढ़नी या उतरती हो, ३ भय आदि से विक्षिप्त चित्त हो, ४ कामादि से दीप्त चित्त हो, ५ भूतप्रेतादि वाधा से वेभान हो, ६ उन्मत्त हो, ७ उपसर्ग से व्याकुल हो, ८ क्रोध या कलह से अनुपशान्त हो, ९ प्रायश्चित से भयभीत हो १०, भक्त प्रत्याख्यान वाली हो ११ अर्थज्ञात से चिन्तित हो १२, तो साधु पकड़ सकते एवं सहारा दे सकते हैं।

छठे अधिकार में ६ बातें संयम को निस्सार बनाने वाली कही गई हैं। अन्त में कल्प की ६ स्थितियां बताई गई हैं। छद्मस्थ साधक के कल्पमात्र का इसमें समावेश कर दिया गया है।

बृहत्कल्प सूत्रस्यानुक्रमणिका

सूत्र

प्रथम उद्देशकः

१-५	प्रलम्ब प्रकृतम्	पृष्ठ १- २
१	निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी विषयकम्-अभिन्न-आमताल प्रलंब सूत्रम्	
२	" " " भिन्न " " "	
३	" " " भिन्न-अभिन्न पकताल प्रलम्बसूत्रम्	
४	" " " अभिन्न पकताल प्रलम्ब सूत्रम्	
५	" " " भिन्न " " "	
६-८	मासकल्पप्रकृतम्	" ३- ५
६-७	निर्ग्रन्थ विषयके मास कल्प सूत्रे	
८-९	निर्ग्रन्थी विषयके " " "	
१०-११	वगडा प्रकृतम्	" ५
१०-११	निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी विषयके वगडा सूत्रे	
१२-१३	आपणगृहरथ्यामुखादि प्रकृतम्	" ५- ६
१२	निर्ग्रन्थी विषयकम् आपण गृहरथ्या मुखादि सूत्रम्	
१३	निर्ग्रन्थ " " " " "	
१४-१५	अपावृत्तद्वारोपाश्रय प्रकृतम्	" ६
१४	निर्ग्रन्थी विषयकं अपावृत्त द्वारो पाश्रय सूत्रम्	
१५	निर्ग्रन्थ " " " " "	
१६-१७	घटीमात्रक प्रकृतम्	" ६- ७
१६	निर्ग्रन्थी विषयकम् घटी मात्रक सूत्रम्	
१७	निर्ग्रन्थ " " " " "	
१८	चिलिमिलिका प्रकृतम्	" ७
१८	निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी विषयकं चिलिमिलिका सूत्र	

१६	दकतीर प्रकृतम्	"	७
१६	निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी विषयकं दकतीर सूत्रम्		
२०-२१	चित्रकर्म प्रकृतम्	"	७-८
२०	निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी विषयकं सचित्र कर्मोपाश्रय सूत्रम्		
२१	" " " अचित्र " "		
२२-२४	सागारिक निश्रा प्रकृतम्	"	८
२२-२३	निर्ग्रन्थी विषयके सागारिक निश्रा सूत्रे		
२४	निर्ग्रन्थ विषयकं सागारिक निश्राऽनिश्रा सूत्रम्		
२५-२६	सागारिकोपाश्रय प्रकृतम्	"	८-९
२५	निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी विषयकं सागारिकोपाश्रय सूत्रम्		
२६	निर्ग्रन्थ-विषयकं स्त्री सागारिकोपाश्रय सूत्रम्		
२७	" " पुरुष " " "		
२८	निर्ग्रन्थी " " " " "		
२९	" " स्त्री सागारिकोपाश्रय सूत्रम्		
३०-३१	प्रतिवद्ध शय्या प्रकृतम्	"	९
३०	निर्ग्रन्थ विषयकं प्रतिवद्ध शय्या सूत्रम्		
३१	निर्ग्रन्थी " " " " "		
३२-३३	गृहपति कुलमध्यवास प्रकृतम्	"	९
३२	निर्ग्रन्थ विषयकं गृहपति कुल मध्यवास सूत्रम्		
३३	निर्ग्रन्थी " " " " "		
३४	व्यवशमन प्रकृतम्	"	९
३४	भिल्ल विषयकं व्यवशमन सूत्रम्		
३५-३६	चार प्रकृतम्	"	९-१०
	निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी विषयके चार सूत्रे		
३७	वैराज्य विरुद्ध राज्य प्रकृतम्	"	११
३७	निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी विषयकं वैराज्य विरुद्ध राज्य सूत्रम्		

३८-४१	अवग्रह प्रकृतम्	११-१२
३८-३९	निर्ग्रन्थ विषयके वज्राद्यवग्रह सूत्रे	
४०-४१	निर्ग्रन्थी " " " "	
४२-४३	रात्रिभक्त प्रकृतम्	१३
४२ ४३	निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी विषयके रात्रि भक्त सूत्रे	
४४	रात्रि-वज्रादि ग्रहण प्रकृतम्	१३
४४	निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी विषयके रात्रि-वज्रादि ग्रहण सूत्रम्	
४५	हरियाहडिया प्रकृतम्	१३
४५	निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी विषयके हरियाहडिया सूत्रम्	
४६	अध्व प्रकृतम्	१३
४६	निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी विषयके अध्व सूत्रम्	
४७	सङ्घडि प्रकृतम्	१४
४७	निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी विषयके सङ्घडि सूत्रम्	
४८-४९	विचार भूमि विहार भूमि प्रकृतम्	१४
४८	निर्ग्रन्थ विषयके विचार भूमि विहार भूमि सूत्रम्	
४९	निर्ग्रन्थी " " " " " "	
५०-५१	आर्यक्षेत्र प्रकृतम्	१५
५०-५१	निर्ग्रन्थी विषयके आर्य क्षेत्र सूत्रम्	

द्वितीय उद्देशकः

१-१२

उपाश्रय-अधिकारः

पृष्ठ १७-२१

१-३	निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थ्युपाश्रयोपघात विषयाणि त्रीज सूत्राणि
४	" " " विषयके विकट सूत्रम्
५	" " " विषयके उदक सूत्रम्
६	" " " विषयके ज्योतिः सूत्रम्

७	"	"	"	"	प्रदीप सूत्रम्	
८-१०	"	"	"	"	विषयाणि पिरुहादि सूत्राणि	
११	निर्ग्रन्थी	विषयम्	"	"	आगमन गृहादि सूत्रम्	
१२	निर्ग्रन्थी	"	"	"	"	"
१३-१६	सागारिक	पारिहारिक	-अधिकारः	"		२१-२२
१३	सागारिक	पारिहारिक	सूत्रम्			
१४	निर्ग्रन्थ	निर्ग्रन्थी	विषयम्	अनिर्हृत	सागारिक पिरुहादि सूत्रम्	
१५-१६	"	"	विषये	निर्हृत	"	" सूत्रे
१७-१८	आहृतिका	निर्हृतिका	-अधिकारः	"		२२
१७	निर्ग्रन्थ	निर्ग्रन्थी	विषयकम्	आहृतिका	सूत्रम्	
१८	"	"	"	निर्हृतिका	सूत्रम्	
१९			अंशिका	प्रकृतम्	"	२२
१९	निर्ग्रन्थ	निर्ग्रन्थी	विषयकं	अंशिका	सूत्रम्	
२०-२३	पूज्य	भक्त	उपकरण	अधिकारः	"	२३-२४
२०-२३	निर्ग्रन्थ	निर्ग्रन्थी	विषयाणि	-पूज्यभक्तोपकरण	सूत्राणि	
२४			उपधि	प्रकृतम्	"	२४
२४	निर्ग्रन्थ	निर्ग्रन्थी	विषयकम्	उपधि	सूत्रम्	
२५			रजोहरण	-अधिकारः	"	२४
२५	निर्ग्रन्थ	निर्ग्रन्थी	विषयकं	रजोहरण	सूत्रम्	

तृतीय उद्देशकः

१-२	उपाश्रय	प्रवेश	प्रकृतम्	पृष्ठ	२५
१	निर्ग्रन्थ	विषयकं	निर्ग्रन्थोपाश्रय	प्रवेश	सूत्रम्
२	निर्ग्रन्थी	विषयकं	निर्ग्रन्थोपाश्रय	"	"
३-६	चर्म	-अधिकारः		"	२५-२६
३	निर्ग्रन्थी	विषयकं	सलोम चर्म	सूत्रम्	

४	निर्ग्रन्थ	”	”	”	
५	निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी	विषयकं	कृत्स्न	चर्म सूत्रम्	
६	”	”	अकृत्स्न	”	
७		कृत्स्नऽकृत्स्नावस्त्र-	अधिकारः	”	२६
७	निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी	विषयकं	कृत्स्नाऽकृत्स्न	वस्त्र सू०	
८-९		भिन्ना-ऽभिन्न	वस्त्र अधिकारः	”	२६-२७
८	निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी	विषयकम्	अभिन्न	वस्त्र सूत्रम्	
९	”	”	भिन्न	”	
१०-११		अवग्रहानन्तकाऽवग्रह	पट्टक-अधिकारः	”	२७
१०	निर्ग्रन्थ	विषयकम्	अवग्रहानन्तका-ऽवग्रह	पट्टक सू०	
११	निर्ग्रन्थी	”	”	”	
१२		निश्चा-	अधिकारः	”	२७
१२	निर्ग्रन्थी	विषयकं	निश्चा	सू०	
१३-१४		त्रिचतुः	कृत्स्न-अधिकारः	”	२८
१३	निर्ग्रन्थ	विषयकं	त्रिकृत्स्न	सू०	
१४	निर्ग्रन्थी	विषयकं	चतुः	कृत्स्न सू०	
१५		समवसरण-	अधिकारः	”	२८-२९
१५	निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी	विषयकं	समवसरण	सू०	
१६		वस्त्रपरिभाजन-	अधिकारः	”	२९
१६	निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी	विषयकं	वस्त्र परिभाजन	सू०	
१७		शय्या संस्तारक	परिभाजन-अधिकारः	”	२९
१७	निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी	विषयकं	शय्या संस्तारक	परिभाजन सू०	
१८		कृतिकर्म-	अधिकारः	”	२९
१८	निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी	विषयकं	कृतिकर्म	सू०	
१९		अन्तर गृहस्थानादि-	अधिकारः	”	२९
१९	निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी	विषयकम्	अन्तर गृहस्थानादि	सू०	
२०-२१		अन्तर गृहाख्यानादि-	अधिकारः	”	३०

२०-२१	निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी विषयके अन्तर गृहाख्यानादि सू०		
२२-२४	शय्या संस्तारक-अधिकारः	॥	३१
२२-२४	निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी विषयाणि शय्यासंस्तारक सू०		
२५-२६	अवग्रहाधिकारः	॥	३२-३३
२५-२६	निर्ग्रन्थ विषयाणि अवग्रह सू०		
३०	सेनाधिकारः	॥	३४
३०	निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी विषयकं सेना सू०		
३१	क्षेत्रावग्रह प्रमाण अधिकारः	॥	३४
३१	निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी विषयकम् क्षेत्रावग्रह प्रमाण सू०		


चतुर्थ उद्देशकः

१	अनुद्धाति-अधिकारः	पृष्ठ	३५
१	अनुद्धाति प्रकृतम्		
२	पाराञ्चिक-अधिकारः	॥	३५
२	पाराञ्चिक सू०		
३	अनवस्थाप्य-अधिकारः	॥	३६
३	अनवस्थाप्य सू०		
४-६	पङ्क्ति सचित्त द्रव्य कल्प-अधिकारः	॥	३६
४	सचित्त द्रव्यकल्प विषयकम् प्रत्राजना सू०		
५	मुण्डापना सू०		
६	शिक्षापना सूत्रम्		
७	उपस्थापना सूत्रम्		
८	सम्भोजना सूत्रम्		
६	संवासना सूत्रं च		

(८)

१०-११	वाचनाधिकारः	॥ ३६-३७
१०	वाचना विषयम् अविनीतादि सूत्रम्	
११	॥ विषयं विनीतादि सूत्रम्	
१२-१३	संज्ञाप्य-अधिकारः	॥ ३७
१२	दु.संज्ञाप्य सूत्रम्	
१३	सुसंज्ञाप्य ॥	
१४-१५	ग्लान-अधिकारः	॥ ३७-३८
१४	निर्ग्रन्थी विषयकं ग्लान सूत्रम्	
१५	निर्ग्रन्थ ॥ ॥ ॥	
१६-१७	काल क्षेत्रातिक्रान्त-अधिकारः	॥ ३८
१६	निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी विषयकं कालातिक्रान्त सूत्रम्	
१७	॥ ॥ ॥ क्षेत्रातिक्रान्त ॥	
१८	अनेपणीय-अधिकारः	॥ ३८-३९
१८	निर्ग्रन्थ विषयकम् अनेपणीय ॥	
१९	कल्पस्थिता-ऽकल्पस्थिति-अधिकारः	॥ ३९
१९	कल्पस्थिता-ऽकल्पस्थित ॥	
२०-२८	गणान्तरोपसम्पत्प्रकृतम्	॥ ३९-४३
२०	भित्तु विषयकं गणान्तरोपसम्पत्सूत्रम्	
२१	गणावच्छेदक विषयं ॥	
२२	आचार्य उपाध्याय विषयं ॥	
२३	भित्तुविषयं सम्भोग प्रत्ययिकं ॥	
२४	गणावच्छेदक विषयं संभोग प्रत्ययिकं	
२५	आचार्यउपाध्याय ॥ ॥ ॥	
२६	भित्तु विषयकम् अन्याचार्योपाध्यायोद्देशान् सूत्रम्	
२७	गणावच्छेदक विषयम् ॥ ॥	
२८	आचार्य उपाध्याय ॥ ॥ ॥	
२९	विष्वग्भवन्-अधिकारः	॥ ४३

२६	भिक्षु विषयकं विष्वग्भवन सूत्रम्		
३०	अधिकरण प्रकृतम्	”	४४
३०	भिक्षुं विषयकम् अधिकरण सूत्रम्		
३१	परिहारिक-अधिकारः	”	४५
३१	भिक्षु विषयकं परिहारिक सूत्रम्		
३२-३३	महानदी-अधिकारः	”	४५-४६
३२-३३	निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी विषयकं महानदी सूत्रे		
३४-३७	उपाश्रय विधि अधिकारः	”	४६-४७
३४-३५	निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी विषयकम् ऋतुबद्धोपाश्रयविधि सूत्र द्वयम्		
३६-३७	” ” विषयकं वर्षावासोपाश्रयविधि सूत्रद्वयम्		



पञ्चम उद्देशकः

१-४	ब्रह्मापाय-अधिकारः	पृष्ठ	४८
१	निर्ग्रन्थ ब्रह्मापाय विषयकं देव स्त्री सूत्रम्		
२	” ” ” देवी स्त्री ”		
३	निर्ग्रन्थी ” ” देवी पुरुष ”		
४	” ” ” देव पुरुष ”		
५	अधिकरण प्रकृतम्	”	४९
५	भिक्षु विषयकम् अधिकरण सूत्रम्		
६-९	संस्तृत निर्विचिकित्स अधिकार	”	४९-५०
६	भिक्षु विषयकं संस्तृत निर्विचिकित्स सूत्रम्		
७	” ” ” विचिकित्स ”		
८	” ” ” असंस्तृत निर्विचिकित्स सूत्रम्		
९	” ” ” ” विचिकित्स ”		

१०	उद्गार-अधिकारः	॥	५१
१०	निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी विषयकम् उद्गार सूत्रम्		
११	आहार विधि-अधिकारः	॥	५१
११	निर्ग्रन्थ विषयकम् आहारविधि सूत्रम्		
१२	पानक विधि प्रकृतम्	॥	५१-५२
१२	निर्ग्रन्थ विषयकं पानक विधि सूत्रम्		
१३-३६	ब्रह्मरक्षा-अधिकारः	॥	५२-५५
१३	निर्ग्रन्थी विषयकम् इन्द्रिय सूत्रम्		
१४	॥ ॥ श्रोतः ॥		
१५	॥ ॥ एकाकि ॥		
१६	॥ ॥ अचेल ॥		
१७	॥ ॥ अपात्र ॥		
१८	॥ ॥ व्युत्सृष्टकाय ॥		
१९	॥ ॥ आत्तापना ॥		
२०	॥ ॥ स्थानायत् ॥		
२१	॥ ॥ प्रतिमास्थायि सूत्रम्		
२२	निपद्या सूत्रम्	२३	उत्कटुकासन सूत्रम्
२४	वीरासन ॥	२५	दण्डासन ॥
२६	लगण्डशायि सूत्रम्	२७	अवाङ्मुख ॥
२८	उत्तान ॥	२६	आम्र कुब्ज ॥
३०	एक पार्श्वशायि सूत्रं च		
३१	निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी विषयकम् आकुञ्चन पट्ट सूत्रम्		
३२	॥ ॥ ॥ सावश्रयासन ॥		
३३	॥ ॥ ॥ सधिपाण पीठ फलक सूत्र०		
३४	॥ ॥ ॥ सवृन्तालावु सू०		
३५	॥ ॥ ॥ सवृन्त पात्र केसरिका सू०		
३६	॥ ॥ ॥ दारुण्डक सू०		

३७	मोक-अधिकारः	॥	५५
३७	निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी विषयकं मोक सू०		
३८-४०	परिवासित-अधिकारः	॥	५५-५६
३८	निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी विषयकम् आहार सू०		
३९	॥ ॥ ॥ आलेपन सू०		
४०	॥ ॥ ॥ मन्त्रण सू०		
४१	व्यवहार-अधिकारः	॥	५६-५७
४१	परिहार कल्पस्थित भिक्षु विषयं व्यवहार सू०		
४२	पुलाक भक्त-अधिकारः	॥	५७
४२	निर्ग्रन्थी विषयकं पुलाक भक्त सू०		

—

षष्ठ उद्देशकः


१	वचन अधिकारः	पृष्ठ	५८
१	निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी विषयकं वचन सू०		
२	प्रस्तार-अधिकारः	॥	५८-५९
२	प्रस्तार सू०		
३-६	कण्टकाद्युद्धरण-अधिकारः	॥	५९-६०
३	निर्ग्रन्थ सन्बन्धि कण्टकाद्युद्धरण विषयकं पाद सू०		
४	॥ ॥ प्राण-बीज-रज आद्युद्धरण विषयकम् अक्षिसूत्रम्		
५	निर्ग्रन्थी ॥ कण्टकाद्युद्धरण विषयकं पाद सू०		
६	॥ ॥ प्राण-बीजाद्युद्धरण विषयकम् अक्षि सू०		
७-९	दुर्ग-अधिकारः	॥	६०-६१
७	निर्ग्रन्थी विषयं दुर्ग सू०		
८	॥ ॥ पङ्क सू०		
९	॥ ॥ नौ सू०		

१०-१८	क्षिप्तचित्तादि-अधिकारः	॥ ६१-६३
१०	निर्ग्रन्थी विषयं क्षिप्तचित्ता सू०	
११	” ” द्वीप्तचित्ता सू०	
१२	” ” यक्षाविष्टा सू०	
१३	” ” छन्माद् प्राप्ता सू०	
१४	” ” उपसर्ग प्राप्ता सू०	
१५	” ” साधिकरणा सू०	
१६	” ” सप्रायश्चित्ता सू०	
१७	” ” भक्त पान प्रत्याख्याता सू०	
१८	” ” अर्थजात सू०	
१९	परिमन्थ-अधिकारः	॥ ६३-६४
१९	परिमन्थ प्रकृतम्	
२०	कल्पस्थिति अधिकारः	॥ ६४-६५
२०	कल्पस्थिति सूत्रम्	



प्रथमं परिशिष्टम्	— —	शब्दकोपः	— —	पृष्ठ	६६-१०२
द्वितीयं परिशिष्टम्	— —	पाठभेदः	— —	”	१०३-१०६
तृतीयं परिशिष्टम्	— —	प्रति परिचय	— —	”	१०७-१०८
चतुर्थं परिशिष्टम्	— —	विशेषनामानि	— —	”	१०९-१११
पञ्चमं परिशिष्टम्	— —	टिप्पणम्	— —	”	११२-११६







॥ श्रीः ॥

॥ श्री बृहत्कल्प सूत्रं सटीकम् ॥

टीकाकारस्य मंगलविधानम्-

येषां सदागमविकाशविधौ विधित्सा,
जन्मादिभीतमविनामभयप्रदित्सा ।
जात्यादिमानमदमत्तजनेषुकुत्सा,
तीर्थङ्करास्त इह नो भुवि शङ्कराःस्युः॥१॥
सतां कल्प्याऽकल्प्येप्रकृतिजनिते वस्तु निवहे,
निवृत्त्यै संशीतेः प्रवचनविदा कल्पितमिदम् ।
सुसूत्रं कल्पाख्यं विवृत्तिसहितं सल्लिपिमयं,
प्रकुर्वेऽसद्गर्वोलिपिकृतिकलायामचतुरः ॥२॥

मूल-नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीणं वा आमेतालपलंवे अभिण्णे
य पडिग्गाहित्तए ॥ १ ॥

टीका-नोक०-नोकल्पते निग्गं०-निर्गन्थानां निर्गन्थीनां वा 'आमे' आमं ताल-
प्रलम्बं अभिन्नं प्रतिप्रहीतुमिति योजना । अथ पदार्थः-नोकल्पते-नो समर्थो

भवति न युज्यते इत्यर्थः निर्ग्रन्थानां-साधूनां, निर्ग्रन्थीनां-साध्वीनां किम् ?-आसं-
अपक्वं-तालौ-वृक्ष विशेषः तत्रभवं तालं-तालफलां, प्रकर्षेण-लंबते इति प्रलंबं,
अभिन्नं-द्रव्यतोऽविदारितं, भावतोऽव्यपगतजीवं, किमित्याह-पडि०-प्रतिग्रहीतुम्-
आदातुमितिपदार्थः । प्रलम्बं द्विधा-मूल प्रलम्बं ताल प्रलम्बं वा, मूल प्रलम्बं-
डिड्डियादि, ताल प्रलम्बं-सल्लकी प्रभृतयः ॥ १ ॥

मूल-कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा आमे ताल पलंबे भिन्ने
पडिगाहित्तए ॥ २ ॥

टीका-(कल्पन्ते निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा आमानि-अपक्वानि ताल
प्रलम्बानि-फलानि भिन्नानि-खंडशः कृतानि प्रतिग्रहीतुम्) कप्प०-अस्य व्याख्या
प्राग्वत्, नवरं 'भिन्ने-भिन्नं-भावतोऽव्यपगतजीवं, द्रव्यतो भिन्नमभिन्नं वा तृतीय
चतुर्थ भंगवर्तीत्यर्थः ॥ २ ॥

मूल-कप्पइ निग्गंथाणं पक्के ताल पलंबे भिन्ने वा अभिन्ने वा
पडिगाहित्तए ॥ ३ ॥

नो कप्पइ निग्गंथीणं पक्के ताल पलंबे अभिन्ने पडिगाहित्तए ॥ ४ ॥

कप्पइ निग्गंथीणं पक्के ताल पलंबे भिन्ने पडिगाहित्तए, सेवि य विहि-
भिन्ने, नो चेव-णं अविहि-भिन्ने ॥ ५ ॥

टीका--एतानि त्रीणि सूत्राणि समक्रमेव व्याख्यायन्ते--“कप्प०-कल्पते नि०-
निर्ग्रन्थानां पक्के--पक्वं ताल प्रलम्बं द्रव्यतोभिन्नमभिन्नं वा प्रतिग्रहीतुम् ॥ ३ ॥
नो क०--नोकल्पते निर्ग्रन्थीनां प०-पक्वं ताल प्रलंबं अ०-अभिन्नं प०--प्रतिग्रही-
तुम् ॥ ४ ॥ क०-कल्पते नि०--निर्ग्रन्थीनां पक्कं--पक्वं ताल प्रलम्बं मि०--
द्रव्यतोभिन्नं प्रतिग्रहीतुं सेवि--तदपि वि०--विधिभिन्नं--विधिना' वक्ष्यमाण
लक्षणैः भिन्नं--विदारितं नो०--नचअविधिभिन्नं 'णं' वाक्यालङ्कारे ॥ ५ ॥

१-अविधिना विधिना च भिन्नस्य प्ररूपणा क्रियते तत्र यत्-चिर्भटादिकं विदार्थं ऊर्ध्वफालिरूपाः पेश्यः
कृतं तद् अजुक्क भिन्नम् यत् तु पेश्यः कृत्वा पुनः इलक्षणइलक्षणतरादिभिः खण्डैरनेकशदिष्टत्वा तथा
कृतं यथा भूयस्तदाकारं कर्तुं न पार्यते, तदेवं विधं विपमकुट्टभिन्नं मुच्यते, विधमैः-पुनस्तथा कर्तुमशक्यैः
कुट्टैः-इलक्षणं खण्डैर्भिन्नमिति व्युत्पत्तेः । एतच्च विधिभिन्नम् ।

अथ चाऽविधिभिन्ने ते सर्वे दोषा द्रष्टव्या येऽभिन्ने देवीष्टान्तेन वर्णिताः ॥ २० ॥ ५५ ॥

मूल—से गामंसि वा नगरंसि वा खेडंसि वा कव्वडंसि वा मडवंसि वा पट्टणंसि वा आगरंसि वा द्रोणमुहंसि वा निगमंसि वा रायहाणंसि वा आसमंसि वा संनिवेशंसि वा संवाहंसि वा घोसंसि वा अंसियंसि वा पुडभेयणंसि वा सपरिखेयंसि अवाहिरियंसि कप्पइ निग्गंथाणं हेमंत निग्गहासु एगं मामं वत्थए ॥ ६ ॥

टीका--से--से शब्दो मागधदेश प्रसिद्धः अथ शब्दार्थः, गा०--ग्रामेवा न०--नकरे वा खे०--खेटे वा क०--कर्वटे वा म०--मडवे वा ५०--पत्तने वा आ०--आकरे वा दो०--द्रोणमुखे वा नि०--निगमे वा रा०--राजधान्यां वा आ०--आश्रमे वा संति०--संनिवेशे वा सं०--संवाधे वा घो०--घोपे वा अं०--अंशिकायां वा पु०--पुट भेदने वा गा०--यत्र गवादीनां कराः सन्ति (गम्यो गमनीयो वा, अष्टादशानां करणाभिति, प्रसते वा बुद्ध्यादीन् गुणान् इति, ग्रामः) नास्ति--नविद्यतेऽत्राष्टादश-करणाभिकोऽपि करः इति नकरम्, खेटं-पुनर्धूलीप्राकारपरिक्षिप्तम् । कर्वटं तु कुनगरमुच्यते, मडम्वं नाम यत्सर्वतः--सर्वासुदिक्षुच्छिन्नं--अर्द्धं तृतीयं गव्यूत मर्यादायामविद्यमानं ग्रामादिकमिति भावः, अन्ये तु व्याचक्षते--यस्य पार्श्वतोऽर्द्धं तृतीयं योजनान्तर्ग्रामादिकं न प्राप्यते तन्मडम्बम् । पत्तनं द्विधा जल पत्तनं स्थल पत्तनञ्च, यत्र जलपथेन नावादिवाहनारूढं भाण्डमुपैति तज्जल पत्तनं, यथा द्वीपम् । यत्र तु स्थल पथेन शकटादौ स्थापितं भाण्डमायाति तत्स्थलपत्तनं यथा आनन्दपुरम् । अथ आकरादयः यत्र पाषाणधातु धमनादिना लोहमुत्पाद्यते स अथ आकरः, आदि शब्दात् ताम्ररूप्यका (प्या) चाकर परिग्रहः । दो०--यस्यतु जल पथेन स्थल पथेन च द्वाभ्यामपि प्रकाराम्बां भाण्डमुपागच्छति तद् द्रोण मुखम् (द्वयोः पथोर्मुखमिति निरुक्त्या) उच्यते, तच्च भृगुकच्छं ताम्रलिप्ती वा । निगमं नाम यत्र नैगमाः--वाणिजकविशेषास्तेषां वर्गः--समूहो वसति, अतएव निगमे भवा नैगमा इति व्यपदिश्यते । यत्र नगरादौ राजा परिवसति सा राजधानी । आश्रमो--यः प्रथमतस्तापसादिभिरावासितः, पश्चादपरोऽपिलोकस्तत्र गत्वा व-सति, नि०--निवेशो नाम--यत्र सार्थं आवासितः, आदिग्रहणेन ग्रामो वा अन्यत्र प्रस्थितः सन् यत्रान्तरावासमधिवासति, यात्रायां वा यतो लोको यत्र तिष्ठति एष सर्वोऽपि निवेशः । ('संवा० गाथा') सं०--संवाधोनाम--यत्र कृषीवल लोकोऽन्यत्र कर्षणं कृत्वा वणिग्वर्गो वा वाणिज्यं कृत्वा अन्यत्र पर्वतादिषु विपमेषु स्थानेषु

'संबोद्धुम्' इति कणादिकं समुह्य कोष्ठागारादौ च प्रक्षिप्य वसति (सः संवाधः) ।
 तथा घो०—घोषस्तु गोकुलमभिधीयते । अं०—अंशिका—यत्र ग्रामस्यार्द्धम्, आदि
 शब्दात् त्रिभागो वा चतुर्भागो वा गत्वारिथतः सा ग्रामस्यांश एव अंशिका । (गा०-
 नाणा०) पुड०—नाना प्रकाराभ्यो दिग्भ्य आगतानां भाण्डानां—कुङ्कुमादीनां पुटा
 यत्र-विक्रयार्थं भिद्यन्ते तत् पुटभेदनम्-उच्यते । (केषाञ्चित्मतेन 'संकरंसि वा' इत्यधिकं
 पदं पठितव्यम् । सङ्करोनाम किञ्चिद् ग्रामोऽपि खेटमपि आश्रमोऽपीत्यादि)
 सपरि०—सपरिक्षेपे—वृक्ष्यादिरूप परिक्षेपयुक्ते, अवा० 'अवाहिरिके—वहिर्भवा
 वाहिरिका [अध्यात्मादिभ्य इकण्, सिद्ध ६-३-७८ इति इकण् प्रत्ययः] प्राकार
 वहिर्वर्तिनी गृह पद्धतिरित्यर्थः, न विद्यते वाहिरिका यत्र तद् अवाहिरिकं तस्मिन्
 कल्पते निर्ग्रन्थानां 'हेमन्त ग्रीष्मेषु—ऋतु वद्ध काल सम्बन्धिषु अष्टसु मासेष्वित्यर्थः,
 एकं मासं वस्तु—अवस्थातुम्, वा शब्दाः सर्वेऽपि विकल्पार्थाः स्वगतानेक भेद सूचका
 वा द्रष्टव्याः इति सूत्र समासार्थः ।

मूल—सेगामंसि वा जाव रायहाणिसि वा सपरिक्खेवंसि सवाहिरि-
 यंसि कप्पइ निग्गंथाणं हेमंत—गिम्हासु दोमासे—वत्थए । अंतो एगं मासं,
 वाहिं एगं मासं । अंतोवसमाणायं अंतोभिक्खायरिया, वाहिं वसमाणायं
 वाहिंभिक्खायरिया ॥ ७ ॥

टीका—(अथ ग्रामे वा यावत् राजधान्यां वा वृक्ष्यादिरूप-परिक्षेपयुक्ते सपरि-
 क्षेपे) सवाहिरिके—प्राकारवहिर्वर्ति गृहपद्धतिरूपया वाहिरिकया सहिते कल्पते
 निर्ग्रन्थानां हेमन्त-ग्रीष्मेषु द्वौ मासौ वस्तुम् । कथमित्याह अन्तः—प्राकाराभ्यन्तरे
 एकं मासं, वहिः—वाहिरिकायामपि—एकं मासम् । अन्तर्वसतासन्तर्भिक्षाचर्या, वहि-
 र्वसतां वहिर्भिक्षाचर्येति ॥ ७ ॥

मूल—से गामंसि वा जाव रायहाणिसि वा सपरिक्खेवंसि अवाहिरियंसि
 कप्पइ निग्गंथीणं हेमंत—गिम्हासु दोमासे वत्थए ॥८॥

टीका—अस्य व्याख्या प्राग्वत् । (अथ ग्रामे वा यावत् राजधान्यां वा सपरि-
 क्षेपे) नवरम् (विशेषः) अवाहिरिकेक्षेत्रे कल्पते निर्ग्रन्थानां हेमन्त ग्रीष्मेषु द्वौ मा-
 सौ वस्तुमिति । ८ । ३ ।

मूल-से गामंसि वा जाव रायहाणिसि वा सपरिक्खेवंसि सवाहिरियंसि कप्पइ निग्गंथीणं हेमंत-गिम्हासु चत्तारि मासे वत्थए, -अंतो दो मासे, वाहिं दो मासे, अंतो वसमाणीणं अंतोभिक्खायरिया वाहिं वसमाणीणं वाहिं भिक्खायरिया । ६ । ४ ।

टीका-अस्य न्याख्या प्राप्तवत् । (अथ ग्रामे वा यावत् राजधान्यां वा सपरिक्षेपे) न वरम् (विशेषः) सवाहिरिके क्षेत्रे-अन्तर्द्वौ मासौ बहिर्द्वौ मासौ-इत्येवं चतुरो मासान् निर्ग्रन्थीनां वस्तुं कल्पते इति (अन्तर्वसन्तीनामन्तर्भिन्नाचर्या, बहिर्वसन्तीनां बहिर्भिन्नाचर्या) । ६ । ४ । वृत्तेरत्र प्रथमं खण्डं पूर्तिमगात् ।

मूल-से गामंसि वा जाव रायहाणिसि वा एगवगडाए एग द्वाराए एग निक्खमणपवेसाए नो कप्पइ निग्गंथाण य निग्गंथीण य एगत्तओ वत्थए । १० ।

टीका-से गामंसि०-से-अथ ग्रामे वा यावत् राजधान्यां वा यावत् करणात् नगरे वा खेडे वा इत्यादि पट्ट परिग्रहः । एगवगडाके०-वगडो नाम परिक्षेपः पर्वत प्राकारादिः तेन एकेन परिक्षिप्तो ग्राम एकवगड इति उच्यते । एगदु०-एकद्वारे-एक निष्क्रमण प्रवेशके च क्षेत्रे न कल्पते निर्ग्रन्थानां निर्ग्रन्थीनाञ्च एकतो मिलितानां वस्तुम्-अवस्थातुम्-इति सूत्रार्थः ॥ १० ॥

मूल-से गामंसि वा जाव रायहाणिसि वा अभिणिवगडाए अभिणि द्वाराए वा अभिणिक्खमण पवेसाए कप्पइ निग्गंथाण य निग्गंथीण य एगत्त उवत्थए ॥ ११ ॥

टीका-से गामंसिवा०-यावत् राजधान्यां वा अभिनिवगडाके “निपातानामनेकार्थत्वात्”-अभीत्यनेकानीति नियतावगडापरिक्षेपा यत्र तत् अभिनिवगडाकं तत्र, एवं अभिनिद्वारके-अभिनिष्क्रमण प्रवेशके च कल्पते निर्ग्रन्थानां निर्ग्रन्थीनां च वा एकतो वस्तुम्-इति सूत्रार्थः ॥ ११ ॥

मूल-नो कप्पइ निग्गंथीणं आथणगिहंसि वा रत्थामुहंसि वा सिंघाडगंसि वा तियं(कं)सि वा चउक्कंसि वा चचचरंसि वा अंतरावणंसि वा वत्थए । १२ ।

टीका-नो कप्पइ निग्गंथीणं आव०-नो कल्पते निर्ग्रन्थीनां आपणगृहे वा, रथ्यामुखे वा, शृंगाटके वा, त्रिके वा पन्थचतुष्के वा चत्तरे वा, अन्तरापणे वा वस्तुमिति सूत्र संक्षेपार्थः ॥ १२ ॥

मूल-कप्पइ निग्गंथाणं-आवणगिहंसि वा जाव अंतरावणंसि वा वत्थए ॥ १३ ॥

टीका--कप्पइ निग्गंथाणं--अस्य व्याख्या प्राग्वत् (कल्पते निर्ग्रन्थीनां आपण गृहे वा, रथ्यामुखे वा, शृंगाटके वा, त्रिके वा, चतुष्के वा, चत्तरे--सहापथे वा--अनेके पन्थानः सम्मिलन्ति तत्र, अन्तरापणे वा वस्तुमिति ॥ १३ ॥

मूल--नो कप्पइ निग्गंथीणं अवंगुय दुवारिए उवस्सए वत्थए, एणं पत्थारं अंतो किच्चा-एणं पत्थारं वाहिं किच्चा-ओहाडिय चेलचिल्लमिल्लियागंसि एवं णं कप्पइ वत्थए ॥ १४ ॥

टीका--नो कप्पइ--नो कल्पते निर्ग्रन्थीनां--व्रतिनीनां अपावृतद्वारके--उद्धटितद्वारे उपाश्रये वस्तुम्। सकपाटोपाश्रयात्ताभे तु तत्राऽपि वसन्ताभिः इत्थं विधिर्विधेया--एकं प्रस्तारकं--कटं अन्तः--प्रतिश्रयाभ्यन्तरे कृत्वा एकं प्रस्तारं--कटं वहिः कृत्वा ततोऽवघाटितं चेलचिल्लमिल्लिकाके--अवघाटिता वद्धा चिल्लमिल्लिका यत्रस तथा ईदृश उपाश्रये एवमनन्तरोक्तेन विधिना (णं) इति वाक्यालंकारे कल्पते वस्तुमिति सूत्र संक्षेपार्थः ॥ १४ ॥

मूल--कप्पइ निग्गंथाणं अवंगुय-दुवारिए उवस्सए वत्थए ॥ १५ ॥

टीका--कप्पइ--कल्पते निर्ग्रन्थीनां--अपावृत द्वारे उपाश्रये वस्तुमिति सूत्रार्थः ॥ १५ ॥

मूल--कप्पइ निग्गंथीणं अंतोलित्तयं घडिमत्तयं धारित्तए वा परिहरित्तए वा ॥ १६ ॥

टीका--कप्पइ--कल्पते निर्ग्रन्थीनां--व्रतिनीनां अन्तर्लिप्तघटिमात्रकं--घटी संस्थानं मृगमय भाजन विशेषं धारयितुं वा परिहर्तुं वा। धारयितुं नाम स्वसत्तायां स्थापयितुम् परिहर्तुं--परिभोक्तुम् एष सूत्रार्थः ॥ १६ ॥

मूल--नो कप्पइ निग्गंथाणं अंतोलित्तयं घडिमत्तयं धारित्तए वा परिहरित्तए वा ॥ १७ ॥

टीका-नोकप्पइ-अस्य व्याख्या पूर्ववत् (नो कल्पते निर्ग्रन्थानां अन्तर्हितं घटिमात्रकं धारयितुं वा परिहृतुं वा) ॥ १७ ॥

मूल-कप्पइ-निग्गंथाणं वा निग्गंथीणं वा चेल चिलमिलियं धारित्तए वा परिहरित्तए वा ॥ १८ ॥

टीका--कप्पइ-कल्पते निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा चेल चिलमिलिका धारयितुं वा परिहृतुं वा एष सूत्रार्थः, वस्त्र-रज्जु-कट-कल्क-दण्डभेदात् पञ्च विधां चिलमिलिकां वक्ष्यते तत्कथं सूत्रे चेलचिलमिलिकाया एव ग्रहणम् ? इत्याह-चेलन्त चस्त्रं रज्वादीनां मध्ये बहुतरोपयोगित्वात् प्रधानतरम् तस्यैव सूत्रे ग्रहणं कृतम्, नान्यासां रज्जुचिलमिलिकादीनाम् ॥ १८ ॥

मूल-"नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा दग्गीरंसिचिट्ठित्तए वा निसीइत्तए वा तुयट्ठित्तए वा निदाइत्तए वा पयलाइत्तएवा असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा आहारं आहारित्तए वा उच्चारं वा पासवणं वा खेलं वा सिंघाणं वा परिट्ठवित्तए वा, सज्झायं वा करित्तए धम्म जागरियं वा जागरित्तए (भाणं वा भाइत्तए) काउस्सग्गं वा ठाणं वा ठाइत्तए ॥ १९ ॥

टीका-"नोकप्प०-नोकल्पते निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा द्दक तीरे-उदकोप कण्ठे स्थातुं वा-उद्ध्वस्थितस्यासितुं वा, निपत्तुं उपविष्टस्यस्थातुं, त्वग्यर्तयितुं वा दीर्घकायं प्रसारयितुं । निद्रापितुं सुखप्रतिबोधावस्थया निद्रयाशयितुं प्रचलायितुं वा स्थितस्य स्वप्तुं अशनं वा पानं वा खादिसं वा स्वादिसं वा आहारयितुं वा, उच्चारं वा प्रस्त्रवणं वा खेलं वा, सिंघानं वा परिष्ठापयितुं वा स्वाध्यायं वा, वाचनादिकं कर्तुं धर्म जागरिकां वा धर्मध्यानलक्षणां जागरयितुं-कर्तुं, धातूनाम-नेकार्थत्वात् अत्र पाठान्तरम् । भाणं वा भाइत्तए-धर्मध्यानमनुसर्तुं इति कायो-त्सर्गं वा चेष्टाभिभवभेदात् द्विविधकायोत्सर्गं लक्षणं स्थानं स्थातुं कर्तुं इत्येष सूत्रार्थः ॥ १९ ॥

मूल-नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा सचित्त कम्म उवस्सए वत्थए ॥ २० ॥

टीका--नो कप्प०-नो कल्पते निर्ग्रन्थानां निर्ग्रन्थीनां वा सचित्रकर्मणि--चित्रकर्मणासंयुक्ते उपाश्रये वस्तुम् ॥ २० ॥

मूल—कप्पइ निग्गंथाणं वा निग्गंथीणं वा अचित्त कम्म उवस्सए वत्थए ॥ २१ ॥

टीका—कप्प०—कल्पते निर्ग्रन्थानां निर्ग्रन्थीनां वा अचित्त कर्मणि उपाश्रये वस्तुमिति सूत्रार्थः ॥ २१ ॥

मूल—नो कप्पइ निग्गंथीणं सागारिय-अणिस्साए वत्थए ॥ २२ ॥

टीका—नो कप्प०—नोकल्पते निर्ग्रन्थीनां सागारिकाऽनिश्रया शय्यातरे-णाऽपरिगृहीतानां वस्तुमिति ॥ २२ ॥

मूल—कप्पइ निग्गंथीणं सागारिय णिस्साए वत्थए ॥ २३ ॥

टीका—कप्प०—कल्पते निर्ग्रन्थीनां सागारिकनिश्रया- शय्यातरेणपरिगृही-तानां वस्तुं एव-सूत्रार्थः ॥ २३ ॥

मूल—कप्पइ निग्गंथाणं सागारिय णिस्साए वा अणिस्साए वा वत्थए ॥ २४ ॥

टीका—कप्प०—कल्पते निर्ग्रन्थानां सागारिक निश्रया वा अनिश्रया वा वस्तु-मिति ॥ २४ ॥

मूल—नो कप्पइ निग्गंथाणं वा निग्गंथीणं वा सागारिय उवस्सए वत्थए ॥ २५ ॥

टीका—नोकप्पइ—नोकल्पते निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा सागारिक द्रव्ये उपाश्रये—यत्र सागारिकस्य द्रव्यं वस्त्रालंकारादिकं तिष्ठति तत्र वस्तुमिति सूत्र संक्षेपार्थः ॥ २५ ॥

मूल—कप्पइ निग्गंथाणं वा निग्गंथीणं वा अप्पसागारिए उवस्सए वत्थए ॥ २६ ॥

टीका—कप्प०—इति सूत्रं सुगमम्—इदं सूत्रं वृत्तौ न दृश्यते (कल्पते निर्ग्र-न्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा अप्पसागारिके उपाश्रये वस्तुम् ॥ २६ ॥

मूल—नो कप्पइ निग्गंथाणं इत्थीसागारिए उवस्सए वत्थए ॥ २७ ॥

टीका—नो कप्पइ—इत्यादि-अस्यसूत्रं चतुष्टयस्य व्याख्या—नो कल्पते-निर्ग्र-न्थानां वा सागारिके उपाश्रये वस्तुम् ॥ २७ ॥

मूल—कप्पइ निगंथाणं पुरिस सागारिए उवस्सए वत्थए ॥२८॥

टीका—कप्पइ—कल्पते निर्ग्रन्थानां पुरुष सागारिके उपाश्रये वस्तुम् ॥ २८ ॥

मूल—नो कप्पइ निगंथीणं पुरिस सागारिए उवस्सए वत्थए ॥२९॥

टीका—नो कप्पइ—नो कल्पते निर्ग्रन्थीनां पुरुष सागारिके उपाश्रये वस्तुम् ॥२९॥

मूल—कप्पइ निगंथीणं इत्थि सागारिए उवस्सए वत्थए ॥३०॥

टीका—कप्पइ—कल्पते निर्ग्रन्थीनां स्त्री सागारिके उपाश्रये वस्तुमिति सूत्र चतुष्ट-
याक्षरार्थः ॥ ३० ॥

मूल—नो कप्पइ निगंथाणं पडिबद्धाए सेज्जाए वत्थए ॥३१॥

टीका—नो कप्पइ—नो कल्पते निर्ग्रन्थानां प्रतिबद्धशय्यायां—द्रव्यतो भावतश्च
प्रतिबद्धे उपाश्रये वस्तुमिति सूत्रार्थः ॥ ३१ ॥

मूल—कप्पइ निगंथीणं पडिबद्धाए सेज्जाए वत्थए ॥३२॥

टीका—कप्पइ—अस्य व्याख्या प्राग्वत् (कल्पते निर्ग्रन्थीनां प्रतिबद्धायां शय्यायां
वस्तुम्) ॥ ३२ ॥

मूल—नो कप्पइ निगंथाणं गाहावइ कुलस्स मज्झं मज्झेणं गंतु
वत्थए ॥३३॥

टीका—नो कप्पइ—नो कल्पते निर्ग्रन्थानां गृहपति कुलस्य मध्ये मध्ये गत्वा यत्र
निर्गम प्रवेशो क्रियते तत्र उपाश्रये वस्तुम् । उपलक्षणमिदम्—तेन गृहस्थाः यत्र संयतो-
पाश्रयस्य मध्ये मध्ये निर्गच्छन्ति प्रविशन्ति वा तत्राऽपि न कल्पते—वस्तुमिति
सूत्रार्थः ॥ ३३ ॥

मूल—कप्पइ निगंथीणं गाहावइ कुलस्स मज्झं मज्झेणं गंतु वत्थए ॥३४॥

टीका—कप्पइ—अस्य व्याख्या प्राग्वत् (कल्पते निर्ग्रन्थीनां) गाथापति कुलस्य
मध्ये मध्येनगत्वा वस्तुम् ॥ ३४ ॥

मूल—भिक्षू य अहिगरणं कट्ठं तं अहिगरणं अविओसविन्ता अवि-
ओसविय पाहुडे इच्छाए परो आढाएज्जा, इच्छाए परो नो आढाएज्जा,
इच्छाए परो अब्भुट्टेज्जा, इच्छाए परो नो अब्भुट्टेज्जा, इच्छाए परो
वंदेज्जा, इच्छाए परो नो वंदेज्जा, इच्छाए परो संभुजेज्जा, इच्छाए परो न

संभुजेज्जा, इच्छाए परो संवसेज्जा, इच्छाए परो नो संवसेज्जा, इच्छाए परो
 उवसमेज्जा इच्छाए परो नो उवसमेज्जा, जो उवसमइ तस्स अत्थि आरा-
 हणा जो न उवसमइ तस्स नत्थि आराहणा, तस्हा अप्पणा चेव उवसमि-
 यच्चं । से किमाहु भंते! उवसम सारं खु सामन्नं ॥३५॥

टीका--भिक्षूय०-भिन्नुः--सामान्य साधुः च शब्दस्यानुक्तसमुच्चयार्थत्वात्-
 आचार्योपाध्यायावपि गृह्येते, अधिक्रियतेनरकगतिगमनयोग्यतांप्राप्येते-आत्माऽनेन
 इति अधिकरणम्,-कलहः प्राभृतमिति एकार्थाः, तत्कृत्वा तथाविध द्रव्य क्षेत्रादि
 साचिष्यात् पापवृंहि तत् कषाय मोहनीयोदयात् द्वितीय साधुना सह विधाय तत्-
 म्वयं अन्योपदेशेन वा परिभाष्य तस्यैहिकामुष्मिकापायबहुलं वा तदधिकरणं-
 द्विविधैः-अनेकप्रकारैः स्तापराधप्रतिपत्तिपुरस्सरं मिथ्या-दुष्कृत प्रदानेन अव-
 शामय्य-उपशमं नीत्वा ततो विशेषेणावसायितं--अवसानानीतम् प्राभृतं--कलहो
 येन स व्यवसायित प्राभृतो उत्सृष्ट कलहो भवेत्, किमुक्तं भवति ? गुरु सकाशे स्व-
 दुश्चरितमालोच्य तत्प्रदत्तं प्रायश्चित्तञ्च यथावत् प्रतिपद्यते यः तत् अकरणायाभ्यु-
 त्तिष्ठेत्--आह येन तदधिकरणं उत्पन्नं स यदि उपशाम्यमानोऽपि नोपशामयति
 ततः कोविधिरित्याह-इच्छाए परो-इत्यादि सूत्रं-इच्छया यथा स्वरुच्या परं
 आद्रियते (प्रागिव संभाषणादिकमादरं कुर्यात् वा नवा इतिभावः) एवमिच्छयापरः
 तमभ्युत्तिष्ठेत्, इच्छया परो वन्देत् वा इच्छया परो न वन्देत्, इच्छया परः तेन
 साधुना सह सम्भुञ्जीत-एकं मण्डले भोजनादान ग्रहणं संभोगं वा कुर्यात्, इच्छया
 परो न सम्भुञ्जीत, इच्छया परः तेन साधुना सह संवसेत्, सम्-एकीभूय एकत्र उपाश्रये
 वसेत्, इच्छयापरो न संवसेत्, इच्छया पर उपशाम्येत्-इच्छया परः नोपशाम्येत् परं
 यः उपशामयति-कषायतापापगमेन निवृत्तो भवति तस्याऽस्ति सम्यक् दर्शनादीना-
 माराधना, यस्तु नोपशामयति तस्य नास्ति तेषामाराधना तस्मात्-एवं विचिन्त्य
 आत्मना एव उपशमितव्यम्-उपशमः कर्त्तव्यः । शिष्यः प्राह से किमाहु भंते ? अथ
 किमत्र कारणमाहुः भदन्त ? परं कल्याण योगिनः तीर्थकरादयः, सूरिराह-उव०-
 उपशम सारं श्रामय्यं तस्मात् विहीनस्य निष्फलतया विधानात्, उक्तञ्च दशवै-
 कालिकं निर्वृक्तौ "सामन्नमनुचरन्तस्स, कसाया जस्स उक्कडा होइ, मन्नामि उच्चु
 पुष्फं व निष्फलं तस्स-सामन्नं । इति सूत्रार्थः ॥ ३५ ॥

मूल—नो कप्पइ निगंथाण वा निगंथीण वा वासावासासु
चरित्तए ॥ ३६ ॥

टीका—नो कप्पइ—नो कल्पते निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा वर्षौपलक्षिता वर्षा वर्ष-
वर्षा तासु चरित्तुम् ॥ ३६ ॥ ['चर, गति भक्षणयोरिति धातोर्गत्यर्थो गृह्यते'] ग्रामानु-
ग्रामं पर्यटितुम्—इत्यर्थः । यद्वा भक्षणार्थोऽपि गृह्यते, तथाहि भक्षणं समुद्देशनं तच्च यथा
ऋतुवद्धे साधूनां, तथा वर्षासु कर्तुं नो कल्पते । तदानीं हि चतुर्थभक्तादि प्रत्याख्यान
परायणैर्भवितव्यम् । विकृतीनां चाऽभीक्षणग्रहणं न कर्तव्यमिति सूत्रार्थः ॥ ३६ ॥

मूल—कप्पइ निगंथाण वा निगंथीण वा हेमंत गिम्हासु चरि-
त्तए ॥ ३७ ॥

टीका—कल्पते निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा हेमन्त ग्रीष्मयोरष्टासु ऋतुवद्धमासेषु
चरित्तुं—ग्रामानुग्रामं पर्यटितुम् इति सूत्रार्थः ॥ ३७ ॥

मूल—नो कप्पइ निगंथाणं वा निगंथीणं वा वेरज्ज विरुद्ध रज्जंसि
सज्जं गमणं सज्जं आगमणं सज्जं गमणागमणं करित्तए । जो खलु निगंथो
वा निगंथी वा वेरज्ज विरुद्ध रज्जंसि सज्जं गमणं सज्जं आगमणं सज्जं
गमणागमणं करेइ, करं (रिं) तं वा साइज्जइ, से दुइओ वि वीतिकममाणे आव-
ज्जइ, चाउम्मासियं परिहार द्वाणं अणुग्घाइयं ॥ ३८ ॥

टीका—नो कल्पते निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा वैराज्यविरुद्ध राज्ये—यत्र राज्ये
पूर्वपुरुष परम्परागतं वैरं तद् वैराज्यमुच्यते । यत्र तु वणिजां शेषजनपदस्य च
निस्सञ्चारं कृतं—गमनागमन निषेधो विहितः, ततः वैराज्यविरुद्ध उच्यते, तत्र सद्यस्त-
त्कालंगमनम्, सद्य आगमनम्, सद्योगमनागमनं कर्तुम्, 'जो'—यः खलु निर्ग्रन्थो वा
निर्ग्रन्थी वा वैराज्यविरुद्धराज्ये सद्योगमनं सद्य आगमनं, सद्योगमनागमनं करोति,
कुर्वन्तं वा आस्वादयति—अनुमोदयति, स 'द्विधापि' तीर्थकृतां राज्ञश्च सम्बन्धिनी-
माज्ञामतिक्रामन् आपद्यते प्राप्नोति चातुर्मासिकं परिहारस्थानमनुद्धानिकं
चतुर्गुरुकमित्यर्थः, इति सूत्र संक्षेपार्थः ॥ ३८ ॥

मूल—निगंथं च णं गाहावइकुलं पिडवाय पडियाए अणुप्पविट्ठं केई
वत्येण वा पडिगइण वा कंज्जेण वा पाय—जुंछणेण वा उग्रनिर्गतिज्जा,

कप्पइ से सागारकडं गहाय आयरियपायमूले ठवित्ता दोच्चंपि उग्गहं
अणुणवित्ता परिहारं परिहरित्तए ॥ ३६ ॥

टीका—“निर्ग्रन्थं पूर्वोक्तशब्दार्थं च शब्दोऽर्थान्तरोपन्यासे, ‘णं, इति वाक्या-
लङ्कारे, गृहस्य पतिः—स्वामी गृहपतिः, तस्य कुलं—गृहं ‘पिण्डपात प्रतिज्ञया’ पिण्डः—
ओदनादिः, तस्य पातः—पात्रे प्रवेशः, तत्प्रतिज्ञया—तत्प्रत्ययमनुप्रविष्टं कश्चिद् उपा-
सकादिर्वस्त्रेण वा प्रतिग्रहेण वा कम्बलेन वा पात्रप्रोच्छन्नेन वा उपनिमन्त्रयेत् । वस्त्रं
सौत्रिकमिहगृह्यते, प्रतिग्रहः—पात्रम्, कम्बलम्—और्णिकः कल्पः, पात्रशब्देन तु पात्रवन्धं
पात्र केसरिका प्रभृतिकः पात्र नियोगः, प्रोच्छन्न शब्देन तु रजोहरणमुच्यते । आह च
चूर्णिकृत्—‘पायगहणेणं पायभंडयं गहियं । पुं छणं, रयहरणंति ।” ततश्च पात्रं च
प्रोच्छन्तं चेति पात्रप्रोच्छन्नमिति समाहारद्वन्द्वः । एतैः उप—सामीप्ये आगत्य
निमन्त्रयेत् । उपनिमन्त्रितस्य च ‘से, तस्य निर्ग्रन्थस्य ‘साकार कृतं’, आचार्यसत्क-
मेतद्वस्त्रं न मम, अतो यस्मै ते दास्यन्ति, अन्यस्मै वा मह्यं वा, आत्मना वा परि-
भोक्ष्यन्ते, तस्यै तद्भविष्यति, इत्येवं सविकल्पवचन—व्यवस्थापितं सद्गृहीत्वा तत्
आचार्यपादमूले तद्वस्त्रं स्थापयित्वा यदि ते तस्यैव साधोः प्रयच्छन्ति, तदा
द्वितीयमप्यवग्रहम्, एकस्तावद् गृहस्थादवग्रहोऽनुज्ञापितो द्वितीयं पुनराचार्यपाद
मूलादवग्रहमनुज्ञाप्य धारणा—परिभोगरूपं द्विविधमपि परिहारं तस्य वस्त्रस्य ‘परिहर्तुं,
धातूनामनेकार्थत्वाद् आचरितुं कल्पते, इति सूत्र संक्षेपार्थः ॥ ३९ ॥

मूल—निग्गंथं च णं वहिया वियारभूमिं वा विहारभूमिं वा निक्खंतं
समाणं केइ वत्थेण वा पडिग्गहेण वा कंबलेण वा पायपुंछणेण वा उव-
निमंतेज्जा, कप्पइ से सागारकडं गहाय आयरिय पायमूले ठवित्ता दोच्चंपि
उग्गहमणुणवित्ता परिहारं परिहरित्तए ॥ ४० ॥

टीका—“निग्गंथं च णं वहिया—अस्य व्याख्या प्राग्वत्, नवरं—वहिः विचार-
भूमौ—संज्ञासु, विहार भूमौ वा स्वाध्यायभूमिकायाम् ॥ ४० ॥

मूल—“निग्गंथिं च णं गाहावइकुलं पिण्डवाय पडियाए अणुणवित्त्वं
केइ वत्थेण वा पडिग्गहेण वा कंबलेण वा पायपुंछणेण वा उवनिमंतेज्जा,
कप्पइ से सागारकडं गहाय पवत्तिणि—पायमूले ठवित्ता दोच्चंपि उग्गह-
मणुणवित्ता परिहारं परिहरित्तए ॥ ४१ ॥

मूल—“निर्गन्धिं च ग्ं वहिया वियारभूमिं वा विहारभूमिं वा निम्बंतिं
समाणिं केड वत्थेण वा पडिग्गहेण वा कंबलेण वा पायपुंछणेण वा उव-
निमंतेज्जा, कप्पइ से सागारकडं गहाय पवत्तिणि पायमूले उवेत्ता दोच्चं-
पि उग्गहमणुसणवित्ता परिहारं परिहरित्तए ॥ ४२ ॥

टीका—सूत्र द्वयस्याऽपि व्याख्या प्राग्वत् ॥ ४१-४२ ॥

मूल—नो कप्पइ निर्गन्धाण वा निर्गन्धीण वा रात्रो वा वियाले वा
असणं वा पाणं वा खाइमं वा पडिगाहित्तए ॥ ४३ ॥

टीका—नो कल्पते निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा रात्रौ वा विकाले वा ‘अशनं
वा, ओदनादि ‘पानं वा, आयामादि, ‘खादिमं वा’ फलादि ‘स्वादिमं वा’ शुण्ठ्यादि
प्रतिग्रहीतुमिति सूत्रात्तरार्थः ॥ ४३ ॥

मूल—नऽन्नथ एगेणं पुव्वपडिलेहिएणं सेज्जासंथारएणं ॥ ४४ ॥

टीका—योऽयमुपर्युक्तः प्रतिषेधः स एकस्मात् पूर्व प्रत्युपेक्षितात्-शय्या-संस्तारका-
दन्यत्र । इहाऽन्यत्र शब्दः परिवर्जनार्थः । यथा-अन्यत्र द्रोणभीष्माभ्यां सर्वयोधाः
पराङ्मुखाः । द्रोण भीष्मौवर्जयित्वा, इत्यर्थः । तत्तश्चैकं शय्यासंस्तारकं (पूर्व प्रति
लेखितं-दिवा दृष्टं) विहायाऽपरं किमपि रात्रौ ग्रहीतुं न कल्पते । इति सूत्र-संक्षे-
पार्थः ॥ ४४ ॥

मूल—नो कप्पइ निर्गन्धाण वा निर्गन्धीण वा रात्रो वा वियाले वा
वत्थं वा पडिग्गहं वा कंबलं वा पायपुंछणं वा पडिगाहित्तए ॥ ४५ ॥

टीका—नो कल्पते निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा रात्रौ वा विकाले वा वस्त्रं वा
प्रतिग्रहं वा कम्बलं वा पादप्रोच्छन्नं वा प्रतिग्रहीतुमिति सूत्रात्तर गमनिका ॥ ४५ ॥

मूल—नऽन्नत्थ एगाए हरियाहडियाए । साविय परिभुत्ता वा धोया
वा रत्ता वा घट्टा वा मट्टा वा संपधूमिया वा ॥ ४६ ॥

टीका—न कल्पते रात्रौ वस्त्रादिकं ग्रहीतुं इत्युक्तम् । अन्यत्रैकस्या हताहृतिकाया
हरिताऽऽहृतिकाया वा । तत्र पूर्वहृतं पश्चादाहृतम्-आनीतं वस्त्रं हताहृतम्, तदेव
हताहृतिका स्वार्थे क प्रत्ययः । अतिवर्तन्ते स्वार्थिक प्रत्ययाः प्रकृत लिङ्ग वचनानि, इति

वचनान् अत्र लुद्धितः स्त्रीलिङ्ग निर्देशः । एवं हरितेषु-वनस्पतिष्वाहृतं हरिताहृतं
 वस्त्रम्, तदेव हरिताहृतिका । सापिच हृताहृतिका 'परिमुक्ता' परिधानादी व्यापा-
 रिता 'धौता' अप्कायेन प्रहालिता 'रक्ता' विचित्रवर्णकैरुपरक्षिता घृष्टा वट्टकादिना
 घट्टिता, 'मृष्टा' सुकुमारोक्तता 'सम्प्रभूमिता' धूपद्रव्येण समन्ततः प्रकर्षेण धूपिता ।
 वा शब्दाः सर्वेऽपि विकल्पार्थाः । एवं विधापि सा स्वीकर्तव्या, न पुनरसाद्यु प्रायोग्या
 कृतेति कृत्वा परिहर्तव्येति सूत्रार्थः ॥ ४३ ॥

मूल—नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा रात्रौ वा विकाले वा
 अद्धाण गमणं एत्तए ॥ ४७ ॥

टीका--नो कल्पते निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा रात्रौ वा विकाले वा अध्व-
 गमनम् एतुं-गन्तुमितिसूत्रार्थः ॥ ४७ ॥

मूल—(नो कप्पइ निग्गंथाणं वा निग्गंथीणं वा) संखडिं वा संखडि
 पडियाए एत्तए ॥ ४८ ॥

टीका--संखडिं वा, इति वा शब्दान् "न कल्पते" इत्यादि पदान्यनुवर्तनी-
 यानि । तद्यथा--न केवलमध्वानं रात्रौ वा विकाले वा गन्तुं न कल्पते किन्तु
 संखडिमपि रात्रौ वा विकाले वा सङ्घडिप्रतिज्ञया 'एतुं' गन्तुं न कल्पते । एष सूत्र-
 संचेत्तार्थः । (सम्-इति सामस्त्येन खण्ड्यन्ते-त्रोच्यन्ते जीवानां-वनस्पतिप्रभृतीना-
 मायूषि प्राचुर्येण यत्र प्रकरणविशेषे सा खलु सङ्घडिरित्युच्यते, तां सङ्घडिं
 'तत्प्रतिज्ञया' सङ्घडिमपि गन्तुं न कल्पते) ॥ ४८ ॥

मूल—नो कप्पइ निग्गंथस्स एगाणियस्स रात्रौ वा विकाले वा वहिया
 वियारभूमिं वा विहारभूमिं वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा । कप्पइ से
 अप्पविइयस्स वा अप्पत्तइयस्स वा रात्रौ वा विकाले वा वहिया वियार भूमिं
 वा विहार भूमिं वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा ॥ ४९ ॥

टीका--नो कल्पते निर्ग्रन्थस्य साधोरेकाकिनो रात्रौ वा विकाले वा बहिर्निचार-
 भूमिं वा विहारभूमिं वा उद्दिश्य प्रतिश्रयाद् निष्क्रमितुं वा प्रवेष्टुं वा । कल्पते से-

तस्य निर्ग्रन्थस्यात्मद्वितीयस्य वा आत्मतृतीयस्य वा रात्रौ वा विकाले वा बहिर्विचार
भूमिं वा विहार भूमिं वा निष्कर्मितुं वा प्रवेष्टुं वेति सूत्र समासार्थः ॥ ४६ ॥

मूल-नो कप्पइ निग्गंथीए एगाणियाए रात्रो वा वियाले वा बहिया
वियारभूमिं वा विहारभूमिं वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा । कप्पइ
से अप्प विइयाए वा अप्पतइयाए वा अप्प चउत्थीए वा रात्रो वा वियाले
वा बहिया वियार भूमिं वा विहार भूमिं वा निक्खमित्तए वा पविसि-
त्तए वा ॥ ५० ॥

टीका-अस्य सूत्रस्य व्याख्या प्राग्वत्, नवरं केवलं प्रमाणे निर्ग्रन्थेभ्यो निर्ग्रन्थीनां
नानात्वम् । निर्ग्रन्थानां द्वयोस्त्रयाणां वा निर्गन्तुं कल्पते । निर्ग्रन्थीनान्तु द्वयोस्ति-
सृणां चतसृणां वा इत्ययं संख्याकृतो विशेषः । ये च स्तेनाऽऽरक्षिकादयो दोषाः
पूर्वं सूत्रे यतीनामेकाकिनिर्गमने प्रोक्ताः । त एवार्याणामपि सविशेषतरास्तरुणा-
द्युपद्रवसहिता मन्तव्याः ॥ ५० ॥

मूल-कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा पुरत्थिमेणं जाव अंग-
मगहाओ एत्तए, दक्खिण्णेणं जाव कोसंबीओ एत्तए, पच्चत्थिमेणं जाव थूणा
विरुयाओ एत्तए, उत्तरेणं जाव कुणाला विसयाओ एत्तए, एताव ताव
कप्पइ । एताव ताव आरिए खेत्ते । णो से कप्पइ एत्तोवाहिं । तेण परं जत्थ
नाण दंसण चरित्ताइं उस्सप्पंतित्तिवेमि ॥ ५१ ॥ कप्पे पढमो उद्देशो ।

टीका-कल्पते निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा पूर्वस्यां दिशि यावद्भ्रमगधान् एतुं-
विहर्तुम् । अङ्गो नाम चम्पा प्रतिवद्धो जनपदः । मगधो राजगृह प्रतिवद्धोजनपदः ।
दक्षिणस्यां दिशि यावत् कौशाम्बीमेतुम् । प्रतीच्यां दिशि स्थूणाविपञ्चयावदेतुम् ।
उत्तरस्यां दिशि कुणाला विषयं यावदेतुम् । [सूत्रे पूर्वं दक्षिणादिपदेभ्यस्तृतीया
निर्देशो लिङ्गव्यत्ययश्च प्राकृतत्वात्] एतावत् तावत् क्षेत्रमवधीकृत्य विहर्तुं कल्पते ।
कुतः ? इत्याह-एतावत् तावत् यस्मादार्यक्षेत्रम् । नो 'से, तस्य निर्ग्रन्थस्य निर्ग्रन्थ्या
वा कल्पते 'अतः, एवंविधादार्यक्षेत्राद्बहिर्विहर्तुम् । ततः परं बहिर्देशेषु "अपि

सम्प्रतिनृपति कालादारभ्य” यत्र ज्ञान दर्शन चारित्राणि ‘उत्सर्पन्ति, स्फातिमासा-
द्यन्ति तत्र विहर्तव्यम् । ‘इति, परिसमाप्तौ, ब्रवीमीति तीर्थकर गणधरोपदेशेन
न तु स्वमनीषिकया इति सूत्रार्थः ।

प्रथम उद्देशकः समाप्तः



अथ द्वितीय उद्देशः प्रारभ्यते-

मूल—“उवस्सयस्स अंतोवगडाए सालीणि वा वीहीणि वा मुग्गाणि वा मासाणि वा तिलाणि वा कुलत्थाणि वा गोधूमाणि वा जवाणि वा जवजवाणि वा उक्खित्ताणि वा विक्खित्ताणि वा विइक्किन्नाणि वा विप्प-किन्नाणि वा, नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा अहालंदमवि वत्थए ॥ १ ॥

टीका—उपाश्रयस्य या ‘अन्तर्चगडा, वगडाया-अभ्यन्तरम्’ तच्च प्रतिश्रयमध्यं वा स्यात् प्राङ्गणं वा । तत्र ‘सालीणि व’न्ति शालिवीजानि वा, ‘वीहीणिव’न्ति व्रीहिवीजानि वा, एवं मुद्ग-माप-तिल-कुलत्थ-गोधूम-[यव] यवयवैरपि तत्तद्बीजान्युच्यन्ते, यवयवाः-यव विशेषास्तद्बीजानि वा । एतानि बीजानि यत्रोपाश्रये उत्तिप्तानि वा विक्षिप्तानि वा, व्यतिकीर्णानि वा, विप्रकीर्णानि वा, तत्र नो कल्पते निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा यथालन्दमपि वस्तुम् । इह यथालन्दं त्रिधा-जघन्यं मध्यममुत्कृष्टं च । यावता कालेन उदकाद्रोहस्तः शुष्यति तज्जघन्यम् । पञ्चरात्रिन्दि-वान्युत्कृष्टम् । तयोरपान्तराले सर्वमपि मध्यमम् । अत्र जघन्य मध्यमयोः सूत्रा-वतारः । अपि शब्दः सम्भावनायाम् । जघन्यमपि मध्यममपि वा यथालन्दं नो कल्पते वस्तुम्, किम्पुनरुत्कृष्टम् ? इति भावः । अत्र चोत्तिप्तादीनि पदानि भाष्य-गाथयैव व्याख्यास्यन्त इति नात्र व्याख्यातानीति सूत्रसंक्षेपार्थः ॥ १ ॥

मूल—अहपुणं एवं जाणिज्जा-नो उक्खित्ताइं नो विक्खित्ताइं नो विइक्किण्णाइं नो विप्पकिण्णाइं रासिकडाणि वा पुंजकडाणि वा भित्तिक-डाणि वा कुलियाकडाणि वा लंछियाणि वा मुहियाणि वा पिहिताणि वा, कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा हेमंत गिम्हासु वत्थए ॥ २ ॥

टीका-अथ पुनरेवं जानीयात्-‘तानिशात्वादीनित्रीजानि तत्रोपाश्रये नो उत्तिप्तानि, नो विक्षिप्तानि, नो विक्रीर्णानि, नो विप्रक्रीर्णानि, किन्तु राशीकृतानि वा, पुञ्जीकृतानि वा, भित्तिकृतानि वा, कुलिकाकृतानि वा, लाञ्छितानि वा, मुद्रितानि वा पिहितानि वा, तत एवं कल्पते निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा, हेमन्त-श्रीष्मेपु वस्तुमिति सूत्र संक्षेपार्थः ॥ २ ॥

मूल—अहपुण एवं जाणिज्जा-नो रासिकडाइं नो पुंजकडाइं नो भित्तिकडाइं नो कुलियकडाइं कोट्टाउत्ताणि वा पल्लाउत्ताणि वा मंचाउत्ताणि वा माला उत्ताणि वा ओलित्ताणि वा लिताणि वा पिहियाणि वा लंछियाणि वा मुहियाणि वा कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा चासावासं वत्थए ॥ ३ ॥

टीका-अथ पुनरेवं जानीयात्-नो राशीकृतानि नो पुञ्जीकृतानि नो भित्तिकृतानि नो कुलिकाकृतानि, कोट्टागुप्तानि वा पल्यागुप्तानि वा, मञ्जा गुप्तानि वा, माला-गुप्तानि वा अवलिप्तानि वा लिप्तानि वा पिहितानि वा लाञ्छितानि वा मुद्रितानि वा । तत्र कोष्ठे-कुशूले आगुप्तानि-प्रक्षिप्यरक्षितानि कोट्टाऽऽगुप्तानि । एवमुत्तर-त्रापि भावनीयम् । नवरं-‘पल्यं-वंशकटककदिकृतो धान्याऽऽधारविशेषः, मञ्चः-स्थूणानामुपरिस्थापित वंशकादिमयो लोकप्रसिद्धः, मालकः-गृहस्योपरितनोभागः, ‘अवलिप्तानि, नाम द्वारदेशे पिधानेन सह गोमयादिना कृतोपलेपानि, लिप्तानि-मृत्तिकया सर्वतः खरण्टितानि, पिहितानि-स्थगितानि ‘लाञ्छितानि-रेखाऽक्षरा-दिभिः कृतलाञ्छनानिमुद्रितानि, मृत्तिकादिमुद्रायुक्तानि । एवं विधेषु धान्येषु कल्पते निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा वर्षावासं वस्तुमिति सूत्रार्थः ॥ ३ ॥

मूल—“उवस्सयस्स अंतोवगडाए सुरावियडकुंभे वा सोवीरय वियड-कुंभे वा उवनिक्खित्ते सिया, नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा अहालंदमवि वत्थए । हुरत्था य उवस्सयं पडिलेहमाणे नो लमेज्जा, एवं से कप्पइ एगरायं वा दुरायं वा वत्थए । जे तत्थ एगरायाओ वा दुरायाओ वा परंवसइ से संतरा छेए वा परिहारे वा ॥ ४ ॥

टीका-सुराविकटं-पिष्टनिष्पन्नम्, सौवीरक विकटंतु-पिष्टवज्जैर्गुंडादिद्रव्यैर्निष्पन्नम् । ततः सुरा विकटकुम्भो वा सौवीरक विकटकुम्भो वा यत्रोपाश्रयस्याऽन्तर्वगडायासु-

पनिक्षिप्तः स्यात्-तत्र नोकल्पते निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा यथालन्दसपिकालं वस्तुम् 'हुरत्या य, क्षि देशीपदं वहिरर्थाभिधायकम् । च शब्दो वाक्यभेदद्योतकः, ततोऽयमर्थः-अथ वहिरन्योपाश्रयं प्रत्युपेक्षमाणोऽपि नो लभेत, ततएवं "से" तस्य साधोः कल्पते एकरात्रं वा द्विरात्रं वा तत्र वस्तुम् । यस्तत्रैकरात्राद्वा द्विरात्राद्वा 'परम्, ऊर्ध्वं व वसति 'से' तस्य संयत्तस्य, स्वान्तरात्, स्वकृतं यदन्तरं-त्रिरात्र-चतुरात्रादिकालावस्थानरूपं तस्मात् 'छेदो' वा पञ्चरात्रिन्द्वादिः, 'परिहारो, वा म.सन्धुकादिस्तपोविशेषो भवतीति सूत्रार्थः ॥ ४ ॥

मूल—उवस्सयस्स अंतोवगडाए सीप्रोदग विण्डकुंभे वा उमिणो-दग विण्डकुंभे वा उवनिक्खित्ते सिया, नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा अहालंदमवि वत्थए । हुरत्या य उवस्सयं पडिलेहमाणे नो लभेज्जा, एवं से कप्पइ एगरायं वा दुरायं वा वत्थए । जे तत्थ एगरायाओ वा दुरायाओ वा परं वसइ से संतरा छेए वा परिहारे वा ॥ ५ ॥

टीका-अस्य व्याख्या पूर्ववत्, नवरं-विकृतं-शीतोष्णादि शस्त्रेण विकारं प्रापितं, प्राशुक्तीकृतमित्यर्थः । शीतोदकं च तद् विकृतं च शीतोदक विकृतं तस्य कुम्भः-घटः । एवमुष्णोदक विकृतकुम्भोऽपि ॥ ५ ॥

मूल—उवस्सयस्स अंतोवगडाए सव्वराइए जोई भियाएज्जा, नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा अहालंदमवि वत्थए । हुरत्या य उव-स्सयं पडिलेहमाणे नो लभेज्जा, एवं से कप्पइ एगरायं वा दुरायं वा वत्थए । जे तत्थ एगरायाओ वा दुरायाओ वा परं वसइ से संतरा छेए वा परिहारे वा ॥ ६ ॥

टीका-व्याख्या प्राग्वत्, नवरं सार्वरात्रिकं 'ज्योतिः, अग्निर्यत्रोपाश्रये 'ध्यायेत्', धातूनामनेकार्थत्वात् प्रज्वलेत् तत्र साधु साध्वीनां वस्तुं न कल्पते ॥ ६ ॥

मूल—उवस्सयस्स अंतोवगडाए सव्वराइए पईवे दिप्पेज्जा, नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा अहालंदमवि वत्थए । हुरत्या य उवस्सयं पडिलेहमाणे नो लभेज्जा, एवं से कप्पइ एगरायं वा दुरायं वा वत्थए । जे तत्थ परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा वसइ से संतरा छेए वा परिहारे वा ॥ ७ ॥

टीका-व्याख्यानं ज्योतिःसूत्रवत् ॥ ७ ॥

मूल—उवस्सयस्स अंतोवगडाए पिण्णए वा लोयए वा खीरे वा दहिं वा नवणीए वा सर्पि वा तेल्ले वा फाणियं वा पूवे वा सक्कुली वा सिहरिणी वा उक्खित्ताणि वा विक्खित्ताणि वा विइक्किन्नाणि वा विप्प-इन्नाणि वा, नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा अहालंदमवि वत्थए ॥ ८ ॥

टीका-उपाश्रयस्यान्तर्वगडायां पिण्डको वा, लोचकं वा, क्षीरं वा, दधि वा, नवनीतं वा, सर्पिर्वा, तैलं वा, फाणित्तं वा, पूषं वा, शङ्कुलिका वा, शिखरिणी वा, एतान्युत्तिप्तानि वा, विक्षिप्तानि वा, व्यतिकीर्णानि वा, विप्रकीर्णानि वा भवेयुः, नो कल्पते निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा यथालन्दमपि वस्तुमिति सूत्रार्थः ॥ ८ ॥

मूल—अह पुण एवं जाणेज्जा—‘नो उक्खित्ताइं नो विक्खित्ताइं नो विइक्किण्णाइं नो विप्पक्किण्णाइं रासिकडाणि वा पुंजकडाणि वा भित्ति-कडाणि वा कुलिया कडाणि वा लंछियाणि वा मुहियाणि वा पिहियाणि वा कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा हेमंत गिम्हासु वत्थए ॥ ९ ॥

टीका-अस्य व्याख्या प्राग्वत्, नवरं यत्र पिण्डादीनि राशीकृतादिरूपाणि तत्र गीताश्रानां कल्पते ऋतुवद्धे वस्तुमिति सूत्रहृदयम् ॥ ९ ॥

मूल—अह पुण एवं जाणिएज्जा—‘नो रासिकडाइं जाव नो भित्तिकडाइं कोट्टाउत्ताणि वा पल्लाउत्ताणि वा मंचाउत्ताणि वा मालाउत्ताणि वा ओलित्ताणि वा विलित्ताणि वा कुंभित्ताणि वा करभित्ताणि वा लंछियाणि वा मुहियाणि वा पिहियाणि वा कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा वासावासं वत्थए ॥ १० ॥

टीका-अस्य व्याख्या प्राग्वत्, नवरं-कुम्भी-मुखाऽऽकारा कोष्ठिका, करभी-घट संस्थान संस्थिता, तयोरागुप्तानि-प्रक्षिप्य रक्षितानि कुम्भ्या गुप्तानि, करभ्याः गुप्तानि वा ॥ १० ॥

मूल—नो कप्पइ निग्गंथीणं अहे आगमणगिहंसि वा वियडगिहंसि वा वंसिंमूलंसि वा रुक्खमूलंसि वा अन्भावगासियंसि वा वत्थए ॥ ११ ॥

टीका-इह निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थीनां सामान्यतः सदोषा उपाश्रया उक्ताः । अथ केवलानामेव निर्ग्रन्थीनामभिधीयन्ते, इत्यनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या-अधः

शब्द इह अवशद्यार्थे । पथिकादीनामागमनेनोपेतं तदर्थं वा गृहमागमनगृहम् । विवृतम्-
अनावृतं गृहं विवृतगृहम् । वंसीमूलं नाम-गृहाद् बहिः स्थितमलन्दकादिकम् । वृत्त-
मूलं तु वृत्तस्थ-सहकारादेर्मूलम्-अधोभागः । अत्राकाशमाकाशमुच्यते । एतेषु
प्रतिश्रयेषु-निर्ग्रन्थीनां वस्तुं न कल्पते, इति सूत्र संचेपार्थः ॥ ११ ॥

मूल-कप्पइ निग्गंथाणं अहे आगमणगिहंसि वा वियडगिहंसि वा
वंसीमूलंसि वा रुक्खमूलंसि वा अब्भाग्गासियंसि वा वत्थए ॥ १२ ॥

टीका-अस्य प्राग्वद् व्याख्या ॥ १२ ॥

मूल-एगे सागारिए पारिहारिए-दो तिन्नि चत्तारि पंच सागारिया
पारिहारिया, एगं तत्थ कप्पागं ठवयित्ता अवसेसे निव्विसेज्जा ॥ १३ ॥

टीका-एकः सागारिकः-वसतिस्वामी परिहारं-परित्यागमर्हतीति व्युत्पत्त्या
पारिहारिकः, भिक्षाग्रहणे परिहर्तव्य इत्यर्थः । यथा चैकः सागारिकः पारिहारिकः
तथा द्वौ त्रयश्चत्वारः पञ्चसागारिकाः पारिहारिकाः, न तेषां बहूनामपि गृहेषु प्रवेष्टव्य-
मितिभावः । अथ सूत्रेणैव सूत्रमपवदति-एगं तत्थ कप्पागं, इत्यादि । बहुजनसाधा-
रणे देवकुलादौ स्थिताः 'तत्र, तेषु बहुषु सागारिकेषु मध्ये येन सागारिकतया स्थापि-
तेन शेषगृहेषु प्रवेष्टुं कल्पते, तमेकं कल्पकं स्थापयित्वा शेषेषु सागारिककुलेषु निर्वि-
शेषुः-प्रविशेयुरिति सूत्र संचेपार्थः ॥ १३ ॥

मूल-नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा सागारियपिण्डं वहिया
अनीहडं असंसट्ठं वा संसट्ठं वा पडिग्गाहित्तए ॥ १४ ॥

टीका-नो कल्पते निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा सागारिक पिण्डं बहिर्वाटकात्
अनिर्हृतम्, अनिष्क्रामितम् 'असंसृष्टं' वा अन्यदीय पिण्डैः सहाऽऽमीलितं, संसृष्टं
वा अन्यदीयपिण्डैः समं मीलितं प्रतिग्रहीतुमिति सूत्रार्थः ॥ १४ ॥

मूल-“नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा सागारियपिण्डं वहिया
नीहडं असंसट्ठं पडिग्गाहित्तए । कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा
सागारियपिण्डं वहिया नीहडं संसट्ठं पडिग्गाहित्तए ॥ १५ ॥

टीका-अस्य व्याख्या प्राग्वत् । नवरं सागारिक पिण्डो वाटकाद् बहिर्निष्क्रा-
मितोऽपि 'असंसृष्टः' अन्यपिण्डैः समममीलितो न कल्पते संसृष्टस्तु कल्पते इति ।

मूल-“जो खलु निग्गंथो वा निग्गंथी वा सागारियपिण्डं वहिया

नीहडं असंसड्डं संसड्डं करेड, करेतं वा साइज्जड, से दुहयो वीडकममाणे
आवज्जड चाउम्मासिअं परिहारड्ढाणं अणुण्वाइयं ॥ १६ ॥

टीका-यः खलु निर्ग्रन्थो निर्ग्रन्थी वा सागारिक पिण्डं वहिर्निर्गतमसंसृष्टं संसृष्टं
करोति कुर्वन्तं वा स्वाद्यति-कारयति कुर्वन्तमनुमन्यते वेत्यर्थः, स 'द्विधा, लौकिक
लोकोत्तरिकभेदाद् द्विप्रकारां मर्यादां व्यतिक्रामन् आपद्यते चातुर्मासिकं परिहारस्था-
नमनुद्घातिकम्, चतुरो गुरुमासानित्यर्थः । एष सूत्र संक्षेपार्थः ॥ १६ ॥

मूल—“सागारियस्स आहडिया सागारिएण पडिग्गहिया, तम्हा
दावए नो से कप्पइ पडिग्गहिच्चए । सागारियस्स आहडिया सागारिएण
अपडिग्गहिया, तम्हा दावए एवं से कप्पइ पडिग्गहिच्चए ॥ १७ ॥

टीका-‘आहृतिका, प्रहेणकं सा सागारिकस्य गृहे कुतोऽपि गृहान्तराद्वागता,
सा च सागारिकेण ‘प्रतिगृहीता, स्वीकृता ‘ततः तस्या मध्यात् दद्यात्, नो ‘से, तस्य
साधोः कल्पते प्रतिगृहीतुम् । सागारिकस्याहृतिका सागारिकेण ‘अप्रतिगृहीता, न
स्वीकृता तस्या मध्यात् दद्यादेवं ‘से, तस्य साधोः कल्पते प्रतिगृहीतुमिति सूत्र
संक्षेपार्थः ॥ १७ ॥

मूल—“सागारियस्स नीहडिया परेण अपडिग्गहिता, तम्हा दावए
नो से कप्पइ पडिग्गहिच्चए । सागारियस्स नीहडिया परेण पडिग्गहिया,
तम्हा दावए एवं से कप्पइ पडिग्गहिच्चए ॥ १८ ॥

टीका-‘व्याख्या प्राग्वत्, नवरं सागारिक द्रव्यं यदन्यत्रनीयते सा निर्हृति-
केत्युच्यते । सा यस्य समीपे प्रेषिता तेनाऽप्रतिगृहीता न कल्पते प्रतिगृहीता तु
कल्पते ॥ १८ ॥

मूल—“सागारियस्स अंसियाओ अविभत्ताओ अव्वोच्छिन्नाओ
अव्वोगडाओ अनिज्जूढाओ, तम्हा दावए नो से कप्पइ पडिग्गहिच्चए ।
सागारियस्स अंसियाओ विभत्ताओ वोच्छिन्नाओ वोगडाओ निज्जूढाओ,
तम्हा दावए एवं से कप्पइ पडिग्गहिच्चए ॥ १९ ॥

टीका-सागारिकस्य या अंशिका तस्या अन्येषामंशिकाभ्योऽविभक्ताया अव्य-
वच्छिन्नाया अव्याकृताया अनिर्गूढाया मध्यात् कश्चिद्भक्तपानं दद्यात्, नो से-तस्य
साधोः कल्पते प्रतिगृहीतुम् । सागारिकस्यांशिका विभक्ता व्यवच्छिन्ना व्याकृता

निर्गूढा च यस्माद् राशेर्भवति तस्माद् दद्याद्, एवं 'से, तस्य कल्पते प्रतिग्रहीतु-
मिति सूत्र संक्षेपार्थः ॥ १६ ॥

मूल—“सागारियस्स पूयाभत्ते उद्देसिए चेइए पाहुडियाए, सागारि-
यस्स उवगरणजाए निड्डिए निसड्डे पाडिहारिए, तं सागारिओ देज्जा
सागारियस्स परिजणो देज्जा, तम्हा दावए नो से कप्पइ पडिग्गाहित्तए ॥ २० ॥

व्याख्या—सागारिकस्य ये पूज्याः—स्वामिकलाचार्यादयः, तदर्थं भक्तम्—अश-
नादि पूज्यभक्तम्, तच्चोद्देशः—सङ्कल्पः तेन निवृत्तमौद्देशिकम्, तानेव पूज्यानुद्दिश्य
कृतमित्यर्थः । ततस्तेषामेव प्राभृतिकायां चेतितं दौकनीकृतम् उपनीतमितिभावः ।
तथा सागारिकस्य उपकरणजातं वस्त्रं कम्बलादिकं पूज्यानामर्थाय 'निष्ठितम्,
निष्पादितम् । ततः 'निसृष्टं, पूज्येभ्यः प्रदत्तम् । 'तच्च, भक्तमुपकरणं वा तेभ्यः प्राति-
हारिकं दत्तम्, मुक्तावशेषं सद्दिदं भूयोऽप्यस्माकं प्रत्यर्पणीयमिति भावः । तद् एवं
प्रकारं संयतानां सागारिको वा दद्यात्, सागारिकस्य परिजनो वा दद्यात् किंकल्पते ?
नत्रा ? इत्याह—'तस्मात् पूज्यभक्तात् पूज्योपकरणाद्वा प्रातिहारिकाद् दद्यात्, परं न
कल्पते प्रतिग्रहीतुमिति सूत्रार्थः ॥ २० ॥

मूल—“सागारियस्स पूयाभत्ते उद्देसिए चेइए जाव पाडिहारिए,
तं नो सागारिओ देज्जा नो सागारियस्स परिजणो देज्जा, सागारियस्स
पूया देज्जा, तम्हा दावए नो से कप्पइ पडिग्गाहित्तए ॥ २१ ॥

व्याख्या—प्राग्बत् नवरम्—अत्र न सागारिको न वा सागारिकस्य परिजनो दद्यात्
किन्तु सागारिकस्य पूज्यः, सम्बन्धि स्वाम्यादिर्दद्यात्, तथापि न कल्पते, प्रातिहारिक-
तया दत्तमिति कृत्वा सागारिक पिण्डत्वात् ॥ २१ ॥

मूल—“सागारियस्स पूयाभत्ते उद्देसिए चेइए पाहुडियाए सागारि-
यस्स उवगरणजाए निड्डिए निसड्डे अपाडिहारिए तं सागारिओ देइ
सागारियस्स परिजणो देइ तम्हा दावए नो से कप्पइ पडिग्गाहित्तए ॥ २२ ॥

टीका—अयमप्रातिहारिकतया सागारिक पिण्डो न भवति, परं सागारिकस्तत्प-
रिजनो वा दद्यातीति कृत्वा प्रक्षेपकादि दोष सदभावात् न कल्पते ॥ २२ ॥

मूल—“सागारियस्स पूयाभत्ते जाव अपाडिहारिए, तं नो सागारि-

श्रोदेइ, नो सागारियस्स परिजणो देइ सागारियस्स पूयादेइ, तम्हा दावण
एवं से कप्पइ पडिगाहित्तए ॥ २३ ॥

टीका-अत्र सागारिकेणादृष्टं तत्पूज्योऽप्रातिहारिकं ददातीति कल्पते, परं द्वितीय-
पदे, नोत्सर्गतः ॥ २३ ॥

मूल—“कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा इमाइं पंच वत्थाइं
धारित्तए वा परिहरित्तए वा, तं जहा जंगिए भंगिए साणए पोत्तए तिरी-
डपट्टे नामं पंचमे ॥ २४ ॥

टीका-कल्पते निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा इमानि पञ्चवस्त्राणि धारयितुं वा
परिग्रहे धर्तुं परिहर्तुं वा परिभोक्तुम् । तद्यथा जङ्गमाः-त्रसाः, तदवयव निष्पन्नं
जाङ्गमिकम्, सूत्रे प्राकृतत्वाद्-मकारलोपः, भङ्गा-अतसीतन्मयं भाङ्गिकम्, सन-
सूत्रमयं सानकम्, पोतकं, कार्पासिकम्-तिरीटः-वृक्षविशेषस्तस्य यः पट्टो वल्क-
लक्षणस्तन्निष्पन्नं तिरीट पट्टकं नाम पञ्चमम् । एष सूत्र संचेपार्थः ॥ २४ ॥


मूल—“कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा इमाइं पंच रयहरणाइं
धारित्तए वा परिहरित्तए वा, तं जहा—उरिणए उट्टिए साणए वच्चा-
चिप्पए मुंजचिप्पए नाम पंचमे ॥ २५ ॥ त्तिवेमि विइओ उद्देसओ ।

टीका-कल्पते निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा इमानि पञ्चरजोहरणानि धारयितुं
वा परिहर्तुं वा । ‘तद्यथा, इति उपप्रदर्शनार्थः । और्णिकम् ऊरुणिकानामूर्णाभिर्नि-
वृत्तम्, ‘औष्णिकं, उष्णोमभिर्निवृत्तम्, ‘सानकं, सनवृक्ष वल्काद्जातम्, वच्चकः-
वृक्षविशेषस्तस्य चिप्पकः-कुट्टितः-त्वग्रूपः तेन निष्पन्नं वच्चक चिप्पकम्, मुञ्जः-
शरस्तम्बस्तस्य चिप्पकाद् जातं मुञ्जचिप्पकं नाम पञ्चममिति सूत्रार्थः ॥ २५ ॥

इति द्वितीयोद्देशकः



अथ तृतीय उद्देशः



मूल—“नो कप्पइ निगंथीणं निगंथीणं उवस्सयंसि चिड्डित्ताए वा
निसीइत्ताए वा तुयड्डित्ताए वा निदाइत्ताए वा पयलाइत्ताए वा असणं वा
४ आहारं आहारित्ताए, उच्चारं वा पासवणं वा खेलं वा सिंघाणं वा
परिड्डित्ताए, सज्जायं वा करित्ताए, भ्माणं वा भ्माइत्ताए, काउस्सग्गं वा
ठाणं वा ठाइत्ताए ॥ १ ॥

टीका—“नो कल्पते निर्ग्रन्थानां निर्ग्रन्थीनामुपाश्रये स्थातुं वा निषत्तुं वा स्वग्-
चर्तयितुं वा निद्रायितुं वा प्रचलायितुं वा अशनं वा पानं वा खादिसं वा स्वादिसं
वा चतुर्निधमप्याहारमाहर्तुम्, उच्चारं वा प्रसवणं वा खेलं वा सिंघाणं वा
परिष्ठापयितुम्, स्वाध्यायं वा कर्तुम्, ध्यानं वा ध्यातुम्, कायोत्सर्गं वा स्थानं स्थातु-
मिति सूत्रसंक्षेपार्थः ॥ १ ॥

मूल—नो कप्पइ निगंथीणं निगंथउवस्सयंसि चिड्डित्ताए वा जाव
काउस्सग्गं वा ठाणं ठाइत्ताए ॥ २ ॥

टीका—यथा निर्ग्रन्थानां निर्ग्रन्थोपाश्रये गमनादिकं कर्तुं न कल्पते तथा तासां-
मपि निर्ग्रन्थीनां यति निलये निर्ग्रन्थोपाश्रये निष्कारणे गमनादिकं कर्तुं न कल्पते ।
[एतदर्थप्रतिपादनार्थमिदं सूत्रमारभ्यते । अत्र च यत् प्रायश्चित्त दोषजालादि-
पूर्वं सूत्रोक्तं ‘यत्र’ निष्कारणगमनादौ युज्यते तत्र तद् ‘ज्ञेयं’ स्वबुध्याऽभ्यूह्य
ज्ञातव्यम्] ॥ २ ॥

मूल—नो कप्पइ निगंथीणं सलोमाइं चम्माइं अहिड्डित्ताए ॥ ३ ॥

टीका--नो कल्पते निर्ग्रन्थीनां सलोमानि चर्माणि 'अधिष्ठातुं' निषदनादिना परिभोक्तुमिति सूत्रार्थः ॥ ३ ॥

मूल--कप्पइ निग्गंथाणं सलोमाइं चम्माइं अहिड्डिचाए सेविय परिभुत्ते नो चेव णं अपरिभुत्ते, से विय पाडिहारिए नो चेव णं अप्पडिहारिए, से वि य एगराइए नो चेव णं अणेगराइए ॥ ४ ॥

टीका--कल्पते निर्ग्रन्थानां सलोमानि चर्माणि 'अधिष्ठातुं' परिभोक्तुम् । तत्रापि यच्चर्म परिभुक्तं तदेव ग्राह्यं नापरिभुक्तम् । तदपि च प्रातिहारिकं नाप्रातिहारिकम् तदपि चैकरात्रिकं नैवानेकरात्रिकमिति सूत्रार्थः ॥ ४ ॥

मूल--नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा कसिणाइं चम्माइं धारित्तए वा परिहरित्तए वा ॥ ५ ॥

टीका--नो कल्पते निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा कृत्स्नानि वर्णप्रमाणादिभिः प्रतिपूर्णानि चर्माणि धारयितुं वा परिहर्तुं वेति सूत्रार्थः ॥ ५ ॥

मूल--कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा अकसिणाइं चम्माइं धारित्तए वा परिहरित्तए वा ॥ ६ ॥

टीका--कल्पते निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा [अकृत्स्नानि] चर्माणि धारयितुं वा परिहर्तुं वा इति सूत्रार्थः ॥ ६ ॥

मूल--नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा कसिणाइं वत्थाइं धारित्तए वा परिहरित्तए वा । कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा अकसिणाइं वत्थाइं धारित्तए वा परिहरित्तए वा ॥ ७ ॥

टीका--"नो कप्पइ" ति आर्षत्वादेकवचनम् नो कल्पन्ते निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा कृत्स्नानि सकल कृत्स्नादि रूपाणि वस्त्राणि 'धारयितुं वा' परिग्रहे धर्तुं 'परिहर्तुं वा' परिभोक्तुम्, अकृत्स्नानि तु कल्पन्ते, इति सूत्रसंज्ञेपार्थः ॥७॥

मूल--"नोकप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा अभिन्नाइं वत्थाइं धारित्तए वा परिहरित्तए वा ॥ ८ ॥

टीका--नोकल्पते निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा 'अभिन्नानि, अच्छिन्नानि वस्त्राणि धारयितुं वा परिहर्तुं वेति ॥ ८ ॥

मूल—कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा भिन्नाइं वत्थाइं धारित्तए वा परिहरित्तए वा ॥ ६ ॥

टीका—अस्य व्याख्या प्राग्भवत्. (कल्पते निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीन्तं वा भिन्नानि-
च्छिन्नानि वस्त्राणि धर्तुं वा परिभोक्तुं वा) ॥ ६ ॥

मूल—नो कप्पइ निग्गंथाणं उग्गहणंतं वा उग्गहपट्टं वा धारित्तए वा परिहरित्तए वा ॥ १० ॥

टीका—नोकल्पते निर्ग्रन्थानाम् 'अवग्रहाऽतन्तकं वा' गुह्यदेशपिधान-
वस्त्रम् 'अवग्रहपट्टकं वा' तस्यैवाच्छादकपट्टं धारयितुं वा परिहर्तुं वा इति सूत्र-
संक्षेपार्थः । १० ॥

मूल—कप्पइ निग्गंथीणं उग्गहणंतं वा उग्गहपट्टं वा धारित्तए वा परिहरित्तए वा ॥ ११ ॥

टीका—अस्य व्याख्या प्राग्भवत् ॥ ११ ॥

मूल—निग्गंथीए अ गणावइकुलं पिंडवाय पडियाए अणुप्पविट्ठाए चेलटटे समुप्पज्जेज्जा, नो से कप्पइ अप्पणो नीसाए चेलं पडिग्गाहित्तए, कप्पइ से पत्तिणी नीसाए चेलं पडिग्गाहित्तए । नो य से तत्थ पत्तिणी सामाणा सिया जे तत्थ सामाणे आयरिए वा उवज्जाए वा पत्ति वा थेरे वा गणी वा गणधरे वा गणावच्छेइए वा जं चऽन्नां पुरओ कट्टु विहरइ कप्पइ से तन्नीसाए चेलं पडिग्गाहित्तए ॥ १२ ॥

टीका—निर्ग्रन्थ्या गृहपतिकुलं पिण्डपात प्रतिज्ञया अनुप्रविष्टयाश्चोत्तेनाऽर्थः—
प्रयोजनं चेतार्थः स समुत्पद्येत, नो से, तस्याः कल्पते आत्मनो निश्रया चेलं प्रति-
ग्रहीतुम्, किन्तु कल्पते 'से' तस्याः प्रवर्तिनी निश्रया चेलं प्रतिग्रहीतुम् । अथ तत्र न-
प्रवर्तिनी 'सामाणा' सन्निहिता ततो यस्तत्राचार्यो वा उपाध्यायो वा प्रवर्ती वा
स्थविरो वा गणीवा गणधरो वा गणावच्छेदको वा सन्निहितो भवेत् । 'गणी' गणा-
धिपतिराचार्यः, 'गणधरः' संयतीपरिवर्तकः शोषाः सर्वेऽपि प्रतीताः । एतेषां निश्रया-
यं वा 'अन्यं' गीतार्थं साधुं पुरतः कृत्वा विहरति तन्निश्रया कल्पते 'से' तस्याश्चेलं
प्रतिग्रहीतुमिति सूत्रसंक्षेपार्थः । १२ ॥

मूल—निगंथस्स तप्यढमयाए संपव्वयमाणस्स कप्पइ रयहरण
गोच्छग पडिग्गहमायाए तिहिं कसिणेहिं वत्थेहिं आयाए संपव्वइत्तए ।
से अ पुव्वोवट्ठिण्णए सिया एवं से नो कप्पइ रयहरण पडिग्गह गोच्छय
मायाए तिहिय कसिणेहिं वत्थेहिं आयाए संपव्वइत्तए । कप्पइ से अहा,
परिग्गहियाइं वत्थाइं गहाय आयाए संपव्वइत्तए ॥ १३ ॥

टीका—निर्ग्रन्थस्य तत्प्रथमतया सम्-इति सम्यग्, प्रकर्षेण पुनरनङ्गीकार
लक्षणेन द्रजतो-गृहवासान्निर्गच्छतः संप्रव्रजतः कल्पते रजोहरण गोच्छक-प्रतिग्रह-
मादाय त्रिभिः कृत्स्नैर्वस्त्रैरात्मना सम्प्रव्रजितुम् । इह रजोहरण ग्रहणेन मध्यमोपधिः,
गोच्छक ग्रहणेन जयन्योपधिः, प्रतिग्रहग्रहणेनोत्कृष्टोपधिः सर्वोगृहीतः, ततोऽयमर्थः—
जयन्य मध्यमोत्कृष्टोपधि निष्पन्ना ये त्रयः कृत्स्नाः-प्रतिपूर्णा बल पात्र प्रत्यवतारा-
स्तरात्मना सहितैः प्रव्रज्या ग्रहीतुं कल्पते । 'से य' इति च शब्दोऽथ शब्दार्थः,
अथाऽसौ प्रव्रज्याप्रतिपत्ता पूर्वम् उपस्थितः-दीक्षितः स्यात् ततो नो कल्पते 'से'
तस्य पूर्वोपस्थितस्य रजोहरण गोच्छक प्रतिग्रहमादाय त्रिभिः कृत्स्नैर्वस्त्रैरात्मना
सम्प्रव्रजितुम् । किन्तु कल्पते 'से' तस्य 'यथापरिगृहीतानि क्रीतकृतादिदोषरहितानि
षस्त्राणि गृहीत्वा आत्मना संप्रव्रजितुमिति सूत्र संचेपार्थः ॥ १३ ॥

मूल—निगंथीए णं तप्यढमयाए संपव्वयमाणीए कप्पइ से रयहरण—
गोच्छग—पडिग्गहमायाए चउहिं कसिणेहिं वत्थेहिं आयाए संपव्वइत्तए ।
साय पुव्वोवट्ठिया सिया एवं से नो कप्पइ रयहरण गोच्छग पडिग्गह मा-
याए चउहिं कसिणेहिं वत्थेहिं आयाए संपव्वइत्तए कप्पइ से अहापरिग्गहि-
एहिं वत्थेहिं आयाए संपव्वइत्तए ॥ १४ ॥

टीका—अस्य व्याख्या प्राग्वत्, नवरं निर्ग्रन्थ्याश्चतुर्भिः प्रत्यवतारैः सहितायाः
प्रव्रजितुं कल्पते इति विशेषः ॥ १४ ॥

मूल—नो कप्पइ निगंथाण वा निगंथीण वा पढमसमोसरणुद्देसपत्ताइं
चेलाइं पडिग्गाहित्तए । कप्पइ निगंथाण वा निगंथीण वा दोच्च समो-
सरणुद्देसपत्ताइं चेलाइं पडिग्गाहित्तए ॥ १५ ॥

टीका—“नो कप्पइ” इति आर्पत्वादेकवचनम्-नो कल्पन्ते निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां
वा प्रथमसमवसरणे-वर्षाकाज्ञे उद्देश-क्षेत्रकालत्रिभागस्तं प्राप्तानि प्रथम समवसर-

शोदेश प्राप्ताणि 'चेलानि' वस्त्राणि प्रतिग्रहीतुम् । किमुक्तं भवति ?--इह साधवो यत्र वर्षावासं चिकीर्षवस्तत् क्षेत्रं यावद् नाद्यापि प्राप्नुवन्ति, प्राप्ता वा परं नाद्या-
प्यापाढ पूर्णिमा लगति, तावत्कल्पन्ते वस्त्राणि प्रतिग्रहीतुम् । अथ वर्षावास प्रायोग्यं
क्षेत्रं प्राप्ताः, आपाढ पूर्णिमा च सञ्जाता तत इयन्तं क्षेत्रं कालविभागं प्राप्ताणि
वस्त्राणि न कल्पन्ते । द्वितीय समवसरणोदेशप्राप्तानि तु कल्पन्ते । इति सूत्र-
संक्षेपार्थः ॥ १५ ॥

मूल—कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा अहाराइणियाए चेलाइं
पडिग्गाहित्तए ॥ १६ ॥

टीका--कल्पते निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा यथारत्निकं यो यो रात्निकः-
भावरत्नैरधिकस्तदनतिक्रमेण चेलानि प्रतिग्रहीतुमिति सूत्रार्थः ॥ १६ ॥

मूल—कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा अहाराइणियाए सेज्जासंथारए
पडिग्गाहित्तए ॥ १७ ॥

टीका--कल्पते निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा यथारत्नाधिकं शय्यासंस्तारकान्
प्रतिग्रहीतुमिति सूत्र संक्षेपार्थः ॥ १७ ॥

मूल—कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा अहाराइणियाए किइकम्मं
वरित्तए ॥ १८ ॥

टीका--कल्पते निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा यथारत्निकं, यो यो रत्नाधिकस्त-
दनतिक्रमेण कृति कर्म कर्तुमिति सूत्र संक्षेपार्थः ॥ १८ ॥

मूल—नो कप्पति निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा अंतरगिहंसि चिड्ढि-
त्तए वा निसीइशाए वा जाव काउस्सगं वा ठाणं ठाइत्तए । अह पुण एवं
जाणिज्जा-वाहिए, जराजुण्णे तवस्सी दुब्बले किलं ते मुच्छिज्ज वा पवडिज्ज
वा, एणं से कप्पइ अंतरगिहंसि चिड्ढित्तए वा जाव ठाणं ठाइत्तए ॥ १९ ॥

टीका--नो कल्पते निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा 'अन्तरगृहे' गृहस्य गृहयोर्वा
अन्तराले [राजदन्तादित्वाद् आपर्त्वाद्वा अन्तर शब्दस्य पूर्वनिपातः] स्थातुं वा
निपतुं वा यावत्करणात् त्वग्वर्तयितुं वा, निद्रायितुं वा, प्रचलायितुं वा, अशनं
वा, पानं वा, खादिसं वा, स्वादिसं वा (आहारम्) आहृतुम् । उच्चारं वा प्रस्रवणं
वा खेलं वा सिद्धयन्तं वा परिष्ठापयितुम्, स्वाध्यायं वा कर्तुम्, ध्यानं वा ध्यातुम्,

“काउस्सगं” त्ति कायोत्सर्गलक्षणं वा स्थानं ‘स्थातु’ कर्तुम् । सूत्रेणैवाऽपवादं दर्शयति—अथपुनरेवं जानीयात्—‘वाहिए, इत्यादि व्याधितः—ग्लानः, जराजीर्णः—स्थविरः, ‘तपस्वी’ क्षपकः दुर्बलः—ग्लानत्वादधुनैवोत्थितोऽसमर्थ शरीरः, एतेषां मध्यादन्यतमस्तपसा भिक्षाटनेन वा क्लान्तः—परिश्रान्तः सन् मूर्च्छेद्वा प्रपतेद्वा, एवं कारणमुद्दिश्य कल्पते अन्तरगृहे स्थातुं वा यावत् कायोत्सर्गं वा कर्तुमिति सूत्रार्थः ॥ १६ ॥

मूल—“नो कप्पति निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा अंतरगिहंसि जाव चउगाहं वा पंचगाहं वा आइक्खित्तए वा विभावित्तए वा किट्टित्तए वा पवेइत्तए वा, नऽन्नत्थ एगणाएण वा एगवागरणेण वा एगगाहाए वा एग सिलोएण वा, से वि य ठिच्चा नो चेव णं अट्टिच्चा ॥ २० ॥

टीका—नो कल्पते निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा अन्तर गृहे यावत् चतुर्गाथं वा पञ्चगाथं वा आख्यातुं वा विभावयितुं वा कीर्तयितुं वा प्रवेदयितुं वा । एतदेवाप-
वदन्नाह—‘नऽन्नत्थ’ इत्यादि ‘न कल्पते’ इति योऽयं निषेधः स एकज्ञाताद्वा एक व्याकरणाद्वा एक गाथाया वा एक श्लोकाद्वा अन्यत्र मन्तव्यः । [सूत्रे च पञ्चम्याः स्थाने तृतीया निर्देशः प्राकृतत्वात्] तदपि च एक ज्ञातादि व्याख्यानं स्थित्वा कर्तव्यम्, नैव ‘अस्थित्वा’ भिक्षां पर्यटतोपविष्टेन वा इति सूत्रार्थः ॥ २० ॥

मूल—“नो कप्पति निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा अंतरगिहंसि इमाइं पंच महव्वयाइं सभावणाइं आइक्खित्तए वा विभावित्तए वा किट्टित्तए वा पवेयत्तए वा, नऽन्नत्थ एगणाएण वा जाव सिलोएण वा, से वि य ठिच्चा नो चेव णं अट्टिच्चा ॥ २१ ॥

टीका—अस्य व्याख्या प्राग्बत्, नवरम् ‘इमानि’ स्वयमनुभूयमानानि पंच महा-
त्रतानि सभावनानि—प्रतिव्रतं भावना पंचक युक्तानि आख्यातुं वा, विभावयितुं वा
कीर्तयितुं वा प्रवेदयितुं वा न कल्पन्ते । आख्यानं नाम—साधूनां पंचमहात्रतानि
पंचविंशतिभावनायुक्तानि षट्कायरक्षणसाराणि भवन्ति ‘इति सामान्यकथनम्’ ।
विभावनंतु प्राणातिपाताद्विरमणं यावद् परिग्रहाद्विरमणमिति । भावनास्तु—
“इरियासमिए सयाजए” इत्यादि गाथोक्तत्वरूपाः । षट्कायास्तु—पृथिव्यादयः ।
कीर्तनं नाम—“या प्रथमव्रतरूपा अहिंसा सा भगवती सदेवमनुजाऽसुरस्य लोकस्य-

पूज्या, द्वीपः, त्राणं शरणं गतिः, प्रतिष्ठेत्यादि, एवं सर्वेषामपि प्रश्रव्याकरणोक्तान्, गुणान् कीर्तयति । प्रवेदनं तु-महाव्रतानुपालनात् स्वर्गोऽपवर्गो वा प्राप्यते इति लाभकथनम्) इति सूत्रार्थः ॥ २१ ॥

मूल-“नो कप्पति निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा पाडिहारियं सिज्जा-
संथारयं आयाए अपडिहट्टु संपव्वइत्तए ॥ २२ ॥

टीका-नो कल्पते निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा प्रतिहरणं-प्रतिहारः-प्रत्यर्पणं तमर्हतीति प्रातिहारिकं, शय्याचसर्वाङ्गीणा, संस्तारकः-अर्द्धतृतीयहस्तमानः, शय्यासंस्तारकं तद् ‘आदाय’ गृहीत्वा कार्यसमाप्तौ ‘अप्रतिहत्य’ प्रत्यर्पणमकृत्वा सम्प्रव्रजितुं-ग्रामान्तरं विहर्तुमिति सूत्रार्थः ॥ २२ ॥

मूल-“नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा सागारिय संतियं
सेज्जासंथारयं आयाए अविकरणं कट्टु संपव्वइत्तए ॥ २३ ॥

टीका-नोकल्पते निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा सागारिकः-शय्यातरस्तस्य सत्कं शय्यासंस्तारकम् आदाय-गृहीत्वा ‘अविकरणं कृत्वा, अविकरणं नाम-यत् साधुता करणंकृतम्-तृणानां प्रस्तरणं कम्बिकानां बन्धनं फलकस्यस्थापनम्, तद् अनपनीय सम्प्रव्रजितुं विहर्तुमिति सूत्रार्थः ॥ २३ ॥

मूल-“इह खलु निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा पाडिहारिए वा सागा-
रियसंतिए वा सेज्जासंथारए विप्पणसिज्जा से य अणुगवेसियव्वे सिया, से
अ अणुगवेस्समाणे लभेज्जा तस्सेव पडिदायव्वे सिया, से अ अणुगवेस-
माणे नो लभिज्जा एवं से कप्पइ दोच्चंपि उग्गहं अणुन्नवित्ता परिहारं
परिहरित्तए ॥ २४ ॥

टीका-इह अस्मिन् मौनीन्द्रे प्रवचने स्थितानां ‘खलु’ वाक्यालङ्कारे, निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा प्रातिहारिको वा सागारिकसत्को वा शय्यासंस्तारकः ‘विप्रणश्येत्’ विविधैः प्रकारैः प्रकर्षेण रक्ष्यमाणोऽपि नश्येत्, सच ‘अनुगवेपयितव्यः’ विप्रणाशानन्तरम् पृष्ठत एव गवेपयितव्यः । स्याद्-भवेत् सचानुगवेष्यमाणो लभ्येत तस्यैव संस्तारक स्वामिनः प्रतिदातव्यः-प्रत्यर्पणीयः । स्यात् स चानुगवेष्यमाणो न लभ्येत तत एवं ‘से’ तस्य कल्पते ‘द्वितीयमप्यवग्रहमनुज्ञाप्य’ एकं तावत्प्रथमं यदा गृहीत-
स्तदाऽनुज्ञापितः, ततो विप्रणष्टः सन् गवेष्यमाणोऽपि यदा न लब्धः, तदा संस्तारक

स्वामिनः कथिते सति यद्सावन्यं संस्तारकं दृढाति, यद्वा स एव संस्तारक स्वामिना मृग्यमाणोत्तमः, ततस्तद्विषयं द्वितीयमवग्रहमनुज्ञाप्य 'परिहारं' धारणा-परिभोग-लक्षणं 'परिहृतुं' धातूनामनेकार्थत्वात्कर्तुमिति सूत्रार्थः ॥ २४ ॥

मूल—“जद्विसं समणा निगंथा सिञ्जासंथारयं विप्पजहंति, तद्विसं अत्ररे समणा निगंथा हव्वमागच्छेज्जा सच्चेव उग्गहस्स पुव्वाणुएणवणा चिद्धइ अहालंदमवि उग्गहे ॥ २५ ॥

टीका—जद्विसं, [इतिप्राकृतत्वात्सप्तम्यर्थे द्वितीया] ततो यस्मिन् दिवसे श्रमणा निर्गन्थाः शय्या च वसतिः, संस्तारकश्च-तृणफलकात्मकः शय्यासंस्तारकम् । अत्र शय्याग्रहणेन ऋतुवद्धः कालः सूचितः, संस्तारकग्रहणेन तु वर्षाकालः, अथवा कारणजाते ऋतुवद्धेऽपि संस्तारको गृह्यते, इतिकृत्वा संस्तारक ग्रहणेन द्वावपि गृहीतौ, ततो मासकल्पे वर्षावासे वा पूर्णे शय्यां संस्तारकं वा यस्मिन् दिवसे पूर्वस्थिताः साधवः 'विप्रजहति' परित्यजन्ति, तद्विस एवाऽपरे श्रमणा निर्गन्था-स्तत्र क्षेत्रे 'हव्वं' शीघ्रमागच्छेयुः, ततः सैवाऽवग्रहस्य पूर्वानुज्ञापना तिष्ठति । किमुक्तं भवति ?—“य एव ततः क्षेत्रान्निर्गतास्तेषामेवाऽवग्रहे तत् क्षेत्रम्, येतु तद्विसमन्ये आगतास्ते क्षेत्रोपसम्पन्ना इति कृत्वा यत् तत्र सचित्तादिकं तत् पूर्व-स्थितानामाभाव्यम् । कियन्तं कालं यावद् ? इत्याह—“अहालंदमवि उग्गहे” इह यस्यां वेजायां ते साधवो निर्गताः तावतीं वेलां यावद् द्वितीयेऽप्यहि तेषामेवाऽवग्रहो भवतीति वदन्ते, ततः 'यथालन्दम् इहाऽष्टपौरुषीप्रमाणं मध्यमं गृह्यते, एतावन्तमपि कालं तदीय एवावग्रहे तत् क्षेत्रम्, अतो यद्यागन्तुकास्तत्र सचित्ताऽद्विग्रहणं कुर्वन्ति, तदा साधर्मिकस्तैन्यप्रत्ययं प्रायश्चित्तमापद्यन्ते । अत्र तु सचित्तेनाऽधिकार इति सूत्रार्थः ॥ २५ ॥

मूल—“अत्थि या इत्थ केह उवस्सय परियावन्नए अचित्ते परिहरणा-रिहे सच्चेव उग्गहस्स पुव्वाणुएणवणा चिद्धइ अहालंदमवि उग्गहे ॥ २६ ॥

टीका—अस्ति च 'अत्र' अनन्तरसूत्र प्रस्तुते प्रतिश्रये किम् ? 'किञ्चिद्' आहारास्यजातादिकं गृहस्थसत्कम् उपाश्रये पर्यापन्नं-विस्मृतं परित्यक्तं वा उपाश्रय-पर्यापन्नं 'अचित्तं' प्राशुकम् 'परिहरणार्हं', साधूनां परिभोक्तं योग्यम्, तत्र सैवाव-ग्रहस्य पूर्वानुज्ञापना तिष्ठति, तत्रोपाश्रये तिष्ठद्भिः पूर्वमेव 'अनुजानीत प्रायोग्यमइत्येवं यद्वग्रहोऽनुज्ञापितः सैवानुज्ञापना, पश्चादुपाश्रय पर्यापन्नग्रहणे व्यवतिष्ठते न

पुनरभितवमनुज्ञापनं कर्तव्यमितिभावः । कियन्तं कालमित्याह--“यथालन्दमपि”
मध्यमलन्दमात्रमपि कालं यावद्वग्रह इतिसूत्रार्थः ॥ २६ ॥

मूल--“सेवत्थुसु अव्वावडेसु अव्वोगडेसु अपरपरिग्गहिएसु अमर परि-
ग्गहिएसु सच्चेव उग्गहस्स पुव्वाणुण्णवणा चिद्धइ अहालंदमवि उग्गहे । २७।

टीका--से, तस्य निर्ग्रन्थस्य ‘वास्तुपु’ गृहेषु, कथम्भूतेषु ? ‘अव्वापृतेषु’ शटित-
पतिततया व्यापार विरहितेषु ‘अव्वाकृतेषु’ दायादादिभिरविभक्तेषु अथवाऽतीत
काले केनाऽप्यनुज्ञातमितिनज्ञायते यत् तद् अव्याकृतं तेषु, तथा ‘अपरपरिगृहीतेषु’
परैः--अन्यैरनधिष्ठितेषु ‘अमरपरिगृहीतेषु’-देवैः स्वीकृतेषु, सैवावग्रहस्य पूर्वानुज्ञापना
निष्ठिति यथालन्दमप्यवग्रहे । किमुक्तं भवति ?-यावन्तं कालं तानि वास्तूनि तेषां
पूर्वस्वामिनामवग्रहे वर्तन्ते तावन्तं कालं सैव पूर्वानुज्ञा तिष्ठति, न पुनर्भूयोऽप्यव-
ग्रहोऽनुज्ञापनीय इति सूत्रार्थः ॥ २७ ॥

मूल--“से वत्थुसु वावडेसु वोगडेसु पर परिग्गहिएसु भिक्खुभावस्स
अट्टाए दोच्चं पि उग्गहे अणुण्णवेयव्वे सिया अहालंदमवि उग्गहे ॥ २८ ॥

टीका--से, तस्य निर्ग्रन्थस्य वास्तुपु-गृहेषु व्यापृतेषु-व्यापारयुक्तेषु बहमान-
केष्वित्यर्थः व्याकृतेषु-दायादादिभिर्विभक्तेषु ‘परपरिगृहीतेषु’ अन्यवंशीयैरधिष्ठितेषु
भिक्षुभावस्यार्थाय-भिक्षुभावो नाम ज्ञान-दर्शन-चारित्र्याणि तृतीय व्रतादिकं वा, तत्रैव
भिक्षुशब्दस्य परमार्थत्वेन रुढत्वान् । सभिक्षुभावः परिपूर्णो भूयादित्येवमर्थं ये
साधवः पश्चादागच्छन्ति, तैर्द्वितीयमपि चारमवग्रहोऽनुज्ञापयितव्यः स्याद् ‘यथा-
लन्दमपि’ जघन्यलन्द मात्रमपि कालमवग्रहे तत्राऽवस्थाने इति सूत्रार्थः ॥ २८ ॥

मूल--“से अणुहुड्डेसु वा अणुभित्तीसु वा अणुचरियासु वा अणुकरि-
हासु वा अणुपथेसु वा अणुमेरासु वा सच्चेव उग्गहस्स पुव्वाणुण्णवणा
चिद्धइ अहालंदमवि उग्गहे ॥ २९ ॥

टीका--से-तस्य निर्ग्रन्थस्य अनुकुड्येषु वा, कुड्यसमीपवर्तिषु वा प्रदेशेषु, एवम्-
अनुभित्तिषु वा, अनुचरिकासु वा, अनुपरिखासु वा, अनुपथेषु वा अनुमर्गादासु वा ।
अत्रचरिका नगर प्राकारयोरपान्तराले हस्ताष्टक प्रमाणो मार्गः, परिखा-खातिका,
मर्गादा-सीमा शेषं प्रतीतम् । एतेषु सैवावग्रहस्य पूर्वानुज्ञापना तिष्ठति यथालन्द-
मपि कालमवग्रह इति सूत्रार्थः ॥ २९ ॥

मूल—“से गामस्स वा जाव रायहाणीए वा वहिया सेएणं सन्निविट्ठं पेहाए कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा तद्विसं भिक्खायरियाए गंतुं पडिएत्तए । नो से कप्पइ तं रयणिं तत्थेव उवाइणा वित्तए । जो खलु निग्गंथो वा निग्गंथी वा तं रयणिं तत्थेव उवाइणाइ, उवातिणंतं वा साइज्जति, से दुहतो वि अइक्कममाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्वाइयं ॥ ३० ॥

टीका—से शब्दोऽथ शब्दाऽर्थे । अथ ग्रामस्य वा यावद् राजधान्या वा, यावत्करणात् नगरस्य वा खेटस्य वा इत्यादि परिग्रहः, एतेषामन्यतरस्य वहिः ‘सेनां’ राज्ञः स्कन्धावारं रोधकं कृत्वा सन्निविष्टं ‘प्रेक्ष्य’ दृष्ट्वा कल्पते निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा तद्विसं भिक्षाचर्यायां गत्वा प्रत्यागन्तुम् । नो-नैव ‘से’ तस्य विवक्षितस्य भिक्षोः कल्पते तां रजनीं तत्रैव सेनायाम् उपादातुम्-अतिक्रामयितुम् । यः खलु निर्ग्रन्थो वा निर्ग्रन्थी वा तां रजनीं तत्रैवोपाददाति, उपाददतं वा स्वादयति स द्विधाऽप्यतिक्रामन्-जिनसीमानं राजसीमानं च विलुम्पन् आपद्यते चातुर्मासिकं परिहारस्थानमनुदघातिकमिति सूत्रार्थः ॥ ३० ॥

मूल—“से गामंसि वा जाव सन्निवेशंसि वा कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा सव्वओ समन्ता सकोसं जोयणं उग्गहं ओगिण्हत्ताणं चिड्ढित्तए ॥ ३१ ॥ त्तिवेशि तइओ उद्देशो ।

टीका—“अथ ग्रामे वा नगरे वा यावत् सन्निवेशे वा कल्पते निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा ‘सर्वतः’ सर्वासुदिक्षु ‘समन्तात्-चतसृष्वपि विदिक्षु सक्रोशं योजनमवग्रह-मवगृह्य स्थातुमिति सूत्रार्थः ॥ ३१ ॥

इति तृतीय उद्देशकः

समाप्तः



अथ चतुर्थ उद्देशकः

मूल—“ तत्रो अणुग्वाइया पन्नत्ता, तंजहा—“हृत्थकम्मं करेमाणे,
मेहुणं पडिसेवमाणे, राइभोयणं भुंजमाणे ॥ १ ॥

टीका—त्रयः—त्रिसंख्याकाः अनुद्घातिकाः, उद्घातो नाम “अद्धेण छिन्नसेसं”
(गा०) इत्यादिविधिना भागपातः सान्तरदानं वा उद्घातः, स विद्यते येषु
ते उद्घातिकाः, तद्विपरीता अनुद्घातिकाः प्रज्ञप्ताः—तीर्थकरादिभिः प्ररूपिताः ।
‘तद्यथा’ इत्युपप्रदर्शनार्थः । हन्ति हसति वा सुखमावृत्यानेनेतिहस्तः—शारीरकदेशो
निक्षेपाऽऽदानादि समर्थः तेन यत् कर्म क्रियते तत्—हस्तकर्म, (विषयाऽसेवनरूपं)
तत्कुर्वन् । तथा स्त्रीपुंसयुग्मं मिथुनमुच्यते, तस्य भावः कर्म वा मैथुनम्, तत् प्रतिसेव-
मानः । तथा रात्रौ भोजनम्—अशनादिकं भुञ्जानः । एष सूत्रार्थः ॥ १ ॥

मूल—“ तत्रो पारंचिया पन्नत्ता, तंजहा—दुट्टे पारंचिए, पमत्ते
पारंचिए, अन्नमन्नं करेमाणे पारंचिए ॥ २ ॥

टीका—(शोधिः शुद्धिद्विविधा—तपोऽर्हा, छेदाऽर्हाच, तपोऽर्हाशोधिः खलु
पूर्वसूत्रे प्रोक्ता, अथेदानीं छेदारहांसभिधीयते । सचच्छेदो द्विधा—देशतः सर्वतश्च, तत्र
देशच्छेदः पञ्चरात्रिन्दिवादिकः पणमासान्तः । सर्वच्छेदः ‘मूलादिः’ मूला—ऽनव-
स्थाप्य—पाराञ्चिक भेदात् त्रिविधः । अत्रसर्वच्छेदः—पाराञ्चिकलक्षणोऽधिक्रियते—
“अथास्य सूत्रस्य व्याख्या—” त्रयः पाराञ्चिकाः प्रज्ञप्ताः । तद्यथा—दुष्टः पाराञ्चिकः,
प्रमत्तः पाराञ्चिकः ‘अन्योऽन्यं’ परस्परं मुखपायु प्रयोगतः प्रतिसेवनां कुर्वाणः
पाराञ्चिक इति सूत्र समासार्थः ॥ २ ॥

मूल—“ ततो अणवद्वृष्णा पणत्ता, -तंजहा-साहस्मियाणं तेरणं
करेमाणे, अन्न धस्मियाणं तेरणं करेमाणे, हत्थादालं दलमाणे ॥ २ ॥

टीका—त्रयः—‘अनवस्थाप्याः-तत्क्षणादेव व्रतेषु अनवस्थापनीयाः प्रहृष्टाः ।
तद्यथा-‘साधर्मिकाः-साधवस्तेषां सत्कस्योक्तप्रोपधेः शिष्यादेर्वा स्तैन्यं चौर्यं कुर्वाणः ।
अन्यधार्मिकाः-शाक्यादयो गृहस्था वा तेषांसत्कस्योपध्यादेः स्तैन्यं कुर्वन् । तथा
हस्तेनाऽऽताडनं हस्तातालाः, [सूत्रे च तकारस्य दकारश्चित्तरार्पत्वात्] तं दलमाणे-
ददत्-यष्टिमुष्टि लकुटादिभिरात्मनः परस्य वा प्रहरन्निति भावः । अथवा-‘हत्थालंघं’
इतिपाठः, हस्तालम्ब इव हस्तालम्बः-अशिवादि प्रशमनार्थमपिचारुक मन्त्रादि
प्रयोगः तं ‘दलमाणे’ कुर्वन्, यद्वा ‘अत्यादाणं दलमाणे’ इति पाठः, तत्र अर्थाऽऽ-
दानम्-अर्थोपादानकारणमट्टाङ्गनिमित्तं ददत्-प्रयुक्तजानः एष सूत्रसंक्षेपार्थः ॥ ३ ॥

मूल—“ तत्रो नो कर्पन्ति पञ्चादित्तए, तंजहा-पंडए, वाइए, कीवे ॥ ४ ॥

टीका—त्रयो नो कल्पन्ते प्रजाजयितुम् । तद्यथा-पण्डकः-नपुंसकः । वातिको
नाम यदा स्वनिमित्ततोऽन्यथा वा मेहनं काषायितं भवति, तदा न शक्नोति वेदं
धारयितुं यावन्न प्रतिसेवा कृता (तथाविधः) । क्लीवः-असमर्थः सच दृष्टि क्लीवादि-
लक्षणः । एष सूत्रार्थः ॥ ४ ॥

मूल—“ एवं मुंडावित्तए, सिक्खावित्तए, उवट्टावित्तए, संभुजित्तए,
संवासित्तए, ॥ ५ । ६ । ७ । ८ । ९ ॥

टीका—यथैते पण्डकादयस्त्रयः प्रजाजयितुं न कल्पन्ते एवमेते-एव कथञ्चित्-
छलितेन प्रजाजिता अपि सन्तः ‘मुण्डापयितुं’ शिरोलोचनं लुञ्जितुं न कल्पन्ते ॥
एवं शिखापयितुं प्रत्युपेक्षणादि सामाचारिं ग्राहयितुम् । उपस्थापयितुं-महाव्रतेषु
व्रतस्थापयितुम् । सम्भोक्तुम्, एक मण्डली समुद्देशादिना व्यवहारयितुं । संवासयि-
तुम्-आत्मसमीपे आसयितुमिति सूत्रार्थः ॥ ५ । ६ । ७ । ८ । ९ ॥

मूल—“ तत्रो नो कर्पन्ति वाइत्तए, तंजहा-‘ अविशीए, विगई-
पडिवद्वे, अविश्रोसवियपाहुडे ॥ १० ॥

मूल—“ तत्रो कर्पन्ति वाइत्तए, तंजहा-विशीए, नो विगईपडिवद्वे
विश्रोसवियपाहुडे ॥ ११ ॥

टीका—त्रयो नो कल्पन्ते वाचयितुं-सूत्रं पाठयितुमर्थं वा श्रावयितुम् । तद्यथा

अविनीतः—सूत्रार्थदातुर्वन्दनादि वित्तपरहितः । विकृतिप्रतिबद्धः—घृतादिरस विशेष-
गृह्यः—अनुपधानकारीति भावः । अव्यवशमितम्—अनुपशान्तं प्राभृतमिव प्राभृतं-
नरकपाल कौशलिकं तीव्रक्रोधलक्षणं यस्याऽसौ—अव्यवशमित प्राभृतः ॥ एत-
द्विपरीतास्तु त्रयोऽपि कल्पन्ते वाचयितुम् । तद्यथाविनीतो नो विकृति प्रतिबद्धो
व्यवशमितप्राभृतश्चेति सूत्रार्थः ॥ १० ॥ ११ ॥

मूल—“तत्रो दुस्सन्ध्या पन्नता, तं जहा—दुड्ढे, मूढे, बुग्गाहिए ॥ १२ ॥

टीका—त्रयः दु खेन-कृच्छ्रेण संज्ञाप्यन्ते—प्रतिबोध्यन्ते, इति दुःसंज्ञाप्याः प्रज्ञप्ता ।
तद्यथा—“दुष्टः—तत्त्वं प्रज्ञापकं वा प्रतिद्वेषवान् स च अप्रज्ञापनीयः द्वेषेणो-
पदेशाऽप्रतिपत्तेः । एवं मूढो-गुणदोषाऽनभिज्ञः । व्युद्प्राहितोनामकुपज्ञापक
दृढीकृत विपरीतावबोधः । एष सूत्रार्थः ॥ १२ ॥

मूल—“तत्रो सुसंज्ञाप्या पन्नता, तं जहा—अदुड्ढे, अमूढे, अबुग्गा-
हिए ॥ १३ ॥

टीका—त्रयः सुसंज्ञाप्याः—सुखे प्रज्ञापनीयाः प्रज्ञप्ताः । तद्यथा—अदुष्टोऽमूढोऽव्यु-
द्प्राहितश्चेति ॥ १३ ॥

मूल—“निग्गंथि च णं गिलायमाणि पिता वा भाया वा पुत्तो वा
पलिससएज्जा, तं च निग्गंथी साइज्जेज्जा, मेहुणपडिसेवणपसा, आदज्जइ
चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्वाइयं ॥ १४ ॥

मूल—“निग्गंथं च णं गिलायमाणं माया वा, भगिणी वा, धूतावा
पलिससएज्जा, तं च निग्गंथे साइज्जेज्जा, मेहुण पडिसेवणपसे आवज्जइ
चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्वाइयं ॥ १५ ॥

टीका—निर्ग्रन्थी-प्रागुक्त शब्दार्थाम् च शब्दो वाक्यान्तरोपन्यासे, ‘णं’ इति
वाक्यालङ्कारे ‘गिलायमाणि, इति ग्लायन्ती (ग्लै-हर्षक्षये,) शरीरक्षयेण हर्षक्षय
मनुभवन्ती, पिता वा, भ्राता वा, पुत्रो वा निर्ग्रन्थः सन् ‘परिष्वजेत्, प्रपतन्ती धार-
यन्, निवेशयन्, उत्थापयन् वा शरीरे स्पृशेत्, ‘तं च, पुरुषस्पर्शं सा निर्ग्रन्थी मैथुन
प्रतिसेवन् प्राप्ता स्वादयेत्—अनुमोदयेत् तत आपद्यते चातुर्मासिकं परिहारस्थान
मनुद्घातिकम् । एवं निर्ग्रन्थ सूत्रमपि व्याख्येयम्, नवरं मातावा, भगिनी वा, दुहिता

चा परिष्वजेत् (तं च निर्ग्रन्थः अनुमोदयेन ततः मैथुन प्रतिसेवना प्राप्तः-आपद्यते चातुर्मासिकं परिहार स्थानमनुद्वातिकम्) एष सूत्रार्थः ॥ १४ ॥ १५ ॥

मूल-“नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा असणं वा पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा, पढमाए पोरिसीए पडिग्गाहिच्चा पच्छिमं पोरिसि उवाइणाविच्चाए । से य आहच्च उवाइणाविए सिया तं नो अप्पणा भुंजिज्जा, नो अन्नेसिं अणुप्पएज्जा, एगंते बहुफासुए थंडिले पडिलेहिच्चा पमज्जिच्चा परिट्ठवेयव्वे सिया । तं अप्पणा भुंजमाणे अन्नेसिं वा दलमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ॥ १६ ॥

मूल-“नो कप्पइ निग्गंथाण वा २ असणं वा ४ परं अद्द जोयण मेराए उवायणाविच्चाए । से य आहच्च उवाइणाविए सिया, तं नो अप्पणा भुंजिज्जा नो अन्नेसिं अणुप्पएज्जा एगंते बहुफासुए थंडिले पडिलेहिच्चा पमज्जिच्चा परिट्ठवियव्वे सिया । तं अप्पणा भुंजमाणे अन्नेसिं वा दलमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ॥ १७ ॥

टीका-नो कल्पते निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा अशनं वा, पानं वा, खादिमं वा, स्वादिमं वा, प्रथमायां पौरुष्यां प्रतिगृह्य पश्चिमां पौरुषीम् ‘उवाइणाविच्चाए त्ति, उपानाययितुं-सम्प्रापयितुमिति । तच्च “आहच्च,-कदाचित् उपानायितं स्यात्, ततः ‘तद्, अशनादिकं नात्मना भुञ्जीत, नवा अन्येषां साधूनामनुप्रदद्यात् । किम्पुन-स्तर्हि विधेयम् ? इत्याह-एकान्ते बहुप्राशुके स्थण्डिले प्रत्युपेक्ष्य-चक्षुषा प्रमृज्य-रजो-हरणेन परिष्ठापयितव्यं स्यात् । तद् आत्मना भुञ्जानोऽन्येषां वा ददान आपद्यते चातुर्मासिकं परिहारस्थानमुद्वातिकम् ॥ एवं क्षेत्रातिक्रान्त सूत्रमपि वक्तव्यम्-नवरम्-अर्द्धयोजनलक्षणाया मर्यादाया अतिक्रामयितुमशनादिकं न कल्पते । स्यात् तदुपानायितं (उपानाययितं) भवेत्, ततो यः स्वयं तद् भुङ्क्तेऽन्येषां वा ददाति तस्य चतुर्लोकमिति सूत्रद्वयार्थः ॥ १६ ॥ १७ ॥

मूल-“निग्गंथेण य गाहावइकुलं पिंडवाय पडियाए अणुप्पविट्ठेणं अन्नयरे अच्चित्ते अणुप्पएज्जे पाणभोयणे पडिग्गाहिच्चा सिया, अत्थि या इत्थि केइ सेहतराए अणुवट्ठावियए, कप्पइ से तस्स दाउं (वा)अणुप्पदाउं वा, नत्थि या इत्थि केइ सेहतराए, अणुवट्ठावियए तं नो अप्पणा भुंजेज्जा,

नो अन्नेसिं दावए, एगंते बहुफासुए यससे पडिलेहिता पमज्जिता परि-
द्वेयव्वे सिया ॥ १८ ॥

टीका—निर्ग्रन्थेन च गृहपतिकुलं पिण्डपातप्रतिज्ञयाऽनुप्रविष्टं न 'अन्नतरे ति'
उद्गमोत्पादनैपणादोषाणामन्यतरेण दोषेणदुष्टम् 'अेषणीयम्' अशुद्धम्, 'अचित्तं'
निर्जीवं पानभोजनमनाभोगेन प्रतिगृहीतं स्यात्' तच्चोत्कृष्टं न यतः ततः परित्यक्तुं
शक्यते, अग्निं चात्र कश्चित् 'शैक्षतरकः', लघुतरः अनुपस्थापितकः, अनारोपित-
महाव्रतः, कल्पते 'से' तस्य निर्ग्रन्थस्य तस्मै शैक्षाय द्वातुमनुप्रदातुं वा । तत्र द्वातु-
प्रथमतः, 'अनुप्रदातुम्-तेनाऽन्यस्मिन्नोषणीये सति पश्चात् प्रदातुम् । अथ नास्त्यत्र
कोऽपि शैक्षतरकोऽनुपस्थापितकस्ततस्तद् 'नैवात्मनामुञ्जीत नवाऽन्येषां दद्यात्'
किन्तु एकान्ते बहुप्रासुके प्रदेशे प्रत्युपेक्ष्य प्रमृज्य च परिष्ठापयितव्यं स्यात् । इति
सूत्रार्थः ॥ १८ ॥

मूल—“जे कडे कप्पट्टियाणं कप्पइ से अकप्पट्टियाणं, नो से कप्पइ
कप्पट्टियाणं । जे कडे अकप्पट्टियाणं णो से कप्पइ कप्पट्टियाणं, कप्पइ
से अकप्पट्टियाणं । कप्पे ठिया कप्पट्टिया, अकप्पे ठिया अकप्पट्टिया ॥ १९ ॥

टीका—यद् अशानादिकं 'कृतं, विहितं कल्पस्थितानामर्थाय कल्पते तद् अकल्प-
स्थितानाम् । नो तत् कल्पते कल्पस्थितानाम् । “इहाऽचेलक्यादौ दशविधे कल्पे ये
स्थितास्ते कल्पस्थिता उच्यन्ते पञ्चयामधर्मप्रतिपन्ना इति भावः । ये पुनरेतस्मिन्
कल्पे सम्पूर्णे न स्थितास्तेऽकल्पस्थिताः, चतुर्यामधर्मप्रतिपन्तार इत्यर्थः । ततः पञ्चया-
मिकानुद्दिश्यकृतं चतुर्यामिकानां कल्पते, इत्युक्तं भवति । तथा यद् 'अकल्पस्थितानां
चतुर्यामिकानामर्थाय कृतं नोतत्कल्पते, कल्पस्थितानां पञ्चयामिकानां किन्तु कल्पते
तद् 'अकल्पस्थितानां चतुर्यामिकानाम् । अत्रैव व्युत्पत्तिमाह—'कल्पे अचेलक्यादौ
दशविधे स्थिताः कल्पस्थिताः । अकल्पे अस्थितकल्परूपे स्थिता अकल्पस्थिताः ।
एष सूत्रार्थः ॥ १९ ॥

मूल—“भिकखू य गणाओ अवक्म्म इच्छेज्जा अन्नं गणं उवसंपज्जि-
त्ताणं विहरित्तए, नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरियं वा, उवज्झायं वा
पवत्ति वा, थेरं वा, गणिं वा, गणहरं वा, गणावच्छेइयं वा अन्नं गणं
उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए । कप्पइ से आपुच्छित्ता आयरियं वा जावगणा-

वच्छेदयं वा अन्नं गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरिचाए । ते य से वियरेज्जा एवं से कप्पइ अन्नं गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरिचाए ते य से नो वितरेज्जा एवं से नो कप्पइ अण्णं गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरिचाए ॥ २० ॥

टीका—“भिक्षुः—सामान्य साधुश्चशब्दान्निर्ग्रन्थी वा गणाद् ‘अवक्रम्य—निर्गत्य इच्छेद्—अभिलषेदन्यं गणमुपसम्पद्यविहर्तुम् । नो से-तस्य भिक्षोः कल्पतेऽनापृच्छ, वाऽऽचार्यं वा उपाध्यायं वा प्रवर्तकं वा, स्थविरं वा गणिनं वा, गणधरं वा, गणावच्छेदकं वा अन्यं गणमुपसम्पद्य विहर्तुम् । कल्पते से-तस्य भिक्षोराचार्यं वा यावत्करणादुपाध्यायं वा प्रवर्तिभं वा स्थविरं वा गणिनं वा गणधरं वा गणावच्छेदकं वाऽऽपृच्छ्यान्यं गणमुपसम्पद्य विहर्तुम् । ते चाऽऽचार्यादिय आपृष्टाः सन्तस्तस्यान्य-गणगमनं वितरेयुः—अनुजानीयुः, तत एवं तस्य कल्पतेऽन्यं गणमुपसम्पद्यविहर्तुम् । ते च तस्य न वितरेयुस्ततो नो कल्पते तस्याऽन्यगणमुपसम्पद्य विहर्तुमिति सूत्रार्थः ॥ २० ॥

मूल—“गणावच्छेदयं य गणाओ अवक्रम्य इच्छेज्जा अण्णं गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरिचाए, नो कप्पइ गणावच्छेदयस्स गणावच्छेदयत्तं शिक्खित्ता अण्णं गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरिचाए, णो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरियं वा जाव अन्नं गणं उपसंपज्जित्ताणं विहरिचाए, कप्पइ से आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव विहरिचाए । ते य से वितरंति (यरेज्जा) एवं से कप्पइ जाव विहरिचाए ते य से नो वितरंति (यरेज्जा) एवं से नो कप्पइ जावविहरिचाए ॥ २१ ॥

मूल—“आयरिय उवज्झाए य गणाओ अवक्रम्य इच्छेज्जा अन्नं गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरिचाए, कप्पइ आयरिय उवज्झायस्स आयरिय उवज्झायत्तं शिक्खित्ता अण्णं गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरिचाए । णो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरियं वा जाव अन्नं गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरिचाए । कप्पति से आपुच्छित्ता जाव विहरिचाए । ते य से वितरंति, एवं से कप्पति अन्नं गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरिचाए । ते य से णो वियरंति एवं से णो कप्पति अन्नं गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरिचाए ॥ २२ ॥

टीका—अस्य सूत्र द्वयस्य प्राग्वद् व्याख्या, न वरम्—गणावच्छेदकत्वमाचार्योपाध्यायत्वं च निक्षिप्य गन्तव्यमिति विशेषः ॥ २१ ॥ २२ ॥

मूल—“भिक्षु य गणाओ अवक्कम्म इच्छेज्जा अन्नं गणं संभोग पडि-
याए उवसंपज्जित्ताणं विहरित्ताए । नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरियं
वा जाव अन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपज्जित्ताणं विहरित्ताए, कप्पइ से
आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव विहरित्ताए । ते य से वियरेज्जा एवं से
कप्पइ जाव हिवास्त्ताए, ते य से नो वियरेज्जा एवं से नो कप्पइ जाव वि-
हरित्ताए । जत्थुत्तरियं धम्मविणयं लभेज्जा एवं से कप्पइ अन्नं गणं संभोग-
पडियाए उवसंपज्जित्ताणं विहरित्ताए, जत्थुत्तरियं धम्म विणयं नो लभेज्जा
एवं से नो कप्पइ अन्नं गणं जाव विहरित्ताए ॥ २३ ॥

टीका—व्याख्या प्राग्वत् । नवरं-संभोगः—एक मण्डलयां समुद्देशनादिरूपः,
तत्रत्यं तन्निमित्तम् । जत्थुत्तरियं, इत्यादि—‘यत्र’ गच्छे उत्तरं—प्रधानतरं ‘धर्मविनयं-
(संभोग) स्मरणाचारणादिरूपां धार्मिकीं शिक्षां लभेत, एवं ‘से’ तस्य कल्पते अन्यं गण
मुपसम्पद्य विहर्तुम् । यत्रोत्तरं धर्मविनयं नो लभेत, एवं ‘से’ तस्य नो कल्पते उप-
सम्पद्य विहर्तुमिति सूत्रार्थः ॥ २३ ॥

मूल—“गणावच्छेइए य गणाओ अवक्कम्म इच्छेज्जा अन्नं गणं संभोग-
पडियाए उवसंपज्जित्ताणं विहरित्ताए । णो से कप्पति गणावच्छेइयत्तं अणि-
क्खित्ता संभोगपडियाए जाव विहरित्ताए, कप्पति से गणावच्छेइयत्तं
णिक्खित्ता जाव विहरित्ताए । णो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरियं वा
जाव विहरित्ताए, कप्पइ से आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव विहरित्ताए । ते-
य से वितरंति एवं से कप्पइ अन्नं गणं संभोगपडियाए जाव विहरित्ताए,
ते य से नो वितरंति एवं से णो कप्पइ जाव विहरित्ताए । जत्थुत्तरियं धम्म-
विणयं लभेज्जा एवं से कप्पति अन्नं गणं संभोगपडियाए जाव विहरित्ताए
जत्थुत्तरियं धम्मविणयं नो लभेज्जा एवं से णो कप्पइ जाव विहरित्ताए । २४।

मूल—आयरिय उवज्झाय य गणाओ अवक्कम्म इच्छेज्जा अन्नं गणं
संभोगपडियाए जाव विहरित्ताए, णो से कप्पइ आयरिय उवज्झायत्तं अणि-
क्खित्ता अणं गणं संभोग पडियाए जाव विहरित्ताए, कप्पइ से आयरिय
उवज्झायत्तं णिक्खित्ता जाव विहरित्ताए । णो से कप्पइ अणापुच्छित्ता
आयरियं वा जाव विहरित्ताए, कप्पति से आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव

विहरित्तए । ते य से वितरंति एवं से कप्पति जाव विहरित्तए, ते य से णो वितरंति एवं से णो कप्पति जाव विहरित्तए । जत्थुत्तरियं धम्मविणयं लभेज्जा एवं से कप्पइ जाव विहरित्तए । जत्थुत्तरियं धम्मविणयं नो लभेज्जा एवं से णो कप्पति जाव विहरित्तए ॥ २५ ॥

टीका—अस्य सूत्रद्वयस्य व्याख्या पूर्ववत् ॥ २४ । २५ ॥

मूल—“भिक्षु य इच्छिज्जा अन्नं आयरिय उवज्झायं उद्दिसावित्तए, नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरिय उवज्झायं उद्दिसावित्तए । कप्पइ से अपुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरियं उवज्झायं उद्दिसावित्तए । ते य से वियरिज्जा, एवं से कप्पइ अन्नं आयरिय उवज्झायं उद्दिसावित्तए । ते य से नो वियरेज्जा एवं से नो कप्पइ अन्नं आयरिय उवज्झायं उद्दिसावित्तए । नो से कप्पइ तेसिं कारणं अदीवित्ता अन्नं आयरिय उवज्झायं उद्दिसावित्तए, कप्पति से तेसिं कारणं दीवित्ता अन्नं आयरिय उवज्झायं उद्दिसावित्तए ॥ २६ ॥

टीका— व्याख्या प्राग्बत् । नवरम्-अन्यम्-आचार्योपाध्यायमुद्देशयितुम्, आचार्यश्च उपाध्यायश्च-इत्याचार्योपाध्यायम्-(समाहारद्वन्द्वः,) यद्वा आचार्य-युक्त उपाध्याय आचार्योपाध्यायः (शाकपार्थिववत्-मध्यमपदलोपी समासः) आचार्योपाध्यायावित्यर्थः, तावन्यामुद्देशयितुमात्मनश्छेत् । ततो नो कल्पते अनापृच्छ्याऽऽचार्यं वा यावद् गणावच्छेदकं वा इत्यादि प्राग्बद् द्रष्टव्यम् । तथा न कल्पते तेषाम्-आचार्यादीनां कारणम् ‘अदीपयित्वा, अनिवेद्य अन्यमाचार्योपाध्यायम् ‘उद्देशयितुम्’ आत्मनो गुरुतया व्यवस्थापयितुम् ‘कारणं दीपयित्वा तु कल्पते ।’ एष सूत्रार्थः ॥ २६ ॥

मूल—“गणावच्छेइए य इच्छिज्जा अन्नं आयरिय उवज्झायं उद्दिसावित्तए, नो से कप्पइ गणावच्छेइयत्तं अनिक्खवित्ता अन्नं आयरिय उवज्झायं उद्दिसावित्तए, कप्पइ से गणावच्छेइयत्तं निक्खवित्ता अन्नं आयरिय उवज्झायं उद्दिसावित्तए । नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरिय-उवज्झायं उद्दिसावित्तए, कप्पइ से अपुच्छित्ता जाव उद्दिसावित्तए । नो से कप्पति तेसिं कारणं अदीवित्ता

अन्नं आयरिय-उवज्झायं उद्दिसावित्तए, कप्पइ से तेसिं कारणं दीवित्ता
अन्नं जाव उद्दिसावित्तए ॥ २७ ॥

मूल-आयरिय उवज्झाय इच्छिज्जा अन्नं आयरिय उवज्झायं उद्दिसावित्तए, नो से कप्पइ आयरिय उवज्झायत्तं अनिक्खवित्ता अन्नं आयरिय उवज्झायं उद्दिसावित्तए, कप्पइ से आयरिय उवज्झायत्तं निक्खवित्ता अन्नं आयरिय उवज्झायं उद्दिसावित्तए । णो से कप्पति अणापुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरिय उवज्झायं उद्दिसावित्तए, कप्पति से आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरिय-उवज्झायं उद्दिसावित्तए । ते य से वितरंति एवं से कप्पति जाव उद्दिसावित्तए, ते य से णो वियरंति एवं से नो कप्पइ जाव उद्दिसावित्तए । णो से कप्पइ तेसिं कारणं अदीवित्ता अन्नं आयरिय-उवज्झायं उद्दिसावित्तए, कप्पइ से तेसिं कारणं दीवित्ता जाव उद्दिसावित्तए ॥ २८ ॥

टीका- अस्य सूत्रद्वयस्य व्याख्या प्राग्वत् ॥ २७ ॥ २८ ॥

मूल-भिक्षु य राश्रो वा वियाले वा आहच्च वीसुं भिज्जा, तं च सरीरगं केइ वेयावच्च करे भिक्षु इच्छिज्जा एगंते बहुफासुए पएसे परिद्व-
वित्तए, अत्थियाइत्थकेइ सागारियसंतिए उवगस्सजाए अचित्ते परिहरणा-
रिहे, कप्पइ से सागारिकडं गहाय तं सरीरगं एगंते बहुफासुए पएसे परिद्व-
वित्ता तत्थेव उवनिक्खवियव्वे सिया ॥ २९ ॥

टीका- भिक्षुः च शब्दादाचार्योपाध्यायौ वा राज्ञौ वा विकान्ते वा 'आहच्च'
कदाचित्-विष्वग् भवेत्-जीव शरीरयोः पृथग् भावमाप्नुयात्-स्त्रियत इत्यर्थः । तच्च
शरीरकं कश्चिद् वैयानृत्यकरो भिक्षुरिच्छेत् 'एकान्ते' विविकते 'बहुप्राशुके' कीटकादि-
सत्त्वरहिते प्रदेशे परिष्ठापयितुम् । अस्ति चात्र किञ्चित्सागारिक सत्कम् 'अचित्तं'
निर्जीवं 'परिहरणाहं-परिभोगयोग्यमुपकरणजातं-वहनकाष्ठमित्यर्थः । कल्पते 'से'
तस्य भिक्षोस्तत्काष्ठं सागारिक कृतं-सागारिकस्यैव सत्कमिदं नास्माकम्, इत्येवं
गृहीत्वा तत्-शरीरमेकान्ते बहुप्राशुके प्रदेशे परिष्ठापयितुम् । तच्च परिष्ठाप्य यतो
गृहीतं तत् काष्ठं तत्रैवोपनिक्षेप्यं स्यादिति सूत्रार्थः ॥ २९ ॥

मूल—भिक्षु य अहिकरणं कट्टं तं अहिकरणं अविश्रोसदित्ता नो से कप्पइ गाहावड्कुलं भत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा वहिया विहारभूमिं वा विहार भूमिं वा णिक्खमित्तए वा पविसित्तए वा गामाणुगामं वा दूज्जिजाए, गणातो वा गणं संक्रमित्तए, वासावासं वा वत्थए । जत्थेव अप्पणो आयरिय उवज्जायं पासेज्जा बहुस्सुयं ववभागं तस्संतिए आलोइज्जा पडिक्कमिज्जा निदिज्जा गरहिज्जा विउट्टेज्जा विसोहेज्जा अकरणवाए अब्भुट्ठिज्जा आहारिहं तवोक्कम्मं पायच्छित्तं पडिवज्जेज्जा । से य सुएण पट्ठविए आइअव्वे सिया, से य सुएण नो पट्ठविए नो आइतव्वे सिया, से य सुएण पट्ठविज्जमाणे नो आइयइ से निज्जूहियव्वे सिया ॥ ३० ॥

टीका—भिक्षुः प्रागुक्तः च शब्दादुपाध्यायादिपरिग्रहः अधिकरणं-कलहं कृत्वा नो कल्पते तस्य तदधिकरणमव्यवशमय्य गृहपतिकुलं भक्ताय वा पानाय वा निष्क्रमितुं वा प्रवेष्टुं वा 'वहिर्विचारभूमौ वा विहारभूमौ वा निष्क्रमितुं वा प्रवेष्टुं वा, ग्रामानुग्रामं वा द्रोतुं-विहर्तुम् । गणाद्वा गणं संक्रमितुम् । वर्षावासं वा वस्तुम् । किन्तु यत्रैवात्मन आचार्योपाध्यायं पश्येत्, कथम्भूतम् ? बहुश्रुतं-छेदग्रन्थादिकुशलं, बह्वागमम्-अर्थतः प्रभूतागमम् । तत्र तस्थान्तिके 'आलोचयेत्' स्वापराधं वचसा प्रकटयेत् प्रतिक्रामेत्-मिथ्यादुष्कृतं तद्विषये दद्यात्, 'निन्द्याद्' आत्मसाक्षिकं जुगुप्सेत्, गर्हेत्-गुरुसाक्षिकं निन्द्यात् । इह च निन्दनं गर्हणं वा तात्त्विकं तदा भवति यदा तत्करणतः प्रतिनिवर्तते तत आह-'व्यावर्तेत्, तस्मादपराधपदाद्-निवर्तेत् । व्राह्मन्तावपिकृतात्पापात् तदामुच्यते यदाऽऽत्मनो विशोधिर्भवति, तत आह-'आत्मानं विशोधयेत्, पापमक्षरफेदनतो निर्मलीकुर्यात् । विशुद्धिः पुनरपुनः करणतायामुपपद्यते ततस्तामेवाऽऽह-'अकरणता-अकरणीयता तया अभ्युत्तिष्ठेत् । पुनरकरणतया अश्रुत्थानेऽपि विशोधिः प्रायश्चित्तप्रतिपत्त्या भवति, तत आह-'यथाऽर्हम्' यथा-योग्यं तपः कर्म प्रायश्चित्तं प्रतिपद्येत् । 'तच्च' प्रायश्चित्तमाचार्येण 'श्रुतेन' श्रुतानुसारेण यदि 'प्रस्थापितं' प्रदत्तं तदा 'आदातव्यं, आह्यं' स्याद्-भवेत्, अथ श्रुतेन न प्रस्थापितं तदा नादातव्यं स्यात् 'स' च आलोचको यदि श्रुतेन प्रस्थाप्यमानमपि तत् प्रायश्चित्तं 'ना ददाति-न प्रतिपद्यते ततः सः 'निर्यूहितव्यः, 'अन्यत्र शोधिकुरुष्व' इति निषेधनीयः स्यादिति सूत्रार्थः ॥ ३० ॥

मूल-परिहार कप्पट्टियस्स णं भिक्खुस्स कप्पइ आयरिय उवज्जाएणं
तद्विसं एगगिहंसि पिण्डवायं दवावित्तए, तेण परं णो से कप्पइ असणं वा
पाणं वा खाइमं वा साइमं वा दाउं वा अणुप्पदाउं वा । कप्पइ से अन्न-
दरं वेयावड्डियं करित्तए, तंजहा-उट्टावणं वा, निसिआवणं वा, तुपट्टा-
वणं वा; उच्चार पासवण-खेल-सिंघाण विगिचणं वा विसोहणं वा करि-
त्तए । अह पुण एवं जाणिज्जा-छिन्नावाएसु पंथेसु आउरे भिक्खिए पिवासिए,
एवस्सी, दुव्वले, किलंते मुच्छिज्ज पदडिज्ज वा एवं से कप्पइ असणं वा
४ दाउं वा अणुप्पदाउं वा ॥ ३१ ॥

टीका- परिहार कल्पस्थितस्य भिक्षोः कल्पते आचार्योपाध्यायेन 'तद्विसम'
इन्द्रमहाद्युत्सव दिने एकस्मिन् गृहे 'पिण्डपातं' विपुलमवगाहिमादि भक्तलाभं
दापयितुम् । ततः परं 'से' तस्य नो कल्पते अशनं वा पानं वा खादिमं वा स्वादिमं
वा दातुमनुप्रदातुं वा । तत्र दातुमेकशः, अनुप्रदातुं पुनः पुनः । किन्तु कल्पते 'से'
तस्य परिहारिकस्यान्यतरद् वैयावृत्त्यं कर्तुम् । तद्यथा--"उत्थापनं वा निषादनं
वा त्वग्वर्तापनं वा उच्चार प्रसवणं खेल सिङ्घानादीनां च विवेचनं वा-परिष्ठापनं
'विशोधनं वा' उच्चारादिखरिष्टतोपकरणादेः प्रक्षालनं कर्तुम् । अथ पुनरेवं
जानीयात्-छिन्नापातेषु, व्यवच्छिन्न गमाऽऽगमेषु पथिषु आतुरः ग्लानः 'भिक्खितः'
बुभुक्षार्तः पिपासितः नृषितो न शक्नोति विवर्द्धितं ग्रामंप्राप्तुम्, अथवा ग्रामादावपि
तिष्ठतां सः तपस्वी पष्ठाऽष्टमादिपरिहारतपः कर्मकुर्वन् दुर्बलो भवेत्, ततो भिक्षाच-
र्यया क्लान्तः सन् मूर्च्छेद्वा प्रपतेद्वा 'एवं' से-तस्य कल्पते अशनादिकं दातुमनु-
प्रदातुं वा एष सूत्रार्थः ॥ ३१ ॥

मूल-"नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा इमाओ पंच महएण-
वाओ महानदीओ उट्टिड्ढाओ गणियाओ वंजियाओ अंतो मासस्स दुक्खुत्तो
वा तिक्खुत्तो वा उत्तरित्तए वा संतरित्तए वा । तं जहा-गंगा, जउणा,
सरउ, कोसिया, मही ॥ ३२ ॥

टीका-नो कल्पते, न युज्यन्ते, सूत्रे एक वचननिर्देशः प्राकृतत्वात् निर्ग्रन्थानां वा
वा निर्ग्रन्थीनां वा इमाः-प्रत्यक्षासन्नाः पञ्च महार्णवा-बहूदकतया महार्णवकल्पाः
सहस्रसमुद्रगामिन्शो वा महानद्यः-गुरुनिस्त्रगाः उट्टिष्टाः सामान्येनाऽभिहिता यथा

मङ्गलं इति गणिता यथा पञ्चेति 'व्यञ्जिताः' व्यक्तीकृता यथा गङ्गेत्यादि 'अन्तर'
मध्ये मासस्य द्विकृत्वो वा त्रिकृत्वो वा उत्तरीतं वा-बाहुजंवादिना सन्तरीतं वा-
नावादिना। तद्यथा गङ्गा, १ यमुना, २ सरयू, ३ कोशिकी, ४ मही, ५ एष सूत्रार्थः ॥३२॥

मूल—“अह पुणएवं जाणिजा—एरावइ कुणालाए जत्थ चकिया एगं
पायं जले किच्चा एगं पायं थले किच्चा एवएहं कप्पइ अंतो मासस्स
दुक्खुत्तो वा तिक्खुत्तो वा उत्तरिचाए वा संतरिचाए वा जत्थ एवं नो चकिया
एवएहं नो कप्पइ अंतो मासस्स दुक्खुत्तो वा तिक्खुत्तो वा उत्तरिचाए वा
संतरिचाए वा ॥ ३३ ॥

टीका--अथ पुनरेवं जनीयात्--पेरावती नाम नदी कुणालाया नगर्याः समीपे
जंवाद्धं प्रमाणेनोद्भेधेन वहति तस्यामन्यस्यां वा यत्रैवं "चकिया-शक्नुयादुत्तरीतुमिति
शेषः। कथम् ? इत्याह-एकं पादं जले कृत्वा, एकं पादं 'स्थले' आकाशे कृत्वा 'एवएहं'
इति वाक्यालङ्कारे, यत्रोत्तरीतुं शक्नुयात् तत्र कल्पतेऽन्तर्मासस्य द्विःकृत्वो वा त्रिःकृत्वो
वा उत्तरीतुं-लंघयितुं सन्तरीतुं वा भूयः प्रत्यागन्तुम्। यत्र पुनरेवमुत्तरीतुं न शक्नु-
यात् तत्र नो कल्पतेऽन्तर्मासस्य द्विकृत्वो वा त्रिकृत्वो चोत्तरीतुं वा सन्तरीतुं वा।
इति सूत्रार्थः ॥ ३३ ॥

मूल—“से तणेसु वा तणपुंजेषु वा पलालेषु वा पलालपुंजेषु वा
अप्पण्डेसु अप्पपाणेषु अप्पवीणेषु अप्पहरिणेषु अप्पुस्सेसु अप्पुत्तिग पणग
दगमड्डिय मक्कडगसंताणएसु अहेसवण मायाए नो कप्पइ निग्गंथाण वा
निग्गंथीण वा तहप्पगारे उवस्सए हेमंत गिम्हासु वत्थए ॥ ३४ ॥

मूल—“से तणेसु वा जाव संताणएसु उप्पिसवणमायाए कप्पइ निग्गं-
थाण वा निग्गंथीण वा तहप्पगारे उवस्सए हेमंत गिम्हासु वत्थए ॥३५ ॥

मूल—“से तणेसु वा जाव संताणएसु अहेरयणी मुक्कमउडेसु नो कप्पइ
निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा तहप्पगारे उवस्सए वासावासं वत्थए ॥३६॥

मूल—“से तणेसु वा जाव संताणएसु उप्पिरयणीमुक्कमउडेसु कप्पइ
निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा तहप्पगारे उवस्सए वासावासं वत्थए ॥३७॥

टीका--अथ तणेसु वा तणपुंजेषु वा पलालेषु वा पलाल पुंजेषु वा अल्लापण्डेषु,

अल्पप्राणेषु अल्पभीजेषु अल्पहरितेषु अल्पाऽवश्याषु-अल्पोत्तिङ्ग पनक दक मृत्तिका
मर्कट सन्तानकेषु । इहाऽण्डकानि पिपीलिकाऽऽदीनाम् । प्राणाः-द्वीन्द्रियादयः,
धीजम्-अनङ्कुरितम्, तदेवाऽङ्कुरितोद्भिन्नं हरितम्, अवश्यायः-स्नेहः-उत्तिङ्गः-
कीटिकानगरम्, पनक-पञ्चवर्णः साङ्कुरोऽनङ्कुरो वा अनन्त वनस्पति विशेषः, दक-
मृत्तिका-सचित्तो मिश्रो वा कर्दमः, मर्कटकः-कोलिकस्तस्य सन्तानकं जालकम् ।
अल्पशब्दश्चेह सर्वत्राऽभाव वचनः, ततोऽण्डरहितेषु प्राणरहितेषु इत्यादि मन्तव्यम्,
अहेसवणमायाए, इति-अधः श्रवणमात्रया-श्रवणयोरधस्तात्-यत्र ह्यादन तृणादीनि
भवन्ति तथा प्रहारे उपाश्रये नो कल्पते निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा हेमन्त
ग्रीष्मेषु वस्तुम् अष्टावृतुवद्धमासान् इत्यर्थः ॥

एवं प्रतिषेध सूत्रमभिधाय प्रपञ्चितज्ञविनेयाऽनुग्रहाऽर्थं विधिसूत्रमाह-अथ
तृणेषु वा यादल्प सन्तानकेषु उपरिश्रवण मात्रया युक्तेषु तथाविधोपाश्रये कल्पते
हेमन्त ग्रीष्मेषु वस्तुम् । एवमृतुवद्ध सूत्रद्वयं व्याख्यातम् । अथ वर्षा वास सूत्रद्वयं
व्याख्यायते-अथ तृणेषु वा तृणपुञ्जेषु वा यादल्प० सन्तानकेषु "अधेरयणी मुक्क
मउडेसु" इति अञ्जलिमुकुलितं बाहुद्वयमुच्छ्रितं मुकुट उच्यते सहस्तद्वय प्रमाणः ।
रत्निभ्यां-हस्ताभ्यां मुक्ताभ्याम् उच्छ्रिताभ्यां यो निमतो मुकुटः स रत्निमुक्त मुकुटः,
एतावत्प्रमाणमधस्तादुपरि च यत्राऽन्तरालं न प्राप्यते तेष्वधोरत्निमुक्त मुकुटेपु
तृणादिषु न कल्पते वर्षावासे वस्तुम् ॥ अथ तृणेषु वा यादल्प० सन्तानकेषु उपरि
रत्नि मुक्त मुकुटेपु यथोक्त प्रमाणेषु मुकुटोपरिवर्तिषु संस्तारके निविष्टस्य साधोरद्धं
तृतीय हस्ताद्यपान्तरालयुक्तेषु-इत्यर्थः । ईदृश्यां वसतौ कल्पते वर्षावासे वस्तुमिति
सूत्रं चतुष्टयार्थः ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ । ३७ ॥

इति कल्पसूत्रस्य सटीकस्य चतुर्थ उद्देशः समाप्तः ॥



अथ पंचम उद्देशकः

मूल—“देवे य इत्थिरुवं विउव्वित्ता निग्गंथं पडिग्गाहिज्जा तं च निग्गंथे साइज्जेज्जा, मेहुण पडिसेवणप्पत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ॥ १ ॥

मूल—“देवी य इत्थीरुवं विउव्वित्ता निग्गंथं पडिग्गाहिज्जा, तं च निग्गंथे साइज्जेज्जा मेहुणपडिसेवणप्पत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ॥ २ ॥

मूल—“देवी य पुरिसरुवं विउव्वित्ता निग्गंथी पडिग्गाहेज्जा, तं च निग्गंथी साइज्जेज्जा, मेहुणपडिसेवणप्पत्ता आवज्जइ चाउम्मासियं अणुग्घाइयं ॥ ३ ॥

मूल—“देवे य पुरिसरुवं विउव्वित्ता निग्गंथीं पडिग्गाहिज्जा, तं च निग्गंथी साइज्जेज्जा, मेहुण पडिसेवणप्पत्ता आवज्जइ चाउम्मासियं अणुग्घाइयं ॥ ४ ॥

टीका—देवश्च स्त्री रूपं विकुर्व्यं निर्ग्रन्थं प्रतिगृह्णीयात्, तच्च निर्ग्रन्थो मैथुन प्रति सेवनप्राप्तो यदि स्वादयेत्-अनुमोदयेत् तत आपद्यते चातुर्मासिकं परिहारस्थानम् अनुद्घातिकम् ॥ १ ॥

एवं द्वितीयसूत्रं—देवी स्त्रीरूपं विकुर्व्यं निर्ग्रन्थं प्रतिगृह्णीयादित्याद्यपि मन्तव्यम् । २
तृतीय सूत्रम्—देवी पुरुषस्यरूपं विकुर्व्यं निर्ग्रन्थीं प्रतिगृह्णीयात्, तच्च निर्ग्रन्थी स्वादयेत्, मैथुन प्रतिसेवन प्राप्ता आपद्यते चातुर्मासिकमनुद्घातिकं स्थानम् ॥३॥

टीका--एवं देवः पुरुषरूपं विकृत्य निर्ग्रन्थीं प्रतिगृह्णीयादित्याद्यपि चतुर्थसूत्रं कर्तव्यम् । एष सूत्र चतुष्टयार्थः ॥ ४ ॥

मूल--“भिक्षु य अहिगरणं कट्टु तं अहिगरणं अविश्रोसवित्ता इच्छि-
ज्जा अन्नं गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए, कप्पइ तस्स पंचराइंदियं छेयं
कट्टु, परिनिव्वाविय परिनिव्वाविय दोच्चं पितमेव गणं पडिनिज्जाएअव्वे
सिया, जहा वा तस्स गणस्स पत्तियं सिया ॥ ५ ॥

टीका--भिक्षुः--च शब्दादाचार्य उपाध्यायो वाऽधिकरणं कृत्वा तदधिकरण-
मवप्रवशमय्य इच्छेद् अन्यं गणमुपसम्पद्य विहर्तुम् । ततः कल्पते 'तस्य' अन्यगण-
मुपसंक्रान्तस्य पञ्चरात्रिन्द्वं छेदं कर्तुम् । ततः परिनिर्वाप्य परिनिर्वाप्य-कोमल वचः
सलिलसेकेन कषायाग्नि सन्तप्तं सर्वतः शीतलीकृत्य द्वितीयमपिवारं तमेवगणं
स प्रतिनिर्यातव्यः,--नेतव्यः स्यात् । यथा वा तस्य गणस्य प्रीतिकं स्यात् तथा
कर्तव्यम् ॥ एष सूत्रार्थः ॥ ५ ॥

मूल--“भिक्षु य उगय वित्तीए अणत्थमिय संकप्पे संथडिए निव्वि-
तिगिच्छे असणं वा ४ पडिग्गाहिता आहारं आहारेमाणे अहपच्छा जा-
णिज्जा-अणुग्गए सूरिए अत्थमिए वा, से जं च मुहे जं च पाणिसि जं च
पडिग्गहे तं विगिंचमाणे वा तिसोहेमाणे वा नो अइक्कमइ, तं अप्पणा
धुंजमाणे अणोसि वा दलमाणे राइभोयण पडिसेवणप्पत्ते आवज्जइ
चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्वाइयं ॥ ६ ॥ (१)

मूल--“भिक्षु य उगय वित्तीए अणत्थमिय संकप्पे संथडिए वित्ति-
गिच्छासमावन्ने असणं वा ४ पडिग्गाहिता आहारं आहारमाणे जाव
अन्नेसि वा दलमाणे राइभोयण पडिसेवणप्पत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं
परिहारट्ठाणं अणुग्वाइयं ॥ ७ ॥ (२)

मूल--“भिक्षु य उगयवित्तीए अणत्थमियसंकप्पे असंथडिए निव्वि-
तिगिच्छे असणं वा ४ पडिग्गाहिता आहारं आहारेमाणे जाव अन्नेसि वा
दलमाणे राइभोयण पडिसेवणप्पत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं
अणुग्वाइयं ॥ ८ ॥ (३)

मूल—“भिदाखं य उगयवितीए अणत्थमियसंक्रुष्ये असंथडिए वि-
इगिच्छासमावन्ने असणं वा ४ पडिगाहिता आहारमाहारेमाणे जाव
अन्नेसिं चा दलमाणे राइभोयण पडिसेवणप्पत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं
परिहारड्डाणं अणुग्घाइर्यं ॥ ६ ॥ (४)

टीका-भिक्षुः पूर्ववर्णितः, चशब्दादाचार्य उपाध्यायश्च परिगृह्यते, उद्गते आदि-
त्ये वृत्तिः-जीवनोपायो यस्य स उद्गतेवृत्तिकः, पाठान्तरं वा-उगयमुत्तीए त्ति,
मूर्तिः शरीरम्, उद्गते रञ्जौ प्रतिश्रयावग्रहाद् ब्रह्मिः प्रचारवती मूर्तिरस्य इति
उद्गतेमूर्तिकः-मध्यमपदलोपी समासः । अनस्तमिते सूर्ये सङ्कल्पो-भोजनाभिलाषो
यस्य सोऽनस्तमित सङ्कल्पः । संसृतो नाम-समर्थस्तद्विवसं पर्याप्त भोजी वा । नि-
व्वितिगिच्छे इति विचिकित्सा चित्तविप्लुतिः-सन्देह इत्येकोऽर्थः, सा निर्गता यस्मात्
स निर्विचिकित्सः-उदितोऽनस्तमितो वा रविरित्येवं निश्चयवान् इत्यर्थः । एवंविध
विशेषणयुक्तोऽशनं वा पानं वा खादिसं वा स्वादिसं वा प्रतिगृह्य आहारम् ‘आहरन्’
भुञ्जानोऽथ पश्चादेवं जानीयात्-अनुद्गतः सूर्योऽस्तमितो वा । एवं विज्ञाय ‘से’ तस्य
यच्च मुखे प्रतिक्षिप्तं यच्च पाणानुत्पादितं यच्च प्रतिग्रहे स्थितं तद् विविधन् वा
(विविचन् वा) परिष्ठापयन् ‘विशोधयन् वा निरवयवं कुर्वन् ‘नो’ नैव भगवतामाज्ञा-
मतिक्रामति । तद् अशनादिकम् आत्मना भुञ्जानोऽन्येषां वा ददानो रात्रिभोजन-
प्रतिसेवन प्राप्त आपद्यते चातुर्मासिकं परिहारस्थानमनुद्घातिकम् ॥ ६ ॥ १ ॥

एवमपरमपि सूत्र त्रयं मन्तव्यम् । नवरं द्वितीय सूत्रे-संसृतो-विचिकित्सा-
समापन्नश्च यो भुंक्ते । विचिकित्सा-समापन्नो नाम ‘विमुदितोऽनुदितो वा रविः’ ?
अथवा-अस्तमितोऽनस्तमितो वा ?, इति सन्देहदोलायमानमानसः । एवं भुञ्जा-
नस्य अन्येषां वा ददानस्य चतुर्गुरुकम् ॥ ७ ॥ २ ॥

तृतीय सूत्रे ‘असंथडिये’ इति ‘असंसृतः’ अध्वप्रतिपन्नः क्षपको ग्लानो वा भययते,
स निर्विचिकित्सः, नियमादनुद्गतोऽस्तमितो वा रविः इत्येवं निस्सन्देहं जानानो ?
(जानन्) यादि भुंक्ते तदपि चतुर्गुरुकम् । शेषं प्रथम सूत्रवत् ॥ ८ ॥ ३ ॥

चतुर्थ सूत्रे-असंसृतो विचिकित्सासमापन्नश्च यो भुंक्ते स आपद्यते चातु-
र्मासिकं परिहारस्थानमनुद्घातिकम् ॥ एष सूत्र चतुष्टयार्थः ॥ ६ ॥ ४ ॥

मूल—“इह खलु निग्गंथस्स वा निग्गंथीए वा राओ वा वियाले वा

सपाणे सभोयणे उग्गाले आगच्छेज्जा, तं विगिंचमाणे वा विसोहेमाणे वा नो अक्कमइ । तं उग्गिलित्ता पवोगिलमाणे राइभोयण पडिसेवणप्पत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं परिशाट्ठाणं अणुग्वाइयं ॥ १० ॥

टीका—इह, अस्मिन् मौतीन्त्रे प्रचक्षते ग्रामादौ वा वर्तमानस्य 'खलुः', वाक्या-
लङ्कारे निर्ग्रन्थस्य च निर्ग्रन्था वा रात्रौ वा विकाले वा सहपानेन सपानः सह
भोजनेन सभोजन उद्गार आमच्छेत् । किमुक्तं भवति ? सिक्थ विरहितमेकं
पानीयमुद्गारेण सहागच्छति, क्रूरसिक्थं वा केवलमागच्छति, कदाचिदुभयं च ।
तमुद्गारं विविच्छन् वा सकृत्परित्यजन् 'विशोधयन् वा बहुशः परित्यजन् नो
अज्ञामतिक्रामति' तमुद्गीर्य 'प्रत्यवगिज्जन्' भूयोऽप्यास्वाद्यन् आपद्यते चातुर्मा-
सिकं परिहारस्थानमनुद्वातिक्रम । एष सूत्रार्थः ॥ १० ॥

मूल—“निग्गंथस्स य गाहावइकुलं पिंडवाय पडियाए अणुप्पविट्ठस्स
अंतोपडिग्गहंसि पाणाणि वा बीयाणि वा रए वा परियावज्जेज्जा, तं च
संचाएइ विगिंचित्ते वा विसोहित्ते वा, तं पुव्वामेव लाइया विसोहिया
तत्रो संजतामेव भुंजेज्ज वा पिएज्ज वा । तं च नो संचाएइ विगिंचित्ते
वा विसोहित्ते वा तं नो अप्पणा भुंजेज्जा नो अन्नेसिं दावए एगंते बहु-
फासुए पदेसे पडिलेहित्ता पमज्जित्ता परिट्ठवियव्वे सिया ॥ ११ ॥

टीका—निर्ग्रन्थस्य गृहपतिकुलं पिण्डमातप्रतिज्ञया अनुप्रविष्टस्याऽन्तः प्रतिग्रहे
प्राणा वा बीजानि वा रजो वा परि-समन्तादापतेयुः । 'तच्च' प्राणादिकं यदिशक्नोति
विवेक्तुं वा विशोधयितुं वा ततः—'तत्-प्राणादिजातादिकं लात्वा-हस्तेन गृहीत्वा
विशोधय २-सर्वथैवापनीय ततः संयत प्रयत्नपर एव भुञ्जीत वा विवेक्षा । तच्च न
शक्नोति विवेक्तुं वा विशोधयितुं वा तत्रात्मना भुञ्जीत, नवाऽन्येषां दक्षात्, किन्तु
एकान्ते बहुप्राणुके प्रदेशे प्रत्युपेक्ष्य प्रमृज्य परिष्ठापयितव्यं स्यादिति सूत्रार्थः ॥११॥

मूल—“निग्गंथस्स य गाहावइकुलं पिंडवाय पडियाए अणुप्पविट्ठस्स
अंतोपडिग्गहंसि दए वा दगरएवा दगफुसिए वा परियावज्जेज्जा, से य
उसिणे भोयणजाते भोचव्वे सिया, से य सीए भोयणजाते तं नो अप्पणा
भुंजेज्जा, नो अन्नेसिं दावए, एगंते बहुफासुए पदेसे परिट्ठवेव्वे सिया । १२ ॥

टीका - निर्ग्रन्थस्य गृहपतिकुलं पिण्डपात प्रतिज्ञयाप्रविष्टस्यान्तःप्रतिग्रहे भक्त-
पानमध्ये 'दकं वा' प्रभूताफ्कारूपं दकरजो वा, उदकविन्दुः 'दकस्पर्शितं वा,
उदकशीकराः पर्यापतेयुः । तच्चोष्णं भोजनजातं ततो भोक्तव्यंस्यात् । अथ शीतं
तद् भोजनजातं ततस्तन्नात्मना भुञ्जीत, नान्येषांद्द्यात्, एकान्ते बहुप्राशुके प्रदेशे
परिष्ठापयितव्यं स्यादिति सूत्रार्थः ॥ १२ ॥

मूल-निर्गन्धी रात्रौ वा वियाले वा उच्चारं वा पासवणं वा विगिंच
माणीए वा विसोहेमाणीए वा अन्नयरे पसुजाइए वा पक्खिजाइए वा
अन्नपरं इंदियजायं परामुसेज्जा, तंच निर्गन्धी साइज्जेज्जा, हत्यकम्म
पडिसेवणप्पत्ता आवज्जइ मासियं अणुग्वाइयं ॥ १३ ॥

मूल-निर्गन्धी रात्रौ वा वियाले वा उच्चारं वा पासवणं वा
विगिंचमाणीए वा विसोहेमाणीए वा अन्नयरे पसुजाइए वा पक्खिजाइ-
ए वा अन्नयरंसि सोयंसि ओगाहिज्जा, तंच निर्गन्धी साइज्जेज्जा, मेहण-
पडिसेवणप्पत्ता आवज्जइ चाउमासियं अणुग्वाइयं ॥ १४ ॥

टीका-निर्ग्रन्थ्या रात्रौ वा विकाले वा उच्चारं वा प्रसवणं वा विविचिन्त्या वा
विशोधयन्त्या वा अन्यतरः पशुजातीयो वा वानरादिकः पक्षिजातीयो वा, मयूरादि-
कोऽन्यतरदिन्द्रिय जातं 'परामृशेत्, स्पृशेत्, सा च निर्ग्रन्थी तं च स्पर्शं स्वादयेत्-
सुन्दरोऽस्य स्पर्शं इत्यनुमन्येत, हस्तकर्म प्रतिसेवन प्राप्ता आपद्यते मासिकमनुद-
घातिकं स्थानम् । इह निर्ग्रन्थीनां परिहारतपो न भवतीति कृत्वा 'परिहारद्वारणं'
इतिपदं न पठनीयम् ॥ एवं द्वितीयसूत्रमपि व्याख्येयम् । नवरम्-स्रोतसि-योन्त्यादौ
वानरादिरवगाहेत । सा च मैथुन प्रतिसेवनप्राप्ता यदि स्वादयेत् ततश्चतुर्गुरुकमिति
सूत्रार्थः ॥ १३ ॥ १४ ॥

मूल-नो कप्पइ निर्गन्धीए एगाणियाए गाहावइकुलं पिण्डवाय पडि-
याए निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा, वहिया वियार भूमिं वा विहारभूमिं
वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा एवं गामाणुगामं वा दइज्जित्तए वासा-
वासं वा वत्थए ॥ १५ ॥

टीका-नो कल्पते निर्ग्रन्थ्या एकाकिन्या गृहपतिकुलं पिण्डपात प्रतिज्ञया निष्क-

मितुं वा प्रवेष्टुं वा बहिर्निचारभूमौ वा विहारभूमौ वा निष्क्रमितुं वा प्रवेष्टुं वा
प्रामानुषामं वा द्रोतुं - विहर्तुम् वर्षावासं वा वस्तुमिति सूत्रार्थः ॥ १५ ॥

मूल-नो कप्पइ निग्गंथीए अचेलियाए हुं (हो) तए ॥ १६ ॥

टीका-नो कल्पते निर्ग्रन्थ्या अचेलिकाया वखरहिताया भवितुमिति एषसूत्रार्थः ॥ १६ ॥

मूल-नो कप्पइ निग्गंथीए अपाइयाए हुं तए ॥ १७ ॥

टीका-नो कल्पते निर्ग्रन्थ्या अपात्रायाः-पात्र रहिताया भवितुमिति सूत्रार्थः ॥ १७ ॥

मूल-नो कप्पइ निग्गंथीए वोसट्टकाइयाए हुं तए ॥ १८ ॥

टीका-नो कल्पते निर्ग्रन्थ्या व्युत्सृष्टकायिकायाः-परित्यक्तदेहाया भवितुमिति
सूत्रार्थः ॥ १८ ॥

मूल-नो कप्पइ निग्गंथीए वहिया गामस्स वा जाव सन्निवेशस्स वा उड्ढं
वाहाओ पगिज्झिय पगिज्झिय सराभिसुहीए एगपाइयाए ठिच्चा आयावणाए
आयावित्तए । कप्पइ से उवस्सयस्स अंतोवगडाए संघाडिपडिवद्धाए पलं-
विय वाहियाए समतल पाइयाए ठिच्चा आयावणाए आयावित्तए ॥ १९ ॥

टीका-नो कल्पते निर्ग्रन्थ्या वहिर्ग्रामस्य वा यावत्संनिवेशस्य वा ऊर्द्ध्वम्-
ऊर्द्ध्वं वाऽभिमुखौ वाहू प्रगृह्य-प्रगृह्य प्रकर्षेण गृहीत्वा-कृत्वेत्यर्थः । सूर्याभिमुख्या एक
पादिकायाः, एकपादमुर्द्ध्वं कृत्वाऽऽकुञ्च्य च अपरमेकं पादं भुविकृतवत्या एवंविधायाः
स्थित्याऽऽतापनयाऽऽतापयितुम् । किन्तु कल्पते से-तस्या उपाश्रयस्याऽन्तर्वगडायां
(सङ्घाटी प्रतिबद्धायाः) प्रलम्बित वाहायाः समतल पादिकायाः स्थित्वा आताप-
नया आतापयितुमिति सूत्रार्थः ॥ १९ ॥

मूल-नो कप्पइ निग्गंथीए ठाणाइयाए हुं तए ॥ २० ॥

मूल-"नो कप्पइ निग्गंथीए पडिमट्टाइयाए हुं तए ॥ २१ ॥

मूल-"एवं ने सज्जियाए ॥ २२ ॥ उक्कुडुगासणियाए ॥ २३ ॥ वीरा-
सणियाए ॥ २४ ॥ दंडासणियाए ॥ २५ ॥ लंगंडसाइयाए ॥ २६ ॥ ओमंथि-
याए ॥ २७ ॥ उत्ताणियाए ॥ २८ ॥ अंबस्सुज्जियाए ॥ २९ ॥ एगपासियाए ॥ ३० ॥

टीका-नो कल्पते निर्ग्रन्थ्याः स्थानायताया भवितुम् ॥ २० ॥ एवं प्रतिमास्था-
यिन्याः । नैपयिकायाः । उत्कटिकासनिकायाः । वीरासनिकायाः । दण्डासनिकायाः ।

लगण्डशायिन्याः । अवाङ्मुखायाः । उत्तानिकायाः । आम्रकुब्जिकायाः । एक-
पार्श्वशायिन्याः ॥ इति सूत्राक्षरार्थः ॥२१-२२-२३-२४-२५-२६-२७-२८-२९-३०॥

मूल—“नो कप्पइ निग्गंथीणं आकुञ्चणपट्टं धारित्तए वा परिहरि-
त्तए वा । कप्पइ निग्गंथाणं आकुञ्चणपट्टं धारित्तए वा परिहरित्तए वा ॥३१॥

टीका—“नो कल्पते निर्ग्रन्थीनाम् आकुञ्चनपट्टं-पर्यस्तिकापट्टं धारयितुं वा परि-
हर्तुं वा । कल्पते निर्ग्रन्थानामाकुञ्चनपट्टं धारयितुं वा परिहर्तुं वेति सूत्रार्थः ॥३१॥

मूल—“नो कप्पइ निग्गंथीणं सावस्सयंसि आसणंसि आसइत्तए वा
तुयट्ठित्तए वा । कप्पइ निग्गंथाणं सावस्सयंसि आसणंसि आसइत्तए वा
तुयट्ठित्तएवा ॥३२॥

टीका—सावश्रयं नाम-यस्य पृष्ठतोऽवप्रम्भो भवति, एवंविधे आसने निर्ग्रन्थीनां
नो कल्पते आसितुं वा त्वग्वर्तितुं वा । कल्पते निर्ग्रन्थानां सावश्रये आसने आसितुं वा
त्वग्वर्तितुं वा । निर्ग्रन्थस्तु तादृशे आसने यदि उपविशन्ति शेरते वा तदा त एव
गर्वाद्दयो दोषाश्चतुर्गुरु च प्रायश्चित्तम् । द्वितीयपदेऽल्पसागारिके स्थविरा ग्लाना वा
उपविशेयुः । निर्ग्रन्थानामपि न कल्पते । यदि उपविशन्ति तदाचतुर्लघु । सूत्रं कार-
णिकम् । तदेव कारणमाह—“सावस्सए इत्यादि पञ्चार्द्धम् । यो वृद्धआचार्यः सः
'पूर्वकृते' गृहस्थैः स्वार्थं सम्पादिते सावश्रयेऽप्यासने उपाविष्टः 'असागारिके एकान्ते
वाचयेत् विनेयानां वाचनां दद्यात् ॥ ३२ ॥

मूल—“नो कप्पइ निग्गंथीणं सविसाणंसि पीढंसि वा फल्लगंसि वा
आसइत्तए वा तुयट्ठित्तए वा । कप्पइ निग्गंथाणं सविसाणंसि पीढंसि वा
फल्लगंसि वा आसइत्तए वा तुयट्ठित्तए वा ॥ ३३ ॥

टीका—सविषाणं नाम-यथा कपाटस्योभयतः शृङ्गं भवतः एवं यत्र भिसिकादौ
पीठे फल्लके वा विषाणं शृङ्गं भवति तत्र निर्ग्रन्थीनामासितुं वा शयितुं वा न
कल्पते । निर्ग्रन्थानां तु कल्पते । निर्ग्रन्थस्तु सविषाणे पीठे फल्लके वा यद्युपविशन्ति
शेरते वा तदा चतुर्गुरु आज्ञादयश्च दोषाः ॥ ३३ ॥

मूल—नो कप्पइ निग्गंथीणं सवेट्ठियं लाउयं धारित्तए वा परिहरित्तए
वा । कप्पइ निग्गंथाणं सवेट्ठियं लाउयं धारित्तए वा परिहरित्तए वा ॥३४॥

टीका—अस्य व्याख्या सुगमा । नवरम्-‘सवेट्ठियं’ नालयुक्तमलायुक्तं तत्र निर्ग्रन्थीनां
न कल्पते । निर्ग्रन्थानान्तु कल्पते ॥ ३४ ॥

मूल—नो कप्पइ निग्गंथीणं सर्वेटियं पायकेसरियं धारित्तए वा परिहरित्तए वा । कप्पइ निग्गंथाणं सर्वेटियं (टया) पादकेसरियं (रया) धारित्तए वा परिहरित्तए वा ॥ ३५ ॥

टीका—नो कल्पते निर्ग्रन्थीनां सवृन्तिका पादकेसरिका^१ धारयितुं वा परिहर्तुं वा । कल्पते निर्ग्रन्थीनां सवृन्तिका^२ पादकेसरिका धारयितुं वा परिहर्तुं वा ॥ ३५ ॥

मूल—नो कप्पइ निग्गंथीणं दारुदंडयं पायपुंछणं धारित्तए वा परिहरित्तए वा । कप्पइ निग्गंथाणं दारुदंडयं जाव परिहरित्तए वा ॥ ३६ ॥

टीका—यत्र दारुमयस्य दण्डस्याग्रभागे ऊर्णिका दशिका बध्यन्ते तद् दारुदण्डकं पादप्रोञ्जनमुच्यते । तद् निर्ग्रन्थीनां न कल्पते । निर्ग्रन्थीनां तु कल्पते ॥ ३६ ॥

मूल—नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा अन्नमन्नस्स मोयं आइयत्तए वा आइमित्तए वा नन्नत्थ गाढाऽगाढेसु रोगायंकेसु ॥ ३७ ॥

टीका—नो कल्पते निर्ग्रन्थीनां वा निर्ग्रन्थीनां वा अन्योन्यस्य-परस्परस्य मोकमापातुं वा आचमितुं वा । किं सर्वथैव ? न, इत्याह-गाढाः-अहि-विप-विसूचिका-दयः अगाढाश्च, ज्वरादयो रोगातङ्कास्तेभ्योऽन्यत्र न कल्पते, तेषु तु कल्पते, इत्यर्थः । एष सूत्रार्थः ॥ ३७ ॥

मूल—नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा पारियासियस्स आहारस्स जाव तयप्पमाण मित्तमवि भूइप्पमाण मित्तमवि विंदुप्पमाण मित्तमवि आहारं आहारित्तए, नन्नत्थ आगाढेसु रोगायंकेसु ॥ ३८ ॥

टीका—नो कल्पते निर्ग्रन्थीनां वा निर्ग्रन्थीनां वा परिवासितस्य, रजन्यां स्थापितस्याहारस्य मध्यात् त्वक् प्रमाणमात्रमपि भूति प्रमाणमात्रमपि विन्दु प्रमाणमात्रमपि यावदाहारमाहर्तुम् । इह त्वक् प्रमाणमात्रं नाम-तिलतुषत्रिभागमात्रम् तच्चाशनस्य घटते, भूति (भस्म) प्रमाणमात्रं सक्तुकादीनां नेयम् । विन्दु प्रमाणमात्रं पानकस्य । इदमेवाऽपवदति-आगाढेभ्यो रोगाऽऽत्क्लेभ्योऽन्यत्र न कल्पते । तेषु पुनः कल्पत इति सूत्रार्थः ॥ ३८ ॥

१ पादकेसरियाणाम उहरथं चीरं । असईएचीराणं दाहयन्ञ्जति । इति चूर्णिः ।

२ यथाभिनवसङ्कटमुखे मलायुनि हस्तो न माति तस्यालायुनोयदुच्चस्वं तस्यप्रमाणो दण्डः क्तिपते, तस्याग्रभागे

भूते बद्धाया प्रत्युपेक्षिका सा पादकेसरिका सवृन्ता भण्यते । वृ० टी०

मूल—नो कल्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा पारियासिएणं आलेपण जाएणं (गायाइं) आलिपित्तए वा विलिपित्तए वा नन्नत्थ आगाढेहिं रोगायंकेहिं ॥ ३६ ॥

टीका—नो कल्पते निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा परिवासितेनाऽऽलेपनजातेन 'आलेपयितु' वा ईषल्लेपयितुं वा, विलेपयितुं वा-विशेषेण लेपयितुं वा नाऽन्य-प्राऽऽगाढेभ्यो रोगाऽऽतङ्केभ्य इति सूत्रार्थः ॥ ३६ ॥

मूल—नो कल्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा पारियासिएणं तेल्लेण वा घएण वा नवणीएण वा वसाए वा गायं अब्भंगित्तए वा मक्खित्तए वा नन्नत्थ गाढागाढेहिं रोगायंकेहिं ॥ ४० ॥

टीका—नो कल्पते परिवासितेन तैलेन वा घृतेन वा नवनीतेन वा वसया वा गात्रम् 'अभ्यङ्गितुं वा, बहुकेन तैलादिना, अक्षितुं वा-ग्वल्पेन तैलादिना, नान्यत्र गाढाऽगाढेभ्यो रोगातङ्केभ्यः तान् मुक्त्वा न कल्पते । दौषाश्चात्र त एव सञ्जयादयो मन्तव्याः ॥ ४० ॥

मूल—"परिहार कप्पट्टिए भिक्खु वहिया थेराण वेयावडियाए गच्छे-ज्जा, से य आहच्च अइकमेज्जा, तं च थेरा जाणेज्जा, अप्पणो आग-मेणं अन्नेसि वा अंतिए सोमोच्चा तत्रो पच्छा तस्स अहालहुस्सए नाम ववहारे पट्टवियव्वे सिया ॥ ४१ ॥

टीका—परिहार कल्पस्थितो भिक्षुः वहिः अन्यत्र नगरादौ स्थविराणाम्, आचार्याणामादेशेन वैयावृत्य(त्या)र्थं गच्छेत्, किमुक्तं भवति ? अन्यस्मिन् गच्छे केषां-चिदाचार्याणां वादी-नास्तिकादिक उपस्थितः, तेषां च नास्ति वादलब्धिसम्पन्नः, ततस्ते येषामाचार्याणां स परिहारिकस्तेषामन्तिके संघाटकं प्रेषयन्ति, सच संघाटको म्रूते-वादिनं कमपि मुत्कलयत । एवमुक्ते ते-आचार्याः परिहारिकं परवादि निग्रह-क्षमं मत्वा तत्र प्रेषयन्ति । ततस्तदादेशादसौ परिहार तपो वहमान एव तत्र गच्छेत् । इदंच महत्प्रवचनस्य-वैयावृत्यंयद् अग्लान्या परवादि निग्रहणम् । ततस्तदर्थं गतः स पारिहारिकः आहच्च, कदाचित् अतिक्रामेत्, पादधावनादिकं प्रतिसेवेत, तच्च प्रतिसेवनं 'स्थविराः' मौलाचार्या आत्मनः 'आगमेन' अवध्याद्यतिशयज्ञानेन

अन्येषां वाऽन्तिके श्रुत्वा जानीयुः ? ततःपश्चात् तत्परिज्ञानाऽन्तरं 'तस्य' पारिहारि-
कस्य 'यथात्वमुत्सवको नाम, स्तोक प्रायश्चित्तरूपो व्यवहारः प्रस्थापयितव्यः स्यादिति
सूत्रार्थः ॥ ४१ ॥

मूल—“निर्गन्धीय य गाहावइकुलं पिडवायपडियाए अणुप्पविट्ठाए
अन्नयरे पुलागभत्ते पडिग्गाहिए सिया, सा य संथरेज्जा, कप्पइ से तदि-
वसं तेषेय भत्तट्ठेणं पज्जोसवित्तए, नो से कप्पइ दोच्चंपि गाहावइकुलं
पिडवाय पडियाए पविसित्तए, सा य नो संथरेज्जा, एवं से कप्पइ दोच्चं पि
गाहावइकुलं पिडवाय पडियाए पविसित्तए ॥ ४२ ॥

टीका—निर्ग्रन्थ्या गृहपतिकुलं पिण्डपातप्रतिज्ञयाऽनुप्रविष्ट्या 'अन्यतरद्'
धान्य-गन्ध-रसपुलाकानां-वज्र विकट दुग्धादिरूपाणामेकतरं पुलाकभक्तं प्रतिगृहीतं
स्यात्, साच तेनैव भुक्तेन 'संस्तरेत्' दुर्भिन्नाद्यभावात्-निर्वहेत्, ततः कल्पते
तस्यास्तद्विवसे 'सं०' तेनैव भक्तार्थेन 'पर्युषितुम्' निर्वाहयितुम् । नो से-तस्याः
कल्पते द्वितीयमपि वारं गृहपतिकुलं पिण्डपातप्रतिज्ञया प्रवेष्टुम् । अथ सा न संस्तरेत्,
ततः कल्पते तस्या द्वितीयमपि वारं गृहपतिकुलं पिण्डपातप्रतिज्ञया प्रवेष्टुमिति
सूत्रार्थः ॥ ४२ ॥

“इति बृहत्कल्पसूत्रस्य पञ्चमोद्देशकः समाप्तः”



अथ षष्ठ उद्देशकः

मूल—“नो कल्प इति निर्गन्थाण वा निर्गन्थीण वा इमाङ् छ अक्षयणाङ् वञ्चाए, तं जहा—अलियवयणे १ हीलियवयणे २ खिसियवयणे ३ फरुस-वयणे ४ गारत्थियवयणे ५ विउसवियं वा पुणो उदीरिचाए ॥ १ ॥

टीका—पञ्चमोद्देशकस्यादिसूत्रं उक्तम्—“देवः स्वरूपं कृत्वा साधुं भोगै-
निमन्त्रयेत्” स च तान् मुक्त्वा गुरुसकाशमागत आलोचयेत्—दिव्यैर्भोगैः ‘छन्दितः’
निमन्त्रितोऽहं परं मया ते भोगा नेप्सिताः इति एवं गौरवेण कश्चिद्दलीकं वदेत् ।
अत इदं षष्ठोद्देशकस्यादिसूत्रमारभ्यते । अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—
‘नोकल्पः’ इति वचनव्यत्ययात्—नो कल्पन्ते निर्गन्थानां निर्गन्थीनां वा इमानि
प्रत्यक्षाऽऽसन्नानि षडिति-षट्संख्याकानि अवचनानि-नवः कुत्सार्थत्वात् अप्रशस्तानि
वचनानि वदितुं-भाषितुम् । तद्यथा-अलीकवचनं १ हीलितवचनं २ खिसिनवच-
नं ३ परुपवचनं ४ आगारिणो (आगारेस्थिताः) गृहिणः-तेषां वचनं ५ व्यवशमितं वा,
उपशमितमधिकरणं पुनर्भूयोऽप्युदीरयितुं न कल्पते इति प्रक्रमः । अनेन व्यवशमितस्य
पुनरुदीरणवचनं नाम षष्ठमवचनमुक्तम् इति सूत्रं संक्षेपार्थः ॥ १ ॥

मूल—“कल्पस्स छ पत्थारा पन्नत्ता, तं जहा—‘पाणाइवायस्स वायं
वयमाणे १ सुसावायस्स वायं वयमाणे २ अदिन्नादाणस्स वायं वयमाणे
३ अदिरइयं वायं वयमाणे ४ अपुरिस वायं वयमाणे ५ दासवायं वयमाणे
६ इच्चेते कल्पस्स छ पत्थारे पत्थरेत्ता सम्मं अप्पडिपूरेमाणे तट्ठाणपत्ते
सिया ॥ २ ॥

टीका—कल्पस्स-कल्पः-साधुसमाचारः, तस्य सम्बन्धिनः तद्विशुद्धिकारणत्वात्
प्रस्ताराः-प्रायश्चित्तरचना विशेषाः षड्विधाः प्रज्ञप्ताः, तद्यथा-पाणाइ०-प्राणाति-

पातस्य वादं वार्ता वाचं वा वदति साधौ प्रायश्चित्तप्रस्तारो भवतीत्येकः ॥ १ ॥
 सुपा०-एवं मृषावादस्य वादं वदति द्वितीयः ॥ २ ॥ अदि०-अदत्तादानस्य वादं
 वदति तृतीयः ॥ ३ ॥ अवि०-^३अविरनियते यद्वा न विद्यते विरतिरस्याः सा अवि-
 रतिका स्त्री सेवारूपं तद्वादं वदति चतुर्थः ॥ ४ ॥ अपु०-अपुरुषः-नपुंसकः तद्वादं
 वदति पञ्चमः ॥ ५ ॥ दास-दासवादं वदति षष्ठः ॥ ६ ॥ इच्छेते-इतीति उपदर्शने-एवं
 प्रकारान् एतान् षट् कल्पस्य पथ० प्रस्तारान् प्रायश्चित्तरचनान्विशेषान् मासगुर्वा-
 दयः पारश्चिकपर्यन्ताः (तान्) पत्यरे-प्रस्तीर्य । अभ्युपगमनम् (अभ्युपगम्य)
 आत्मनि प्रस्तुतान् विधाय प्रस्तारयिता वा अभ्याख्यान दाता साधुः सम्यगप्रतिपूर-
 यन्, अभ्याख्येयार्थत्यासद्भूततया अभ्याख्यान समर्थनकर्तुमशक्नुवन् । तस्यैव
 प्राणातिपातादिकर्तुमिदं स्थानं प्राप्तः तन् स्थानप्राप्तः स्यात्, प्राणातिपातादिकारीक
 दुग्ढनीयो भवेत् इति भावः । अथवा प्रस्तारान् प्रस्तीर्य विरचय्य आचार्येण
 अभ्याख्यान दाता अप्रतिपूर्णं अपराऽपर प्रत्ययवचनैस्तमर्थं सत्यमकुर्वन् 'तद्वाण-
 त्तस्थान प्राप्तः कर्तव्य इति शेषः । यत्र प्रायश्चित्तपदे विवदमानोऽवतिष्ठते-न पदान्तर-
 मारभ्यते तत्पदं प्रापणीय इतिभावः । एष सूत्रार्थः ॥ २ ॥

मूल-“निग्गंथस्स य अहेपायंसि खाणू वा कंटए वा हीरे वा सकरे वा
 परियावज्जेज्जा, तं च निग्गंथे नो संचाएज्जा नीहरित्ते वा विसोहेत्ते वा,
 तं च निग्गंथी नीहरमाणी वा विसोहेमाणी वा णाइक्कमइ ॥ ३ ॥

मूल-“निग्गंथस्स य अर्च्छिसि पाणे वा बीए वा रए वा परियावज्जे-
 ज्जा, तं च निग्गंथो नो संचाएज्जा नीहरित्ते वा विसोहेत्ते वा, तं
 च निग्गंथी नीहरमाणी वा विसोहेमाणी वा णाइक्कमइ ॥ ४ ॥

मूल-“निग्गंथीए य अहेपायंसि खाणू वा कंटए वा हीरे वा सकरे
 वा परियावज्जेज्जा, तं च निग्गंथी नो संचाएज्जा नीहरित्ते वा विसो-
 हित्ते वा, तं च निग्गंथे नीहरमाणे वा विसोहेमाणे वा णाइक्कमइ ॥ ५ ॥

मूल-“निग्गंथीए य अर्च्छिसिपाणे वा बीए वा रए वा परियावज्जे-
 ज्जा तं च निग्गंथी नो संचाएज्जा नीहरित्ते वा विसोहित्ते वा तं च निग्गंथे
 नीहरमाणे वा विसोहेमाणे वा णाइक्कमइ ॥ ६ ॥

१-अविरतिः-अत्र प्र, यद्वा न विद्यते विरतिरस्याः सा अविरतिका स्त्री वा० भा० ।

२-संवापइ इ० लि० ।

३-हीरे वा० भा० ।

अस्य सूत्र चतुष्टयस्य व्याख्या-

टीका--निर्गमं--निर्ग्रन्थस्य अधः पादे-पादतले स्थाणुर्वा कण्टको वा हीरो वा काचविशेषो वा शर्करा वा पर्यापतेत्-अनुप्रविशेत्, 'तंच नि०'-तच्च कण्टकादिकं निर्ग्रन्थो न शक्नुयात्नीहर्तुं वा-निष्काशयितुं वा विसोः-विशोधयितुं वा-निश्शेष-मपेत्तुम् 'तंच नि०'-तच्च निर्ग्रन्थी निर्हरन्ती वा विशोधयन्ती वा नातिक्रामति आङ्गामिति गम्यते, इति प्रथम सूत्रम् ॥ ३ ॥

टीका--निर्गमं-निर्ग्रन्थस्य 'अच्छिद्य' अक्षिण-लोचने प्राणा वा मशकादयः सूक्ष्माः 'वीए'-बीजानि वा सूक्ष्माणि श्यामाकादीनि 'एवा' रजो वा-सचित्तमचित्तं वा पृथ्वीरजः, 'परि०'-पर्यापतेत्-प्रविशेत्, तच्च प्राणादिकं निर्ग्रन्थो न शक्नुयात् नीहर्तुमित्यादिप्राग्वत् ॥ ४ ॥

टीका--(तृतीय चतुर्थ सूत्रे निर्ग्रन्थी विषये एवमेव व्याख्यात्तव्ये) इति सूत्र चतुष्टयार्थः ॥ ५ ॥ ६ ॥

मूल--"निर्गमंथे निर्गमंथी दुर्गंसि वा विसमंसि वा पव्वयंसि वा पक्खलमाणि वा पक्खमाणि वा गिरहमाणे वा अवलंममाणे वा णाड्वक्कमइ । ७ ।

टीका--अस्य सूत्रत्रयस्य व्याख्या--निर्ग्रन्थो निर्ग्रन्थी दुर्गे वा विषमे वा पर्वते वा, त्रिविधञ्च भवति दुर्गं तद्यथा--वृक्षदुर्गं श्वापददुर्गं, मनुष्यदुर्गं च । यद्दुष्टैरतीवगहनतया दुर्गमम् यत्र वा पथि वृक्षः पतितस्तद्वृक्षदुर्गम् । यत्रव्याघ्र-सिंहादीनांभयं तत्-श्वापददुर्गम् । यत्रम्लेच्छयोधिकादीनां मनुष्याणां भयं तद्-मनुष्यदुर्गम् । एतेषु त्रिष्वपि दुर्गेषु यदि निष्कारणे निर्ग्रन्थी गृह्णाति अवलम्बते वा तदाचदुर्गुरु । त्रिविधञ्चभवति विषमम्-भूमिविषमम्, श्वापद विषमम्, मनुष्यविषमं च । भूमिविषमं नाम गर्तापाषाणाद्याकुलो भूभागः, श्वापदमनुष्यविषमे तु श्वापदमनुष्यदुर्गवज्ज्ञेये । अत्र भूमिविषमेणाधिकारः, पव्व० पर्वतपदं तु प्रतीतत्वात् न व्याख्यातम् 'पक्खलमाणं'-प्रकर्षेण स्वल्ग गत्यागच्छन्ती भूमौ असम्प्राप्ता वा पतन्ती पतितुकामामित्यर्थः । पक्ख०--प्रकर्षेण भूमौ सर्वैरपिगात्रैः पतन्ती, 'गिरह०'-बाह्यादावङ्गे गृह्णान वा, अवलम्बमानो वा बाह्यादौगृहीत्वा

धारयन् अथवा गृह्णन् सर्वाङ्गीणां धारयन्, अवलम्बमानो देशतः करेण गृह्णन्-
साहयन् इत्यर्थः-नातिक्रामति स्वाचारमाज्ञां वा इति प्रथम सूत्रम् ॥ ७ ॥

मूल-“निग्गंथे निग्गंथीं सेयंसि वा पंकं सिथा पण्णंसि वा उदयंसि
वा ओक्कसमाणि वा ओवुक्कमाणि वा गिरहमाणे वा अवलंबमाणे वा
नाइक्कमइ ॥ ८ ॥

टीका-व्याख्या पूर्ववत्-‘नवरम्-सेयं-सेको नाम पङ्केपनके वा सज्जे यत्र
निमज्जयते तत्र वा, पंक-पङ्कः कर्दमः, तत्र वा, पनको नाम आगन्तुकः प्रतनुह्वरूपः
कर्दम एव तत्र वा, उदकं-प्रतीतम्, तत्र वा, उक्कसमा-अपकसन्तीं वा पङ्कपनकयोः
परिहसन्तीं ओवुक्क-अपोह्यमानां वा, सेकेन-उदकेन वा नीयमानां गृह्णन् वा अव-
लम्बमानो वा नातिक्रामति ॥ ८ ॥

मूल-“निग्गंथे निग्गंथि नावं आरोहमाणि वा उरोहमाणि वा गि-
रहमाणे वा अवलंबमाणे वा नाइक्कमइ ॥ ९ ॥

टीका-तृतीय सूत्रे निर्ग्रन्थीमेव नावम् आरोह-आरोहन्तीम् (आरूढमानाम्)
उरो-अवरोहन्तीम्-नाव्युत्तरमाणां, गिरह-गृह्णन् वा अवलम्बमानो वा नाति-
क्रामति, इति सूत्रार्थः ॥ ९ ॥

मूल-“खित्तचित्तं निग्गंथि निग्गंथे गिरहमाणे वा अवलंबमाणे वा
नाइक्कमइ ॥ १० ॥

टीका-खित्तचित्तं ति-क्षिप्तं-नष्टं रागभयाऽपमानैश्चित्तं यस्याः सा क्षिप्तचित्ता,
ताम् निर्ग्रन्थीं वा निर्ग्रन्थोगृह्णानो वा अवलम्बमानो वा नातिक्रामत्याज्ञामिति
सूत्रार्थः ॥ १० ॥

मूल-“दित्तचित्तं निग्गंथि निग्गंथे गिरहमाणे वा अवलंबमाणे वा
नाइक्कमइ ॥ ११ ॥

टीका-दित्त-अस्य व्याख्या प्राग्वत्, ‘नवरम्-दीप्तचित्ता-लाभादिमदेन पर-
वशीभूतहृदया ताम् ॥ ११ ॥

मूल—“जङ्घाङ्गुलिं निग्गंथिं निग्गंथे गिएहमाणे वा अवलंबमाणे वा
नाइक्कमइ ॥ १२ ॥

टीका—जङ्घा०—अस्य व्याख्या प्राग्वत्, नवरम्—यज्ञाविष्टाम्—यज्ञो देवता-
पूर्वसंस्तुतादिः । तेनाऽधिष्ठिताम्, इति ॥ १२ ॥

मूल—उम्मायपत्तं निग्गंथिं निग्गंथे गिएहमाणे वा अवलंबमाणे वा
नाइक्कमइ ॥ १३ ॥ उवसग्गपत्तं निग्गंथिं निग्गंथे गिएहमाणे वा अवलंब-
माणे वा नाइक्कमइ ॥ १४ ॥

टीका—अस्य सूत्रद्वयस्य व्याख्या प्राग्वत् । नवरम्—उम्मादप्राप्तम् ॥ १३ ॥
उवसग्ग—उपसर्गप्राप्तम् ॥ १४ ॥

मूल—“साहिगरणं निग्गंथिं निग्गंथे गिएहमाणे वा अवलंबमाणे वा
नाइक्कमइ ॥ १५ ॥

टीका—साहि०—अस्य व्याख्या प्राग्वत्, अत्र भाष्यम्—उत्पन्ने इति संयत्या गृहस्थे-
नससमधिकरणे उत्पन्ने द्विविधमतिक्रमं दृष्ट्वा तस्याधिकरणस्य व्यवशसनं कर्तव्यम्
किमुक्तं भवति ? स गृहस्थोऽनुपशान्तः सन् तस्याः संयत्याः संयसभेदं जीवितभेदं
चेति द्विविधमतिक्रमं कुर्यात्, तदुपशमयितव्यमधिकरणम् । कथमित्याह—यस्तस्याः
संयत्याः प्रतिपत्तो गृहस्थः तस्य प्रथमतः कोमलवचनैरनुशासनं कर्तव्यम् । तथा-
प्यतिष्ठति भीषणं-भाषणं कर्तव्यम्, तथाप्यभिभवतो निरुभणं यस्य या लब्धि-
स्तेन तथा निवारणं कर्तव्यम् ॥ १५ ॥

मूल—“सपायच्छित्तं निग्गंथिं निग्गंथे गिएहमाणे वा अवलंबमाणे वा
णाइक्कमइ ॥ १६ ॥

टीका—सपाय०—अस्य व्याख्या प्राग्वत्, नवरम्—सा सप्रायश्चित्ता तत्प्रथमतायां
प्रथमतः प्रायश्चित्ते दीयमाने भयेन—कथमहमेतत्प्रायश्चित्तं वक्ष्यामि ? इत्येवं रूपेण
विषण्णा भवेत्, यदि वा प्रायश्चित्तं वहन्ती तपसा क्लान्ता भवेत्, तत्रेयं यत्तना-
पायच्छित्ते दिण्णे, भीताए विसज्जणं किलंताए । अणुसट्ठिं वहन्तीए, भएण
खित्ताह-तेइच्छं ॥ प्रायश्चित्ते दत्ते यदि विभेति ततस्तस्या भीतायाः क्लान्तायाश्च
विसर्जनं, प्रायश्चित्तं मुत्कलं क्रियत इत्यर्थः ॥ अथ वहन्ती क्लाम्यति ततस्तस्या
वहन्त्या अनुशिष्टिदीयते यथा मा भैपीः बहुगतं स्तोत्रं तिष्ठति, यदि वा वयं साहा-

थं करिष्याम इति । अथैवमनुशास्यमाणाऽपि भयेन हितचित्ता भवति ततस्तस्याः
चैकित्स्थं-चिकित्सायाः कर्म कर्तव्यम् ॥ १६ ॥

मूल-“भक्तपाण पडियाइक्खियं निग्गंथि निग्गंथे गिएहमाणे वा अव-
लंघमाणे वा नाइक्कमइ ॥ १७ ॥

टीका-भक्तपाण०-‘अस्य व्याख्या प्राग्वत्, नवरम् भक्तं च पानं च भक्तपाने
ते प्रत्याख्याते यथा सा तथोक्ता । क्तान्तस्य परनिपातः सुखादिदर्शनात् ॥ १७ ॥

मूल-“अट्टजायं निग्गंथि निग्गंथे गिएहमाणे वा अवलंघमाणे वा
णाइक्कमइ ॥ १८ ॥

टीका-‘अट्टजा०’-अस्य व्याख्या प्राग्वत् । साम्प्रतम् अर्थजातशब्द व्युत्पत्ति-
प्रतिपादनार्थमाह-‘अट्टेणत्ति-अर्थेन-अर्थितया संजातं कार्यं यथा । यद्वा अर्थेन-
द्रव्येण जातम् उत्पन्नं कार्यं यस्याः सा अर्थजाता गमकत्वादेवमपि समासः । उपल-
क्षणमेतत्, तेनैवमपि व्युत्पत्तिः कर्तव्या-‘अर्थः प्रयोजनं जातोऽस्या इति
अर्थजाता । कथं पुनरस्या अवलंघनं क्रियते ? इत्याह तां पुनः प्रथमव्युत्पत्तिमूचितां
संयम भावात् चाल्यमानाम्’ द्वितीय तृतीय व्युत्पत्तिपक्षे तु द्रव्याऽभावेन प्रयोजनाऽ
निष्पत्या वा सीदन्तीं समवलंघेत्-साहाय्यकरणेन सम्यग् धारयेत्, उपलक्षणत्वाद्
गृहणीयादपि ॥ १८ ॥

मूल-“छ कप्पस्स पल्लिमंथू परणत्ता तंज्जहा कुकुइए संजमस्स पल्लि-
मंथू १ मोहरिए सच्चवयणस्स पल्लिमंथू २ तित्तिणीए एसणा गोयरस्स पल्लिमंथू ३
चक्खूलोलूए इरियावहियाए पल्लिमंथू ४ इच्छालोभए मुत्तिमग्गस्स पल्लिमंथू ५
भिज्जा^१ नियाणकरणे मोक्खमग्गस्स पल्लिमंथू ६ सव्वत्थ भगवया अण्णि-
याणया पसत्था ॥ १९ ॥

टीका-‘छकप्पस्स०- पडिति पट्संख्या कप्प-कल्पस्य-कल्पाध्ययनोक्त साधुसमा-
चारस्य परिः-सर्वतो मथन्ति विलोडयन्ति (इति) परिमन्थवः, उणादित्वान-
‘उ’ प्रत्ययः । पाठान्तरेण परिमन्था वा व्याघातकाः इत्यर्थः । प्रज्ञप्तास्तीर्थकरादिभिः
प्रशीताः, तद्यथा कुकु०-कुचणअवस्यन्दने इतिवचनात् कुत्सितम्-अप्रत्युपेक्षि-

तत्त्वादिना, कुचितम् अवस्यन्दितं यस्य स कुकुचितः स एव प्रज्ञादिदर्शनात् स्वार्थिकाणु
 प्रत्यये कौकुचितः, कुकुचा वा अवस्यन्दितं प्रयोजनमस्येति कौकुचिकः, ससंयमस्य
 पृथिव्यादिरक्षणरूपस्य परिमंथो व्याघातकारी ॥१॥ मोहरी-मुखं-प्रभूत भाषणाति-
 शाशिवदनमस्यास्तीति, मुखरः स एव मौखरिको बहुभाषी । विनयादेराकृतिगणत्वा-
 दिकन् प्रत्ययः । यद्वा मुखेन अरिमावहतीति व्युत्पत्त्या निपातनान्मौखरिकाः,
 सत्यवचनस्य मृपावाद् विरतेः परिमन्थुः । मौखर्ये सति मृपावाद् सम्भवान् ॥ २ ॥
 चक्रुः-चक्षुपा लोलःचञ्चलो यद्वा चक्षुः लोलयस्य स चक्षुलोलः सन् स्तूप देवकुलादीनि
 विलोकमानो व्रजति, ईर्यागमनम्-तस्याः पन्थाः ईर्यापथः तत्रभवा या सभितिः सा
 ऐर्यापथिकी-ईर्यासभितिः, तस्याः परिमन्थुर्भवति ॥ ३ ॥ तित्तिणि०-तिन्तिनीकः-
 आहाराद्यभावे खेदात्, यत्किञ्चनाभिधायी, स एषणा-उद्गमादिदोषविमुक्त-
 भक्तपानादिगवेपणारूपा तत्प्रधानो यो गोचरः गौरिव मध्यस्थतया भिन्नार्थचरणं स
 एषणागोचरः, तस्य परिमन्थुः, सखेदो हि अनेपणीयमपि गृह्णाति इतिभावः ॥ ४ ॥
 इच्छालोभ-इच्छा अभिलापः सचासौ लोभश्च इच्छालोभः महालोभः-इत्यर्थः, यथा
 निद्रा निद्रा महानिद्रा इति, सचइच्छालोभः-अधिकोपकरणादि मेलन लक्षणः
 मुक्ति मार्गस्य-मुक्ति-निःपरिग्रहत्वम्, अलोभतेत्यर्थः, सैव निवृत्तिपुरस्य मार्ग इव
 मार्गः, तस्य परिमन्थुः ॥ ५ ॥ भिञ्जन्ति 'मा लोभः तेन यत् निदान करणं देवेन्द्र
 चक्रवर्त्यादिविभूति प्रार्थनम्, तन्मोक्षमार्गस्य सम्यग्दर्शनादिरूपस्य परिमन्थुः ।
 आर्तध्यान चतुर्थभेदरूपत्वात् । भिञ्जाग्रहणेन यत् अलोभस्य भव निर्वेदमार्गानुसा-
 रितादि प्रार्थनं तत्र मोक्षमार्गस्य परिमन्थुरित्यावेदितं प्रतिपत्तव्यम् ॥ ६ ॥ ननुतीर्थ-
 करत्वादि प्रार्थनम्, न राज्यादिप्रार्थनवत्-दुष्टम्, अतस्तद्विषयं निदानं मोक्षस्य परि-
 मन्थुर्नभविष्यति ? नैवम्, यतआह-"सव्वत्थ०-इत्यादि । सर्वत्र तीर्थ करत्व-चरमदे-
 हत्वादि विषयेऽपि" आस्तां राज्यादौ । अनिदानता-अप्रार्थनमेव भगवता-समग्रैश्वर्या-
 दिमताश्रीमन्महावीरस्वामिना 'पसत्येत्ति' प्रशंसिता-श्लाघिता, एष सूत्रार्थः ॥ १६ ॥


मूल-छविवाक्यकप्पट्टिईपन्नता, तंजहा-सामाहयसंजयकप्पट्टिई १, छेत्रो-
 वहावणिय संजयकप्पट्टिई २, निवित्रसमाणकप्पट्टिई ३, णिव्विड्डकाइय
 कप्पट्टिई ४, जिणकप्पट्टिई ५, थेरकप्पट्टिई ६, त्तियेमि ॥ २० ॥ खिरि
 कप्पे छट्ठोद्देशको समत्तो ।

टीका छविहा कल्प०, -षड्विधा-षट्प्रकारा कल्पे कल्पशास्त्रोक्त साधुसमाचारे स्थितिरवस्थानं कल्पस्थितिः, कल्पस्य वा स्थितिः-मर्यादा-कल्पस्थितिः प्रज्ञप्ता-तीर्थकरगणधरैः प्ररूपिता । तद्यथा-इति उपन्यासार्थः । सामा०-‘सामायिक संयत कल्पस्थितिः समो-राग’द्वेषरहितः, तस्य आयः-लाभो ज्ञानादीनां प्राप्तिरित्यर्थः, समाय एव सामायिकं सर्वसावद्ययोगविरतिरूपं, तत्प्रधानाः ये संयताः-साधवः, तेषां कल्पस्थितिः सामायिक संयत कल्पस्थितिः । १ । छेदो० तद्यथा-पूर्वपर्यायच्छेदेन उपस्थापनीयमारोपणीयं यत् तत्-छेदोपस्थापनीयम्, व्यक्तितो महाव्रतारोपणमित्यर्थः, तत्प्रधाना ये संयताः, तेषां कल्पस्थितिः, -छेदोपस्थानीय संयतकल्पस्थितिः । २ । निर्वि०--निर्विशमानाः-परिहार विशुद्धि कल्पं वहमानाः तेषां कल्पस्थितिः निर्विशमान कल्पस्थितिः ॥ ३ ॥

शिवि०-निर्विष्टकायिका नाम-यैः परिहार विशुद्धिकं तपो व्यूढम्, निर्विष्टः आसेवितो विवक्षित चारित्रलक्षणः कायोयैस्ते निर्विष्टकायिका इति व्युत्पत्तोः, तेषां कल्पस्थितिः, निर्विष्टकायिक कल्पस्थितिः ॥४॥ जिणक०-जिनाः-गच्छनिर्गताः-साधुविशेषाः, तेषां कल्पस्थितिः-जिनकल्पस्थितिः ॥ ५ ॥ थेरक०-स्थविरा-आचार्यादयो गच्छप्रतिवद्धास्तेषां कल्पस्थितिः स्थविरकल्पस्थितिः ॥ ६ ॥ इति-अध्ययनपरिसमाप्तौ । ब्रवीमीति-तीर्थकर गणधरोपदेशेन सकलमपि प्रस्तुत शास्त्रोक्तं कल्पा-ऽकल्पत्रिविधिं भणामि न पुनः स्वमनीषिकया इति सूत्र संक्षेपार्थः ॥ २० ॥

इति बृहत्कल्पसूत्रस्य षष्ठ उद्देशकः समाप्तः ॥






श्री बृहत्कल्पसूत्रस्य

परिशिष्टानि

—: परिशिष्टानुक्रमिका :—

१—प्रथमं परिशिष्टम्—	—	—शब्द कोषः
२—द्वितीयं परिशिष्टम्—	—	—पाठ भेदः
३—तृतीयं परिशिष्टम्—	—	—प्रति परिचयः
४—चतुर्थं परिशिष्टम्—	—	—विशेष शब्द सूची—
५—पंचमं परिशिष्टम्—	—	—टिप्पणम्



प्रथमं परिशिष्टम्

श्रीवृहत्कल्पसूत्रस्य—उद्देशकानुसारी अकारादिवर्ण क्रमेण शब्दार्थनिर्देशः

अ

उद्देश—	सूत्र—	शब्द—	अर्थ—
१	१-३	अभिष्णो	विधि से न काटे गए,
१	६	अंसि अंसि	ग्राम का आधा, चौथाई भाग
१	६-८	अवाहिरियंसि	जो ग्राम आदि से बाहर न हो
१	६	अंतो	भीतर
१	६	अंतो भिक्खायरिया	भीतर गोचरी करना
१	६	अंतोवसमाणीणं	भीतर में वसती हुई
१	११	अभिण्णिवगडाण	अनेक-आवरण वाले
१	११	अभिण्णिदुवाराण	अनेक द्वारवाले
१	११	अभिण्णिक्खमणपवेसाण	निकलने व प्रवेशकरने के
			दरवाजावाले
१	१३	अंतरापणंसि	दुकान के भीतर
१	१४	अंतोकिञ्चा	उपाश्रय के भीतर
१	१४-१५	अंवगुयदुवारिण	खुले द्वारवाले
१	१६-१७	अंतोलित्तयं	भीतर में लीया हुआ
१	१६	असनं	भोजन
१	२१	अचित्तकस्मे	चित्ररहित (गृह)
१	२२-२४	अणिरसाण	शय्यातरसे प्रहण न किया गया
१	२६	अप्पसागारिण	गृहपति की थोड़ी वस्तु सहित
१	३५	अहिगरणं	कलह
१	३५	अविओसवित्ता	बिना उपशमन किए

उद्देश-	ख-त्र-	शब्द-	अर्थ-
२	३५	अस्थि	हड्डी
१	३५	अप्पणा	आत्मा से (स्वयं)
१	३५	अवमुद्वेजना	आदर के लिए खड़ा होवे
१	३८	अहकममाणे	उल्लंघन करता हुआ
१	३८	अणुग्वार्द्धं	गुरु प्रायश्चित्त
२	३६	अणुप्पविट्ठं	प्रवेश किए हुए
१	३६	अणुणवित्ता	अनुज्ञा लेकर
१	४७	अद्वाण गमणं	मार्ग में जाना
१	४६	अप्प विइयस्स	आत्मा ही है दूसरा
१	४६	अप्प तइयस्स	आत्मा ही है तीसरा
१	५१	अंग	चम्पा नगरी से सम्बन्धित देश
२	१-४	अंतोवगड़ाए	दरवाजे के भीतर का भाग
२	४	अहलालंदमवि	थोड़ाकाल भी
२	११-१२	अवभावणासियंसि	मध्य की खुली जगहों में
२	१३	अवसेसे	धाकी बचे गृहों में
२	१४	अनीहरं	नहीं ले गए, नहीं निकाले गए
२	१४-१५	असंसट्ठं	न मिला हुआ
२	१७-१८	अपडिग्गहिया	नहीं ली हुयी वस्तु
२	१६	अनिज्जूढाओ	नहीं ढंकी हुई
२	१६	अविभत्ताओ	पृथक् नहीं की हुई
२	१६	अव्वोच्छिन्नाओ	निश्चित न की हुई
२	१६	अव्वोगड़ाओ	विशेष रीति से प्रकट न की गई
२	१६	अंसिआओ	अंशिका (हिस्से की चीज)
२	२२-२३	अपाडिहारिए	अप्रातिहारिक
३	३-४	अहिट्टित्तए	बैठक में काम लेना
३	४	अणेगराइए	कई रातों (रात्रियों)
३	४	अपरिभुत्ते	उपयोग में न लाए हुए

उद्देश—	सूत्र—	शब्द—	अर्थ—
३	४	अपडिहारि ए	पीछे लौटाकर न देने योग्य
३	६	अकसिणाई	जो समस्त रूप नहीं हो
३	८	अभिष्णाई	अखण्ड
३	१२	अणुप्पविट्टाए	भीतर गयी हुई
३	१४	अहापडिगाहि एहिं	लिए हुए वस्त्रों के अनुसार
३	१६, १७, १८	आहाराइणियाए	गुणों की अपेक्षा छोटे बड़े के क्रम से
३	१९, २०	अंतरगिहंसि	घर के भीतर
३	२०	अठिञ्चा	(नहीं ठहर कर) बिना खड़े रहे
३	२२	अपडिइट्ट दु	पीछे पहुँचये बिना
३	२३	अविकरणं	यथा स्थान रखना या बिखरे-को समेटना
३	२४	अणुणवित्ता	बिना आज्ञा लिए
३	२४	अणुगवेसियव्वे	खोजने योग्य
३	२४	अणुगवेस्समाणे	खोजा जाना हुआ
३	२५	अहालंदं-	यथालंद काल प्रमाण, तीन-प्रकार का
३	२५	अवरे	दूसरे
३	२७	अमरपरिगहि एसु	देवों से गृहीत
३	२७	अव्वावडेसु	ले जाना लाना आदि व्या-पारों से रहित
३	२७	अव्वोगडेसु	भाग के अनुसार नहीं बाँटे हुए
३	२७	अपरपरिगहि एसु	दूसरों से ग्रहण नहीं किए
३	२८	अट्टाए	उसके लिए (तदर्थ)
३	२८	अणुणव्वेयव्वे	आज्ञा लेनी चाहिए
३	२८	अणुकुट्टे सु	भीत के समीपवर्ती प्रदेश में

उद्देश- सूत्र-	शब्द-	अर्थ-	
३	२६	अणुचरियासु	नगर गृह और नगर कोट के— मध्य का मार्ग
३	२६	अणुभित्तिसु	” ”
३	२६	अणुफरिहासु	परिखा-खाई के समीप
३	२६	अणुपथेषु	मार्ग के समीप
३	२६	अणुमेरासु	ग्राम नगर की सीमा के समीप
४	२	अन्नमन्नं	परस्पर
४	३	अणवदृष्पा	तत्काल व्रत में नहीं रखने योग्य
४	३	अन्नधम्मियाणं	पर धर्म वाले का
४	१०	अविओसवियपाहुडे	तीव्रतर क्रोध जिसका शान्त नहीं है
४	१०	अविणिय	अविनीत
४	१२	अमूढे	जो मूढ़ न हो
४	१३	अदुट्ठे	गुरुजनों के प्रति द्वेष नहीं- करने वाला
४	१३	अनुग्गाहिए	उलट मार्ग पर न ले जाया गया हो
४	१४	अणुग्वाइयं	बड़ा प्रायश्चित्त
४	१६	अणुप्पएजा	दूसरों को देवे
४	१६	अप्पणा	आत्मा से-स्वयं
४	१७	अद्धजोयणमेराए	आधा योजन की पर्यादा से
४	१८	अचित्ते	निर्जीव
४	१८	अणुवट्टावियए	महाव्रतों में नहीं लाए गए
४	१८	अणुसणियजे	नहीं लेने योग्य-सदोष आहार
४	१८	अणुप्पदाउ	पीछे देने के लिए
४	१९	अकप्पडियाणं	आचैलक आदि दश प्रकारके साधु

उद्देश—	सूत्र—	शब्द—	अर्थ—
४	२०, २२	अवक्कम्म	बाहर निकलकर
४	२०	अण्णं (अन्नं)	दूसरे
४	२४-२८	अनिक्खवित्ता	बिना त्याग
४	२८	अदीवित्ता	बिना समझाए
४	३०	अकरण्याए	नहीं करने के लिए
४	३३	अंतोमासस्स	मास के भीतर
४	३४	अप्पडेसु	अल्प अंडा वाले
४	३४	अप्पधीएसु	अल्प बीज वाले
४	३४	अप्पुस्सेसु	अल्प ओत वाले (तुषारयुक्त)
४	३४	अप्पहरिएसु	अल्प हरित वाले
४	३४	अप्पपाणेषु	अल्प प्राणिवाले
४	३४	अप्पुत्तिगणणगदगमट्टिय	अल्प कीटक नगरा पांच वर्ग- का पत्तक आदि
५	५	अबिओसवित्ता	शमन करके या शान्त करके
५	६	अह	घाट (तदनन्तर)
५	६	अग्गुग्गए	सूर्य के उदय न होने पर
५	६	अत्थमिए	सूर्य के अस्त होने पर
५	६	अन्नेसिं	दूसरों को
५	६	अइक्कमह	उल्लंघन करता है
५	७-८	अणत्थमियसंकप्पे	सूर्य के रहते भोजनकी इच्छा रखने वाले अथवा पर्याप्त आहार नहीं मिलने से पुनः भोजन की इच्छा वाले
५	११	अंतोपडिग्गहंसि	परिग्रह के भीतर
५	१६	अचेलियाए	बन्ध रहित
५	१७	अपहयाए	पात्रों से रहित साध्वी

उद्देश—	सूत्र—	शब्द—	अर्थ—
५	२९	अथखुञ्जियाए	आम्रकुट्टिका नाम के आसन से
५	३७	अन्नमन्नस्त	एक दूसरे का
५	४०	अवभंगित्ते	शरीर में मालिश करना
५	४१	अति	समीप में
५	४१	अहालहुस्सए	प्रायश्चित्त विशेष
५	४१	अइक्कमेज्जा	(पाद धावन आदि कर्म से) उल्लंघन करे
५	४२	अन्नयरे	कोई एक
६	१	अवयणाइं	न बोलने योग्य वचन
६	१	अलिय वयणे	मिथ्या वचन
६	२	अविरइय	अविरति-स्त्रीसेवा के बाद
६	२	अपुरिसवाय	नपुंसक के समान बोलना
६	२	अदिन्नादाणे	किसी के दिए बिना लेना
६	२	अपडिपूरेमाणे	सत्य न करता हुआ
६	४	अच्छिसि	आंसू में
६	५	अहेपायंसि	पैर के नीचे
६	७-८-६	अवलंबमाणे	पकड़ता हुआ (आधार देता हुआ)
६	१८	अट्टुजायं	किसी कार्य के वशीभूत
६	१६	अणियाणता	किसी भी फल की चाह नहीं करना

(आ)

१	१	आमे	कच्चे
१	६	आगरंसि	आकर अर्थात् खान में
१	६	आसमंसि	आश्रम अर्थात् साधुओं के मठ में

उद्देश-	सूत्र-	शब्द-	अर्थ-
१	१३	आवणगिहंसि	दूकान के घर में
१	३५	आदाएजा	आदर करे
१	३५	आराहणा	पालन करना
१	३८	आवज्जइ	प्राप्त करता है।
१	३८	आगमणं	आना
१	५१	आरिए खेत्ते	आर्यक्षेत्र
२	११	आगमण गिहंसि	पथिकों के आने के गृह में
२	१७	आहडिया	सन्देश (उपहार)
३	२०	आइक्खित्तए	कहने को
३	२२	आयाए	लेकर
३	२५	आगच्छिज्जा	आवे
४	१६	आहच्च	कदाचित्-लाकर
४	२३-२७	आपुच्छित्ता	पूछकर
४	२३	आयरियं	आचार्य को
४	२७	आयरिय उवज्जायं	आचार्य और उपाध्याय को
४	३०	आलोहज्जा	अपने अपराध को वचन से प्रकट करे
४	३०	आहारिहं	यथा योग्य-अपराध के अनुकूल
४	३०	आइयइ	लेता है
४	३०	आइतब्बे	ग्रहण करने योग्य
४	३०	आउरे	बीमार पड़ा
५	७	आहारं	चतुर्विध भोजन
५	७	आहारेमाणे	भोजन करते हुए
५	१९	आयावणाए	आतापना से
५	१६	आयावित्तए	आतापना लेने को
५	३१	आकुंचण पट्टगं	घन विशेष
५	३२	आसइत्तए	बैठने को
५	३२	आसणांसि	आसन पर

उद्देश-	सूत्र-	शब्द-	अर्थ-
५	३७	आइयत्तए	पीने को
५	३७	आइमित्तए	आचमन को
५	३७	आगाद्धेसु	ध्वर आदि रोगों का
५	३७	आयंकेतु	आतङ्क-भय
५	३८	आहारस्स	चतुर्विध आहार के
५	३९	आलेवण जाएणं	लेप के साधनों से
५	३९	आलिपित्तए	आलेपन करने को
५	४१	आगमेणं	अवधि आदि अतिशयज्ञान से
६	६	आरोहमाणि	चढ़ती हुई

(इ)

१	७	इष्कं	एक
१	२७	इत्थी सागारिए	स्त्री गृहस्वामिनी बाले
१	३५	इच्छाए	अपनी इच्छा से
२	२४	इमाइं	ये-आगे कहे जाने वाले
३	२४	इइ	यहां-इसमें
४	१८	इत्थ	यहां
४	२०	इच्छेज्जा	चाहें-इच्छा करे
४	२६	इच्छिज्जा	इच्छा करे
४	३२	इमाओ	ये
४	३३	इरावइ	नदी विशेष (इरावती)
५	१	इत्थीरुवं	स्त्री स्वरूप को
५	१	इच्छेते	ऐसे, ये, इतने
५	१३	इन्द्रियजायं	इन्द्रिय विशेष को
६	१६	इरियावहियाए	जाने आने रूप-समिति के
६	१६	इच्छात्तेत्तए	इच्छा से लालची

(७)

उद्देश-	ध्रुव-	शब्द-	अर्थ-
१	११	उवत्थए	घसनै को
१	१४	उवस्सए	उपाश्रय में
१	१६	उच्चवारं	मलोत्सर्ग
१	३५	उवसमियठ्वं	उपशान्त करने योग्य
१	३५	उवसमेज्जा	उपशान्त हो
१	३५	उवस्समइ	उपशान्त होता है
१	३५	उवसमसारं	उपशम ही सार रूप है
१	३६	उग्गहं	अपने उपयोग में लेने को
१	३६	उवनिमतेज्जा	लेने आदि की प्रार्थना करे
१	५१	उत्तरेणं	उत्तर दिशा में
१	५१	उस्संपंति	बढ़ते हों, वृद्धिगत हों
२	१	उक्खित्ताणि	फेंके हुए
२	२	उक्खित्ताइं	छींटे गए, फेंके गए
२	२२	उवगरणजाए	उपकरणजात-भण्डोपकरण आदि
२	२४	उट्ठिए	ऊंट के रोमसे बने हुए
२	२४	उरिणए	ऊनों से बने हुए
३	१०	उग्गहणंतंगं	गुह्य देशको ढकने वाला वस्त्र
३	१०	उग्गह पट्टगं	अवग्रहानन्तक को ढकने वाला
३	१२	उवज्झाए	उपाध्याय
३	२५	उग्गहस्स	अवग्रहके-लिए हुए उपाश्रय आदि के
३	३०	उवाइणाइ	निवास करके स्वीकार करता
३	३०	उवाइणावित्तए	निवास से स्वीकार करने योग्य
३	३०	उवातिणंतं	निवास पूर्वक विज्ञाते हुए
४	५	उवट्टावित्तए	महाव्रतों में लाने योग्य
४	२१	उवसंपज्जिता	प्राप्त करके

उद्देश-	सूत्र-	शब्द-	अर्थ-
४	२१	उवज्जायत्तं	उपाध्याय पदको
४	२६	उद्दितावित्तए	दूसरे आचार्य आदि को उद्देश करना
४	२६	उवनिक्खवियव्वे	रखने योग्य
४	३१	उट्ठावणं	उठाना
४	३२	उत्तरित्तए	तैर कर परतीर जाने को
४	३२	उद्दिट्ठाओ	सामान्यतया कही गयी
४	३५	उप्पिसवण	ऊपर कर्ण प्रदेश तक ऊंचाई
४	३५	उप्पिरयणी मु०	मुट्टी बांधकर ऊपर उठाए हाथ वाले उपाश्रयमें
५	६	उगय वित्तीए	सूर्योदय के बाद ही जीविका करने वाले
५	६	उगय मुत्तीए	सूर्योदयके बाद उपाश्रयके बाहर दिखनेवाले
५	१०	उगाले	स्नाए हुये पदार्थ पीछे मंहमें लाना
५	१०	उग्गिलित्ता	पीछे कण्ठ के नीचे उतार कर
५	१२	उसिणे	गर्म हुए
५	१६	उड्डं	ऊपर
५	२२	उक्कुडुगासणियाए	उकडू आसन विशेष से बैठने वाली
५	२६	उत्ताणियाए	पीठ के आधार से सोना
६	१	उदीरित्ताए	पुनः उदीपित करने को
६	८	उदगांसि	जलमें
६	९	उरोहमाणीं	नीचे उतरती हुई
६	१३	उन्मायपत्तं	उन्माद-चित्त विकार में पड़ी
६	१४	उवसग्गपत्तं	बाधा विशेष को पाई हुई

(ए)

१	६	एगं	एक
१	१०	एगदुवाराए	एक द्वारवाले
१	१०	एगनिक्खमग्गपवेसाए	भीतर आने जाने के एक मार्ग वाले
१	१०	एगत्तओ	अकेलेपन से

उद्देश-	सूत्र-	शब्द-	अर्थ-
१	४४	एगणं	एक के सिवाय
१	४६	एगाए	एक
१	४७	एत्तए	जाने को
१	४८	एगाणियस्स	अकेले का
१	५०	एगाणियाए	अकेली का
१	५१	एत्तोवाहिं	इनसे बाहर
१	५२	एताव	इतने
१	५१	एत्तए	जाने को
२	७	एगरायं	एक रात पर्यन्त
२	७	एगरायाओ	एक रात से अधिक
३	४	एगराइए	एक रात के लिए
३	२०	एगणाएण	एकजात-सूत्र विशेष
३	२०	एगवागरखेण	एक व्वाकरण
३	२०	एग गाहाए	एक गाथा
३	२०	एग सिलोएण	एक श्लोक
४	२६	एगंते	एकान्त देश में
४	३०	एवएहं	इस प्रकार
४	३१	एगगिहंसि	एक घर में
४	३३	एरावइ	हरावती नाम की नदी
५	१६	एगपाइयाए	एक पैर पर
५	३०	एगपासियाए	एक पार्श्व-बाजू से
६	१६	एसणा	उद्गम आदि द्रोप रहित भक्त पान की गवेपणा (ओ)
१	१४	ओहारिय	वांधो गयी
२	१०	ओलित्ताणि	गाढ़े लीपे गए-पीते गए
२	२५	ओखियाए	ऊन के बने
३	३०	ओगिण्हित्ताणं	लेकर

संख्या-	श्लोक-	शब्द-	वार्त्ता-
१	१५	जीवन्मुक्तिः	मरणं परं
२	१६	जीवन्मुक्तिः	जीवन् मुक्त्य मोक्षं वाच्यं
३	१७	जीवन्मुक्तिः	विमलानां पुत्रं
४	१८	जीवन्मुक्तिः	पदानीं पुत्रं

(८)

५	१९	जीवन्मुक्तिः	मरणं-मरणं चक्षुः
६	२०	जीवन्मुक्तिः	मरणं चक्षुः
७	२१	जीवन्मुक्तिः	मरणं चक्षुः चक्षुः
८	२२	जीवन्मुक्तिः	मरणं चक्षुः चक्षुः
९	२३	जीवन्मुक्तिः	मरणं चक्षुः चक्षुः
१०	२४	जीवन्मुक्तिः	मरणं चक्षुः चक्षुः
११	२५	जीवन्मुक्तिः	मरणं चक्षुः चक्षुः
१२	२६	जीवन्मुक्तिः	मरणं चक्षुः चक्षुः
१३	२७	जीवन्मुक्तिः	मरणं चक्षुः चक्षुः
१४	२८	जीवन्मुक्तिः	मरणं चक्षुः चक्षुः
१५	२९	जीवन्मुक्तिः	मरणं चक्षुः चक्षुः
१६	३०	जीवन्मुक्तिः	मरणं चक्षुः चक्षुः
१७	३१	जीवन्मुक्तिः	मरणं चक्षुः चक्षुः
१८	३२	जीवन्मुक्तिः	मरणं चक्षुः चक्षुः
१९	३३	जीवन्मुक्तिः	मरणं चक्षुः चक्षुः
२०	३४	जीवन्मुक्तिः	मरणं चक्षुः चक्षुः
२१	३५	जीवन्मुक्तिः	मरणं चक्षुः चक्षुः
२२	३६	जीवन्मुक्तिः	मरणं चक्षुः चक्षुः
२३	३७	जीवन्मुक्तिः	मरणं चक्षुः चक्षुः
२४	३८	जीवन्मुक्तिः	मरणं चक्षुः चक्षुः
२५	३९	जीवन्मुक्तिः	मरणं चक्षुः चक्षुः
२६	४०	जीवन्मुक्तिः	मरणं चक्षुः चक्षुः
२७	४१	जीवन्मुक्तिः	मरणं चक्षुः चक्षुः
२८	४२	जीवन्मुक्तिः	मरणं चक्षुः चक्षुः
२९	४३	जीवन्मुक्तिः	मरणं चक्षुः चक्षुः
३०	४४	जीवन्मुक्तिः	मरणं चक्षुः चक्षुः

उद्देश-	सूत्र-	शब्द-	अर्थ-
४	१	करेमाणे	करता हुआ
४	४	कीवे	नपुंसक
४	१९	कल्पद्विये	अचेलक्य आदि कल्पों में स्थित
४	१६	कडे	किया हुआ
४	३३	किञ्चा	करके
६	२	कल्पस्स	कल्प साधु समाचार का
६	१६	कुक्कुइए	कौकुचिक पृथ्वी काय की रक्षा नहीं करने वाला

(ख)

१	५	खेडसि	छोटे गांव में
१	१६	खेलं	कफ को
१	१६	खाइमं	चार आहारों में एक
१	३५	खु	उपदर्शक अव्यय
१	५१	खेत्तो	प्रदेश में
२	८	खीरे	दूध
६	१	खिसिय	खिसला कर कहा गया
६	३	खाणू	स्थाणु-ठूठ
६	१०	खित्तचित्तं	राग, भय, अपमान से विक्षिप्त हुई

(ग)

१	५	गामंसि	गांव में
१	३३	गाहावइ	गृहस्वामी
१	३३	गाहावइ कुलस्स	गृहस्वामी के परिवार का
१	३३	गंतु	जाने के लिए
१	३७	गमणं	जाना
१	३७	गमणागमणं	जाना आना
१	३६	गहाय	लेकर
१	४७	गमणं एत्तए	मार्ग गमन प्राप्त करने को

श्लोक- संख्या-	शब्द-	संस्कृत- शब्द-	अर्थ-
१	१	सौम्यस्य	सौम्य-सौम्ये
२	२	सुखानि	सुखानाम् सुखे रूप
३	३	सत्त्वानि	सत्त्वान् के अतिवृत्ति
४	४	सत्त्वान्प्रदं	सत्त्वान्प्रदं द्रव्य
५	५	सत्त्वो	सत्त्वो
६	६	सत्त्वो	सत्त्वो
७	७	सत्त्वो	सत्त्वो
८	८	सत्त्वो	सत्त्वो
९	९	सत्त्वो	सत्त्वो
१०	१०	सत्त्वो	सत्त्वो
११	११	सत्त्वो	सत्त्वो
१२	१२	सत्त्वो	सत्त्वो
१३	१३	सत्त्वो	सत्त्वो
१४	१४	सत्त्वो	सत्त्वो
१५	१५	सत्त्वो	सत्त्वो
१६	१६	सत्त्वो	सत्त्वो
१७	१७	सत्त्वो	सत्त्वो
१८	१८	सत्त्वो	सत्त्वो
१९	१९	सत्त्वो	सत्त्वो
२०	२०	सत्त्वो	सत्त्वो
२१	२१	सत्त्वो	सत्त्वो
२२	२२	सत्त्वो	सत्त्वो
२३	२३	सत्त्वो	सत्त्वो
२४	२४	सत्त्वो	सत्त्वो
२५	२५	सत्त्वो	सत्त्वो
२६	२६	सत्त्वो	सत्त्वो
२७	२७	सत्त्वो	सत्त्वो
२८	२८	सत्त्वो	सत्त्वो
२९	२९	सत्त्वो	सत्त्वो
३०	३०	सत्त्वो	सत्त्वो
३१	३१	सत्त्वो	सत्त्वो
३२	३२	सत्त्वो	सत्त्वो
३३	३३	सत्त्वो	सत्त्वो
३४	३४	सत्त्वो	सत्त्वो
३५	३५	सत्त्वो	सत्त्वो
३६	३६	सत्त्वो	सत्त्वो
३७	३७	सत्त्वो	सत्त्वो
३८	३८	सत्त्वो	सत्त्वो
३९	३९	सत्त्वो	सत्त्वो
४०	४०	सत्त्वो	सत्त्वो
४१	४१	सत्त्वो	सत्त्वो
४२	४२	सत्त्वो	सत्त्वो
४३	४३	सत्त्वो	सत्त्वो
४४	४४	सत्त्वो	सत्त्वो
४५	४५	सत्त्वो	सत्त्वो
४६	४६	सत्त्वो	सत्त्वो
४७	४७	सत्त्वो	सत्त्वो
४८	४८	सत्त्वो	सत्त्वो
४९	४९	सत्त्वो	सत्त्वो
५०	५०	सत्त्वो	सत्त्वो

उद्देश-	सूत्र-	शब्द-	अर्थ-
१	१६	षडिमत्तयं	षडेके रूप में मिट्टी का पात्र
२	४६	षट्वा	विसे गए-चिकने किए
६	४०	षण्ण	घृत से

(च)

१	६	चत्तारि	चार
१	१२	चउक्कांसि	जहां चार मार्ग मिले हों
१	१२	चत्वरसि	चत्वर-चौक
१	१४	चेत्त चिलमिलियागांसि	चख की चिलमिलिका
१	१६	चिट्टित्तए	ठहरने को
१	३६-३७	चरित्तए	करने को
१	४०	च	पुनः, और
२	२०	चेहए	उपहार रूप में पहुँचाए गए
२	२५	चिप्पए	कूटी हुई त्वचाओं से बना
३	३-१५	चममाइं	चमड़े-मृगचर्म आदि
३	१२	चेलां	चख को
३	१२	चेलट्टे	चख के लिए
३	१३	चउहिं	चारों से
३	२०	चउगाहं	चार गाथाएं
३	२७	चिट्टइ	ठहरता है
४	३३	चक्किया	कर सकें
६	१६	चक्खूलोलए	आंख से चंचल

(छ)

१	६	छेए	छेद में
४	३१	छिन्नावाएसु	जहां लोगों का गमनागमन नहीं है ऐसा मार्ग
५	५	छेयं	छेद को
६	१	छ	छ की संख्याएं

उद्देश-	सूत्र-	शब्द-	अर्थ-
६	१६	द्विविहा	द्वः प्रकार के
६	२०	छेज्यद्वावणिय कप्पट्टिइ-छेदोपस्थापनीय कल्पस्थिति	
(ज)			
१	५१	जत्थ	जहां
१	५१	जाव	उसकी अवधि लेकर
२	१	जवानि	जव-धान्यविशेष
३	१	जव जवानि	धान्यभेद
२	१	जे	जो
२	६	जोई	ज्योति-दीपक
२	२४	जंगिण	जाङ्गमिक-त्रस प्राणीके अवयवोंसे बनाहुआ
३	१६	जाणिज्जा	जाने
३	१६	जराजुण्णे	बुढापे से थके
३	२५	जदियसं	जिस दिन में
३	३१	जोयणं	एक योजन
४	३२	जउणा	यमुना
४	३३	जले	जलमें
५	६	जं	जिसको
६	१२	जक्खाइट्टं	यत्नों से आविष्ट
६	२०	जिण कप्पट्टिइ	जिनकल्पस्थिति
६	२०	जागरित्तए	जागते रहने को
(झ)			
३	१	झाणं	ध्यान
३	१	झाइत्तए	चिन्तन करने को
४	३१	झिंझिए	लुधा से पीड़ित हुआ
(ट)			
१	४०	ठवित्ता	रखकर
३	१६	ठाणं	आसन पर

उद्देश- सूत्र- शब्द- अर्थ-

३	१६	ठाइत्तए	बैठने को
४	१६	ठिया	स्थिर रहने वाले
५	१६	ठिच्चा	ठहर कर
५	२०	ठाणाइयाए	आसन विशेष

(त)

१	१	ताल पलबि	ताल वृत्त का फल
१	१३	तिकंसि	जहां तीन मार्ग मिले हैं
१	३५	सम्हा	इसलिए
१	५१	तेणं नरं	उससे बाहर
१	५१	ताघ	साघत्काल, तावत् अवधि
२	१	तिलानि	तिल
२	२४	तिरीडपट्टे	तिरीड वृत्त की त्वच्चा से बना पत्र
३	१२	तन्नीसाए	उनके नेसराय में
३	१३	तप्पढमयाए	वही प्रथमवार हो
३	१३	तिहिं	तीनों
३	१६	तघरसी	तपस्या करने वाले
३	२५	तद्विवसं	उस दिन में ही
३	३०	तस्थ	वहां
४	३	तत्रो	तीन गिने हुए
४	३	तंजहा	जैसे कि
४	३	तेणंकरेसाणे	घोरी करता हुआ
४	२६	तेसि	उन आचार्य उपाध्यायों को
४	३०	तयोक्कम्मं	तप रूप क्रिया को
४	३१	तुंगट्टापणं	त्वग्वर्तपिन-सुलान्ता
४	३२	तिक्खुत्तो	तीनघार
४	३२	तिणिया	" "
४	३४	तणेसु	तृणों के ऊपर

उद्देश-	सूत्र-	शब्द-	अर्थ-
४	३५	तहूपगारे	उसके समान
५	३२	तुषट्टित्तए	सोने को
५	३८	तयणवमाणमिन्त	तिल तुष मात्र भी
५	४०	तेल्लेण	तेल से
५	४१	तस्स	उसका, उसको
५	४१	तओपच्छा	उसके पीछे
५	४२	तेणेव	उसे ही
६	२	तट्ठाणवत्तो	हिंसाकारी के समान बना हुआ
६	३	तं	उसको

(थ)

१	५१	थूणा विसयाओ	स्थूल देश से
३	१२	थेरे	स्थविर-वृद्ध
४	१६	थंडिजे	बाह्य प्रदेश
४	३३	थले	स्थल में
५	४१	थेराण	गच्छ स्थित रत्नाधिक वृद्ध साधु के
६	२०	थेरकण्वट्टिइ	स्थविर कल्पस्थिति

(द)

१	६	दोणमुहंसि	द्रोणमुख अर्थात् जल थल दो मार्ग वाला
१	१६	दगतोरंसि	जलाशय के किनारे
१	५१	दक्खिण्येणं	दक्षिण दिशा में
१	५१	दंसण	श्रद्धा-सम्यक्तत्व
२	७	दुरायं	दो रातें
२	७	दिप्पेज्जा	जलाए
२	८	दहिं	दही
२	१३	दो	दो संख्या
२	१६	दुहओ	दोनों की

उद्देश-	सूत्र-	शब्द-	अर्थ-
१	२१	देजा	देवें
२	२३	देइ	देता है
४	२	दुट्टे रंपिचए	दुष्ट पारश्चिक
४	३	दलमाणे	देते हुए
४	१२	दुड्डे	दुष्ट-तत्त्व वेत्ताओं पर भी द्वेष रखने वाला
४	१२	दुस्सन्नप्पा	दुःसंज्ञाप्य-दुःख से समझाने योग्य
४	२७	दीवित्ता	प्रकट कहकर
४	३०	दुइजित्तए	जाने को
४	३१	दवावित्तए	दिलाने को
४	३१	दुव्वले	दुवले
४	३१	दाडं	देने को
४	३२	दुक्खुत्तो	दोवार
५	१	देवे	देव
५	५	दोच्चं	दूसरे वक्त भी
५	१२	दए	उदक-जल
५	१२	दगरए	जल के कण
५	१२	दगफुसिए	जल से छूए गए
५	१२	दावए	देवे-दिलावे
५	३६	दारुदंडयं	लकड़ी के डंडे
६	२	दासवायं	नौकरों के समान कथन को

(ध)

१	१६	धरित्तए	धारण करने को
१	१६	धम्मजागरियं	धर्म सम्बन्धी जागृति
१	४६	धोया	धुले हुए
४	१५	धूता	लड़की
४	२३	धम्मवियण्यं	धर्म सम्बन्धी शिक्षा

(न)

उद्देश-	सूत्र-	शब्द-	अर्थ-
१	६	नगरंसि	बड़ा शहर
१	६	निगमंसि	व्यापारी निवास
१	१९	निदाइत्ताए	सोने को
१	३५	नत्थि	नहीं है
१	४४	नत्तत्थ	दूसरी जगह नहीं
२	१३	निव्विसेज्जा	प्रवेश करे, उपभोग में ले
२	१३	निक्खंत्तं	निकलते हुए
२	१६	नीहडं	लेगथा हुआ
२	१८	नीहडिया	सकान मालिक का अन्यत्र गया द्रव्य
२	२०	निट्टिए	बनाया गया
२	२०	निसट्टे	भेजा गया, दिया गया
३	१	निसीहत्ताए	बैठने को
३	१२	नीसाए	ने.सराय में
४	२२-२७	निक्खिवित्ता	रखकर, उतारकर
४	३०	निट्ठिज्जा	आत्म सात्त्विक निन्दा करे
४	३०	निज्जुहियव्वे	अपने गच्छ से बाहर करने योग्य
४	३१	निसिआवणं	बैठाना
५	१०	निगगंथस्स	साधु का
५	१०	निगगंथीए	साध्वी का
५	१५	निक्खमित्ताए	बाहर निकलने का
५	२२	नेसज्जियाए	निषदा-आसन विशेष से
५	४०	नवणीएण	मक्खन से
६	३	नीहरित्ताए	निकालने को
६	३	तो	नहीं
६	४	नीहरमाणी	निकालती हुई
६	६	निव्वित्तिगच्छे	सन्देह रहित

उद्देश-	सूत्र-	शब्द-	अर्थ-
६	६	नाचं	नौका परं
६	१५	निगंथिं	साध्वी को
६	१६	निय्राणकरणे	फलों की आशा करना
६	२०	निविसमाणकल्पट्टिइ	निर्विशमानों की कल्पस्थिति

(प)

१	३	पक्के	पके हुए
१	६	पट्टणंसि	पत्तन-नगर का भेद
१	६	पुट भेयणंसि	कुंकुम आदि के पट्टे खुलने का स्थान
१	७	परिक्खेत्रसि	दीवाल आदि के घेराव में
१	१४	पत्थारं	कट-चटाई
१	१६	पयत्ताइत्ताए	निद्रा लेने के लिए
१	२६	पुरिस सागारिए	पुरुष, गृह स्वामी युक्त
१	३१	पडिन्नद्धाए	द्रव्य और भाव से बंधे हुए
१	३५	परो	दूसरे
२	३६	पडिग्गहेण	पात्रों से
१	३६	पायपंद्धणेण	पात्र साफ करने के वस्त्र से
१	४१	पवित्तिणिपायमूले	प्रवर्तिनी के चरण पर
१	४४	पुञ्ज पडिजेहिएण	पहले प्रतिलेखन किए हुए
१	४६	परिभुत्ता	परिभोग में लाई हुई
१	५०	पविसित्तए	प्रवेश करने को
१	५१	पुरत्थिमेणं	पूर्व दिशा में
१	५१	पच्चत्थिमेणं	पश्चिम दिशा में
२	२	पुंजकडाणि	ढेर किए हुए
२	२	पिहियाणि	ढके हुए
२	३	पल्लताउत्ताणि	ऊंचे करके रखे हों
२	४	परं	उससे आगे
२	६	पडिलेहमाणे	प्रतिलेखन करता हुआ

उद्देश-	सूत्र-	शब्द-	अर्थ-
२	७	पईवे	दीपक
२	८	पूवे	मालपूजा
२	८	पिडण	लड्डू के समान बनाना
२	२१	पूया	पूज्य
२	२३	परिजणो	परिजन-कुटुम्बी
२	२३	पडिगाडित्तए	लेने को
२	२४	पंचमे	पांचवां
२	२४	पोत्तए	रुई के बने हुए
३	१	परिट्टवित्तए	परठने को
३	१	पासवणं	लघुनीति
३	४	पाडिहारिए	पीछे देने को
३	१०	परिहरित्तए	त्यागने को
३	१२	पिंडनाय पडियाए	आहार ग्रहण की इच्छा से
३	१२	पविस्ती	प्रवर्त्तक
३	१२	पुरओ	आगे
३	१२	पवित्तिणिनीसाए	प्रवर्त्तिनी के नेसराय से
३	१४	पुत्रोवट्टिया	पहले उपस्थित होने वाली
३	१५	पढमसमोसरणुहेसपत्ताडं	पहले वर्षावासके देशकाल विभागसे मिले हुए
३	१६	पवडिज	गिरकर
३	२०	पवेइत्तए	अच्छी तरह समझाने को
३	२१	पंच	पांच संख्या में
३	२१	पूयाभत्तो	पूज्य के लिए किया गया आहार
३	२१	पाहुडियाए	उन्हीं के लिए भेजे गए
३	२४	पडिहायव्वे	पीछे देना चाहिए
३	२४	परिहारं	धारणा-परिभोगरूप
३	२५	पुत्राणुणव्रणा	प्रथम ली हुई आज्ञा
३	२६	परिहरणारिहे	साधुओं के उपभोगने योग्य

उद्देश-	सूत्र-	शब्द-	अर्थ-
३	२६	परियाषन्नर	भूते हुए या छूट गए
३	३०	पडिप्तए	लौटकर आने को
३	३०	पेहाए	देखकर
४	१	पडिसेवमाणे	प्रतिसेवना करता हुआ
४	३	पमत्तेपारांचेद	प्रमादी पारञ्चिक
४	४	पंडए	नपुंसक
४	४	पड्वावित्तए	दक्षित करना
४	११	पडिवद्वे	धृत आदि विकृति में लोलुपी
४	११	पाहुडे	क्रोध
४	१२	पन्नत्ता	कहे गए हैं
४	१४	पलिसएञ्जा	आलिगन करे
४	१४	पिता	धाप
४	१४	पुत्तो	पुत्र
४	१६	पडितेहिता	प्रतिलेखना करके
४	१६	पमज्जिता	प्रमार्जन करके
४	१६	पट्माए	पहली
४	१६	पोरिसीए	पोरसी में
४	१६	पच्छिमं	अन्तिम
४	१६	पानं	जल (अचित्त)
४	१७	परिहारट्ठाणं	परिहार स्थान (प्रायश्चित्त विशेष)
४	१७-१८	परिट्टवियब्बे	परठना चाहिए
४	१८	पाणं भोयणे	आहार पानी
४	१८	पडिग्गाहिए	लिए गए
४	२६	परिट्टवित्ता	परठकर
४	३०	पट्टविए	दिया गया हो
४	३०	पट्टविज्जमाणे	दिया जाता हुआ भी
४	३०	पासेञ्जा	देखे

उद्देश-	सूत्र-	शब्द-	अर्थ-
४	३०	पायच्छिन्तं	प्रायश्चित्त को
४	३०	पडिक्रमिञ्जा	पाप स्थान से पीछे लौटने
४	३०	पाणाए	जल के लिए
४	३१	पिडवायं	आहार को
४	३१	पिवासिए	प्यासा
४	३१	परिहार कप्पट्टियस्स	परिकल्प में स्थित साधु को
४	३१	पथेसु	मार्गों में
४	३३	पुण	फिर
४	३३	पायं	पैर को
४	३४	पत्तालेसु	पुत्रियों में
४	३४	पराग	पनक-पांच वर्णवाला धनस्पतिकाय जीव
५	१०	पच्चोगिलमाणे	पीछे गिलते हुए
५	११	पएसे	प्रदेश-क्षेत्र में
५	११	पिवेज्ज	पीने-पान करे
५	१३	पसुजाइए	पशुजातिवाला
५	१३	पक्षिज्जाइए	पक्षीजातिवाला
५	१३	परामुसेज्जा	स्पर्श करे
५	१६	पगिज्जिय पगिज्जिय	ऊपर करके ऊपर करके
५	१६	पलांविद्य वाहियाए	हाथों को फैलाने वाली
५	२१	पडिमट्टाहयाए	पडिमा आसन विशेष से बैठने वाली
५	२३	पीठंसि	पीठ के ऊपर
५	२५	पाद केसरिका	पादकेसरिका-आसन विशेष
५	२८	वारियासियस्स	वासी-पर्युपित
५	४१	पच्छा	उसके बाद
५	४२	पुलागभत्तए	पुलाकभक्त
५	४२	पञ्जोसधिचाए	निर्वाह करे
६	१	पडिगाहिज्जा	ग्रहण करे

उद्देश-	सूत्र-	शब्द-	अर्थ-
६	२	प्राणाइवाय	प्राणातिपात-हिंसा
६	२	पथरा	प्रायश्चित्त रचना विशेष
६	३	पायंसि	पैर में
६	३	परियावञ्जेजा	आकर गिरे
६	४	पुरिस रूवं	पुरुष के रूप को
६	५	पंचराइं द्वियं	पांच दिन रात
६	६	पाणे	कोई प्राणी
६	७	पव्वयंसि	पहाड़ पर
६	७	पक्खलमाणि	फिसलती हुई
६	७	पवडमाणि	पड़ती हुई
६	८	पणगंसि	वारीक कीचड़ (जलयुक्त)
६	८	पंकंसि	गाढ़े कीचड़ में
६	१९	पलिमथू	व्याघात करने वाले छू दोष
६	१९	पसत्था	प्रशस्त-उत्तम है

(फ)

२	८	फाणिए	फेणी-फटे दूध के बने
४	२६	फासुए	फासुक-निर्जीव
५	३३	फलगंसि	फलक (रखता)
६	१	फरुसवयणं	कठोर-वचन

(व)

१	६	वाहिं	बाहर
१	६	वाहिंभिक्खायरिया	बाहर ही गोचरी करनी
१	७	वाहिरियांसि	बाहर वाले उपाश्रय में
१	४०	वाहिया	बाहर
२	१	वीहीणि	वीहि-शाल्यादि धान्य
४	२९	वहु फासुए	सर्वथा निर्जीव

उद्देश-	सूत्र-	शब्द-	अर्थ-
१	६	मासं	एक मास तक
१	१३	मज्झमज्झेण	बीच बीच से
१	४६	मट्टा	चिकने किए गए
१	५१	मगहात्त्रो	मगध देश से
२	१	मुग्गाणि	मूंग
२	१	मासाणि	उड़दू
२	२	मुद्दियाणि	रेखांकित-चिह्नांकित
२	३	मंचा उत्ताणि	मंच पर रक्खे गए
२	३	माला उत्ताणि	माले पर रक्खे हुए
२	२५	मुंज चिप्पए	मुंज की बनी पूंजनी
३	१६	मुच्छिञ्ज	मूर्च्छित होवे
४	१	मेहुणं	स्त्री पुरुष का संयोग
४	५	मुंडावित्तए	लोच करवाने को
४	१२	मूढे	जड़ बुद्धि वाला
४	१५	माया	माता
४	३२	मही	नदी विशेष का नाम
४	३२	महण्णवात्त्रो	समुद्रसी बड़ी
४	३२	महाण्णदीत्त्रो	बड़ी नदियां
४	३२	मुक्कमउडेसे	मुक्त मकुट
५	६	मुहे	मुख में
५	१४	मेहुणपडिसेवणप्पत्ता	मैथुन सेवना को प्राप्त करती हुई
५	३७	मोयं	लघुनीत
५	४०	मक्खित्तए	बहुत चिकना बनाने को
६	२	मुसान्नायस्स	असत्य वचन
६	१६	मुत्तिमग्गस्स	मुक्ति मार्ग के
६	१९	मोहरिए	मौखरिक-बहुत बोलने वाला

उद्देश-	सूत्र-	शब्द-	अर्थ-
४	३०	बहुस्रुए	बहुसूत्री या बहुश्रुत
४	३०	बवभागमं	अनेक आगमों के जानकार
४	११	धीयाणि	धीज-धान्य आदि
५	१६	वाहायाः	फैलाए हाथ वाली
५	४१	बहिया	बाहर के नगर में
६	४	धीए	धीज
(भ)			
१	२	भिन्ने	कटे हुए
१	७	भिक्खायरिया	गोचरी करनी
१	३५	भन्ते ?	भगवन् ?
१	३५	भिक्वू	साधु
२	१०	भित्तिकडाई	भीत बनाए गए
३	२४	भंगिए	अलसी से बने हुए वस्त्र
३	६	भिन्नाइं	फाड़े गए
४	१-१६	भुंजमाणे	भोजन करते हुए
४	१४	भाया	भाई
४	१५	भगिणी	बहिन
४	१७	भुंजिज्जा	भोजन करे
४	३०	भत्ताए	आहार के लिए
५	१२	भोयणजाए	आहार की चीज
५	१२	भोत्तव्वे	आहार करना चाहिए
५	३८	भूयप्पमाणभित्तमवि	चुटकी भर भी भूति-भस्म,
५	६२	भत्तट्टेणं	उसी पुलाग भक्त से
६	१७	भत्तपाणपडियाइक्खियं	आहार पानी त्यागने वाली साध्वी को
६	१६	भुज्जो भुज्जो	फिर फिर कर
(म)			
१	६	मडवंसि	दाई योजन के भीतर ग्राम रहित स्थान

उद्देश—	सूत्र—	शब्द—	अर्थ—
१	६	मासं	एक मास तक
१	१३	मज्झमंज्ज्जेण	बीच बीच से
१	४६	मट्टा	चिकने किए गए
१	५१	मगहाओ	मगध देश से
२	१	मुग्गाणि	मूंग
२	१	मासाणि	उड़द
२	२	मुद्दियाणि	रेखांकित=चिह्नांकित
२	३	मंचा उत्ताणि	मंच पर रक्खे गए
२	३	माला उत्ताणि	माले पर रक्खे हुए
२	२५	मुंज चिप्पए	मुंज की बनी पूंजनी
३	१६	मुच्छिञ्ज	मूर्च्छित होवे
४	१	मेहुणं	स्त्री पुरुष का संयोग
४	५	मुंडावित्तए	लोच करवाने को
४	१२	मूढे	जड़ बुद्धि वाला
४	१५	माया	माता
४	३२	मही	नदी विशेष का नाम
४	३२	महणवाओ	समुद्रसी बड़ी
४	३२	महाणदीओ	बड़ी नदियां
४	३२	मुक्कमउडेसे	मुक्त मकुट
५	६	मुहे	मुख में
५	१४	मेहुणपडिसेवणप्पत्ता	मैथुन सेवना को प्राप्त करती हुई
५	३७	मोयं	लघुनीत
५	४०	मक्खित्तए	बहुत चिकना बनाने को
६	२	मुसावायस्स	असत्य वचन
६	१६	मुत्तिमगस्स	मुक्ति मार्ग के
६	१९	मोहरिए	मौखरिक-बहुत बोलने वाला

(र)

उद्देश-	सूत्र-	शब्द-	अर्थ-
१	६	रायहृणिसि	राजा के निवास-युक्त-नगर
१	१२	रत्थागुखंसि	गली के द्वार पर
१	३८	रब्जंसि	राज्य में
१	४३	रात्रो	रात में
१	४६	रत्ता	रंगी गई लाल की गई
२	२	रासिकडाणि	इकट्टे किए गए
२	१२	रुक्खमूलंसि	घृत्न के नीचे
२	२४	रयहरणाई	रजोहरण-पूजनी
३	३०	रयणि	रात में
४	१	राई भोंयणं	रात में खाना
५	३७	रोगायंकेसु	हैजा आदि रोग, सर्प-विष आदि आतंकोंमें
६	४	रण	रजकरण

(ल)

२	७	लोयए	लोचक-दही का बना-पदार्थ
२	६	लंछियाणि	चिह्न विशेष से युक्त
२	१०	लित्ताणि	लिपे गए
३	२४	लभेज्जा	लाभ करे-पावे
५	११	लाइया	हाथ से लाकर
५	२६	लगंडमाइयाए	लगंड-आसन विशेष से सोने वाली
५	३४	लाउयं	अलावुक-तुंबीपात्र

(व)

१	२	विदिभिन्ने	विधि पूर्वक काटे गए
१	३	वा	अनेकार्थक-अथवा
१	६	वस्थए	वसने को
१	६	वसमाणणं	वसते हुए को

उद्देश—	सूत्र—	शब्द—	अर्थ—
१	३५	चंदेज्जा	चन्दना करे
१	३६	वासावासासु	चर्पावास याने चातुर्मास में
१	३८	वीतिकममाणे	राजा व तीर्थंकर की आज्ञा
१	३८	वेरज्ज	परस्पर विरोध वाला राज्य
१	३८	विरुद्ध रज्जसि	किसी कारण से लड़ने वाले राज्य में
१	३६	वत्थेण	वस्त्र से
२	४	वसइ	वसता है
२	४	चगडाए	उपाश्रय के भीतरी भाग
२	८	विक्रिखत्ताणि	बिखरे हों
२	८	विह् क्किण्णाणि	फैले हुए
२	८	विप्पइत्ताणि	विशेष रीति से फैले
२	१०	विलित्ताणि	विशेष रीति से लिपे हुए
२	१२	वंसीमूलंसि	वंशी-वृक्ष विशेष के नीचे
२	१२	वियडगिहंसि	खुले द्वार वाले घर में
२	१६	विभत्ताओ	पृथक् किए हुए
२	१६	वोच्छिन्नाओ	बिना परिमाण किए
२	१६	वोगडाओ	कहे गए
२	२४	वत्थाइ	वस्त्र
२	२५	वत्तवाचिप्पए	वत्तक की त्वचा से बना हुआ रजोहरण
३	२१	विभावित्तए	समझाने को
३	२४	विप्पणसिज्जा	खो जाय या गुम हो जाय
३	२५	विप्पज्जहंसि	त्यागते हैं
३	२८	वत्थुसु	वस्तुओं में
४	४	वाईए	वातिक-तुच्छ प्रकृति
४	१०	विगई पडिवद्धे	घृत आदि से लोलुपी
४	११	विणीए	बिनीत
४	११	वाइत्तए	बाचना देने के लिए

उद्देश-	सूत्र-	शब्द-	अर्थ-
४	१२	वुगाहिए	उलटा समझाया गया
४	२३	विहरिचाए	विहार करने को
४	२६	वियरेज्जा	वेचें
४	२८	वितरंति	देते हैं
४	२९	वियांत्त	विकाल में-प्रतिकूल काल में
४	२९	वीसुंमिज्जा	शरीर त्याग करे
४	२६	वेयावच्चकरे	साधु सेवा करने वाले
४	३०	विउट्टेज्जा	उस अपराध स्थान से पीछे हटे
४	३०	विसोहेज्जा	विशुद्ध करे
४	३१	वेयावडियं	व्यावच-सेवा कार्य को
४	३१	विगंचणं	पृथक् करना
४	३१	विसोहनं	विशुद्ध करना
४	३२	वंजियाओ	प्रकट की गई
५	१	विउठ्वित्ता	विकुर्वणा करके
५	६	विगिचिमाणे	बाहर डालते हुए
५	६	वितिगिद्धा	विचिकित्सा-सन्देश
५	११	विगिचिचाए	पृथक् करने को
५	११	विसोहिचाए	शुद्ध करने को
५	११	विसोहिया	शुद्ध किए गए
५	१३	विसोहमाणीए	शुद्ध करती हुई
५	१३	विगिचमाणीए	बाहर डालती हुई
५	१५	विचार भूमि	विहारभूमि-स्वाध्याय भूमि
५	१५	विचारभूमि	संज्ञा भूमि
५	१८	वोसट्टेकाइयाए	कायोत्सर्ग-देहभान भुलाती हुई
५	२४	वीरासणियाए	वीरासन से बैठने वाली
५	३८	विट्ठुप्पमाणमित्तमवि	वृद्ध मात्र भी
५	३३	विलिपित्तए	विलेपन करने को

उद्देश-	सूत्र-	शब्द-	अर्थ-
५	४०	घसाए	घसा-चिकनी चीज
५	४१	घवहारे	घवहार
५	४१	वेयावडियाए	उपावच के लिए
६	१	घइत्तए	घोलने को
६	१	विउसंविचं	शान्त होने वाले को
६	२	वयमाणे	घोलते हुए
६	२	चायंवयमाणे	मृषा, हिंसा आदि को घोलता हुआ
६	७	विसमंसि	विषय (ऊंचनीच)

(स)

१	४	समाणीं	होती हुई
१	६	संनिवेसंसि	आत्रा का ठहराव स्थान
१	६	संवाहंसि	साधन रखने का स्थान
१	७	सपरिक्खेघंसि	परिक्षेप-आवरण से युक्त
१	८	सवाहिरियंसि	बाहरी भूमि से युक्त
१	१३	सिघाडगंसि	शृंगाटक में
१	१६	सिघाणं	जाक का मल
१	१६	साइमं	स्वादिम
१	१६	सज्जायं	स्वाध्याय को
१	२०	सचित्त कम्मो	सचित्र उपाश्रय में
१	२३	सागारिय निस्साए	गृह स्वामी के तेसराय में
१	२४	सागारिय उवस्सए	गृह स्वामी के द्रव्य सहित
१	३१	सेज्जाए	उपाश्रय
१	३५	संवसेज्जा	एक साथ रहे
१	३५	संमुज्जेज्जा	एक साथ आहार करें
१	३५	सामएणं	श्रामण्य-श्रमण धर्म
१	३८	सज्जं	सद्यः-तत्काल

उद्देश-	सूत्र-	शब्द-	अर्थ-
१	३६	सागारकडं	गृह स्वामी का किया हुआ
१	४०-४२	समायं	होते हुए-निकलते हुए
१	४६	सावि	वह भी
१	४६	संपधूमिया	खुशबूदार बनाया गया
१	४८	संखडि पडियाए	संखडी की इच्छा से
२	१	सालीणि	धान-चावल वाला
२	४	संतरा	अपने किए हुए दो तीन रात ठहरना रूप
२	४	सुरावियडकुंभे	सुरा से विकृत कलश
२	४	सोवीरय वियडकुंभे	विकृत जल के कुंभ
२	५	सिओद्ग वियडकुंभे	शीत जल के कुंभ
२	७	सव्वराइए	रात भर
२	८	सप्पि	घृत
२	८	सक्कुली	मालपूआ
२	८	सिहरिणी	श्रीखण्ड (स्वाद्य विशेष)
२	१५	संसट्टं	दूसरे भोजन से सम्मिलित
२	१६	सागारिय पिंडं	गृह स्वामी का भोजन
२	१६	साइज्जह	आस्वाह लेवे
२	१७	सागारिएण	गृहस्वामी ने
२	१७	से	तस्य-उसका
२	२४	साणए	सण से बने हुए
३	३	सलोमाई	लोम के साथ
३	४	सेविय	और वह भी
३	१२	सामाणा	विव्यमान हो
३	१३	संपव्वमाणस्स	सम्यक् प्रव्रज्या लेता हुआ
३	१३-२३	संपव्वहत्तए	दीक्षा लेने को, धिहार करने को
३	१५	समोन्नरणुद्देत्तपत्ताई	प्रथम वर्षावास के क्षेत्रादि रूप उद्देश्य को पाने वाली

उद्देश-	सूत्र-	शब्द-	अर्थ-
३	२१	सभावणाइ	भावनाओं के साथ
३	२५	समग्णा	साधु
३	२५	सिजासंधारथ	उपाश्रय संस्कारक
३	२६	सच्चैव	होने पर ही
३	३०	सेरणां	सैन्य-सेना
३	३०	सन्निविट्टं	उतरा है
३	३१	सन्निवेससि	हाट अथवा पेट में
३	३१	सव्वओ	चारों ओर से
३	३१	समंता	अच्छी तरह
३	३१	सकोसं	कोश कांशभर
४	३	साहम्मियाणं	साधर्मिकों के
४	५	सिक्खात्रित्ताए	पढ़ाने के लिए
४	५	संभुजित्ताए	एक मण्डल में भोजन कराने की
४	५	संधासित्ताए	साथ रखने के लिए
४	१३	सुसण्णाणा	सुख से समझाने योग्य
४	१८	सेहतराए	छोटे साधु
४	२३	संभोगवडियाए	एक साथ भोजनादि के निमित्त से
४	२६	सागारिय संतिए	गृहस्वामी की मुख्यता में
४	२६	सरीरगं	शरीर को
४	३०	संकमित्ताए	एक गण से दूसरे गण में संक्रमण करनेकी
४	३०	सुएण	सूत्र से-शास्त्रानुसार
४	३२	सरऊ	सरयू नामकी नदी
४	३३	संतरित्ताए	पार उतरने के लिए
५	६	सूरिए	सूर्य के
५	७	समावन्ने	पाने पर
५	१०	सभोयणे	भोजन के साथ
५	१४	सौर्यंसि	गृह्य अङ्ग में
५	१६	सूराभि सुरीण	सूर्य के सामने में

उद्देश-	सूत्र-	शब्द-	अर्थ-
५	१६	समतलप्राइयाए	समानता से दोनों पैर रखकर
५	१६	संघाडि पडिवद्धाए	अपने गच्छ में बंधी हुई
५	३१	सावस्सगंसि	पीठ टेढ़ने के अलम्बन के साथ
५	३३	सविसाणंसि	सींग के समान अवयव युक्त
५	३४	सवेटगं	डेंट लगे (अलावू)
५	४१	सुच्चा	सुनकर
५	४२	संथरिजा	निर्वाह कर सके
५	४२	सिया	कदाचित् (यदि)
६	२	सम्मं	सम्यग्-अच्छी तरह
६	३	संचाएजा	समर्थ होवे
६	३	सक्करे	छोटी कंकड़ी
६	८	सेयंसि	जलके साथ कीचड़ में
६	१५	साहिगरणं	किसी गृहस्थ से विरोध करने वाली साध्वी
६	१६	सपायडिज्जत्तां	प्रायश्चित्त पायी हुई साध्वी
६	२०	सामाइयसंजय कप्पट्टिइ-	सामायिक संयत कल्पस्थिति
(ह)			
१	६	हेमंत गिम्हासु	हेमन्त ग्रीष्म में
१	४६	हरिया हडियाए	हताहृतिका को
२	५	हुस्त्या	बाहर-दूसरे उपाश्रय के
४	१	हत्थकम्मं	खराब चेष्टा
४	३	हत्यादालं	परताड़न या स्वयं मारन
४	३	हव्वं	साथ या शीघ्र
५	१६	हुंतए	होने को
६	१	हीलिय वयणे	निन्दित वचन
६	३	हीरे	कील-छोटी टकड़ी

द्वितीयं परिशिष्टम्

पाठभेदः

उद्देश-	सूत्र-	आगम मन्दिर प्रति	संशोधित प्रति
१	६	संनिवेशंसि	(सं०) निवेशंसि (आ० टी०)
"	१४	ओहाडियचिलिमिलिया, ओहाडिय (चेल) चिलिमिलिया	
"	१८	माहरेत्तए	माहारित्तए
"	२२	सागारियं	" य
"	२६	सागारिए	" य
"	३६	चारए	(चरित्तए)
"	३८	करेत्तए	करित्तए
"	"	दुहओ-	वि
"	४३	नन्नत्थ	नऽन्नत्थ
"	४६	घट्टा	घट्टा
"	४८	विहारभूमिं वा विथार-	विथारभूमिं वा विहारभूमिं वा
		भूमिं वा	
"	५०	थुणाविसयाओ	थूणाविसयाओ
२	१	ओक्किण्णाणि	उक्कित्ताणि
३	"	विक्किण्णाणि	विकिक्कित्ताणि
४	४	वसेज्जा	वसइ
"	२०	पडिग्गाहिता	पडिग्गाहिया
"	२५	वेइ	वेज्जा
२	२६	कप्पइ०	०पडिग्गाहेत्तए
"	३०	बद्धाचिप्पए	बच्चचिप्पए
"	"	मुञ्जचिप्पएवि	मुञ्जचिप्पए

उद्देश-	सूत्र-	आ० स०	संशोधित
"	"	उद्देशत्रो	उद्देशत्रो
३	१	आसइत्ताएवा	चिद्वित्तएवा
"	"	करेत्तए	×
"	२	निगन्थाणं उव०	निगन्थ उव०
"	"	आसइत्तए	चिद्वित्ताएवा
"	४	परिभूते	परिभुत्ते
"	"	अपरिभूत्ते	अपरिभुत्ते
"	११	चेत्ताइं	चेत्तं
"	१२	नि० य	निगन्थस्स
"	१३	सेज्जासंथारयं	सेज्जासंथारए
"	१८	आसइत्तए	×
"	"	करेत्तए	×
"	"	जज्जरिए	×
"	२२	अहिभरणं	अविकरणं
"	२४	च णं	×
"	२६	वीइक्कममाणे	विअइक्कममाणे
४	३	तेन्तं	तेएणं
"	"	परधम्मियाणं	अन्नधम्मियाणं
"	"	हत्यायालं	हत्यादालं
"	८	सुसन्नपा	सुसण्णपा
"	११	एगन्तमन्ते	एगन्ते
"	"	चउत्थं	×
"	"	पएसे	×
"	१२	पएसे	थंडित्ते
"	१५	अणापुच्छित्ताणं	अणापुच्छित्ता
"	२४	वेयावच्चकरा	वेयावच्चकरे
"	"	एगन्तमन्ते	एगन्ते

उद्देश-	सूत्र-	आ० म०	संशोधित
		सागार कडं	सागारिकडं
	२५	भिक्वृतो से कप्पइ	×
		गामाणुगामं	गामाणुगामं वा
		गणाओ	गणाओ वा
४	२५	आइयइ	आइयइ से
	२६	उवञ्जायाणं	उवञ्जाएणं
		तवस्सी	×
		भिञ्जिए	भिञ्जिए
		पिवासिए	पिवासिए, तवस्सी
	२८	मट्टियमक्कड	मट्टियमक्कडग
		अहेसेवण मायाए	अहेसवण मायाए
	३०	उप्पिसेवण मायाए	उप्पिसवण मायाए
५	५	राइंदियाइं	राइंदियं
		परिणिव्वविय	परिणिव्वाविय
	६	निव्विइगिच्छासमा- वणणेणं	निव्विइगिच्छे
	११	से पाणं वा वीए	पाणाणि वा वीयाणि वा
		तओ	तं
		आलोइय	लाइया
		विसोहिय	विसोहिया
	१२	परिभोत्तव्वे	भोत्तव्वे
		तोउसिणे	×
	१३	चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं-मासियं	
	१६	भत्ताए वा पाणाय वा	पिंडवाय पडियाए
	१६	सूराभि मुहाए	सूराभिमुहीए
	२२	नेसिञ्जियाए	नेसज्जियाए
	३८	चिट्ठिएवा निसीइत्तएवा	×

उद्देश-	सूत्र-	आ० म०	संशोधित
११	४८	आइत्तए वा	आइयत्तए वा
११	३६	आलिम्पित्तए वा	आलिपित्तए वा
११	११	आगाढानागाढेहि	गाढेहि
११	४०	गायाइं	गायं
११	४०	मक्खेत्तए वा	मक्खित्तए वा
११	४०	आगाढा नागाढेहि	गाढागाढेहि
११	५२	णं	×
६	१	उदीरेत्तए	उदीरित्तए
११	३	खाणुए	खाणू
११	११	तं	तं च
११	७	गेण्हमाणे	गिण्हमाणे
११	१६	तिन्तिणिए	तिन्तिणीए
११	१६	मोक्खमग्गस्स	मुत्तिमग्गस्स
११	१६	छन्विहा	छन्विहो

॥ द्वितीयं परिशिष्टं समाप्तम् ॥

तृतीयं परिशिष्टम्

प्रतिपरिचयः

१--श्री वर्द्धमान जैन आगममन्दिर, पालीताणा से प्रकाशित एवं तपो-गच्छीय श्री सागरानन्द सूरि द्वारा संशोधित प्रति। इसमें प्राचीन प्रतियों से पाठ संशोधित है, किन्तु अधिकांश जगह ० विट्टु देकर पाठ संकोच किया गया है एवं कई जगह पाठ छुट भी गए हैं। कहीं पदों के क्रम में परिवर्तन हो गया है। बीच २ में पाठान्तर व अन्य प्रतियों में प्राप्त नहीं होने पर भी अपनी ओर से संशोधित पाठों को () कोष्ठक में दिए हैं। सूत्राङ्कों के साथ स्थान २ पर निर्युक्ति व भाष्य गाथाओं के श्रृङ्ख भी दिए गए हैं। पत्र सं० ८-६ है। प्रति लम्बेसाइज पत्राकार में मुद्रित है।

२--निर्युक्ति लघुभाष्य वृत्त्युपेत बृहत्कल्पसूत्र--यह श्री आत्मानन्द जैन सभा, भावनगर से प्रकाशित एवं मुनि श्री चतुरविजयजी पुण्यविजयजी द्वारा संवादित है। प्रस्तुत सूत्र के सम्पादन में मुनि श्री ने विविध प्रतियों से-जिनमें ताड़पत्रीय प्रति भी सम्मिलित है-श्रम पूर्वक मूलपाठ एवं टीका का संशोधन किया है। सूत्र ६ भागों में पूर्ण हुआ है-जिनमें से ५ अभी उपलब्ध हैं। पाठ प्रायः शुद्ध है। संशोधन में इस प्रति को मुख्यता से प्रामाणिक माना गया है।

३--हस्तलिखित प्रति--यह प्रति स्वर्गीय ढढा सौभागमल्लजी के ज्ञानभंडार की सावचूरि (सटीक) प्रति है जो कि वर्तमान में पूज्य श्री हस्तिमल्लजी महाराज साहेब की निश्राय में है। इसके पाठ आत्मानन्द सभा, भावनगर से मुद्रित सभाष्य-बृहत्कल्पसूत्र से अधिकांश मिलते हैं। प्रति त्रिपाठी होने से बीच में मूल और ऊपर नीचे टीका डी गई है। लिपि साधारणतया सुचारु है। संशोधन में इस प्रति का संकेत 'ह०' प्रति रक्खा है। पत्र सं० १२ है। प्रति पृष्ठ में मूल और टीका को मिलाकर २३ से २५ पंक्तियों के लगभग अनुपात हैं। अधिकांश पाठ शुद्ध हैं। यह

प्रति १८ वीं शताब्दी के एक मुनिराज की लिखी हुई है। इस प्रति के अंत में प्रायश्चित का यंत्र और भाषा में प्रायश्चित के विधान चूर्ण पर से लिखे हुए हैं। मूल-पाठ के अंत में प्रशस्ति-लेख निम्न प्रकार है:-

“संवत् १७५१ वर्षे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे ६ दिने पीपाड ग्राममध्ये ऋष ५ जीवराजजी पूज्य तत् शिष्येण ऋष सुरत्राणेन लिपिकृतं स्वआत्मार्थम् पठनार्थं। शुभं भवतु। कल्याणमस्तु। श्री० ७ श्री ॥

॥ तृतीयं परिशिष्टं समाप्तम् ॥



चतुर्थ परिशिष्टम्

बृहत्कल्प सूत्र वृत्त्यन्तर्गतानि विशेष नामानि

विशेषनाम	कस्य	निर्देश स्थलम्	
		उ०	सू०
ताल	फलस्य	१	१
पलंब	फलस्य	१	१
टिड्डियादि	फलस्य	१	१-टीका
सल्लकी	फलस्य	१	१-टी०
गाम	जनपदस्य	१	६
आनन्दपुर	नगरस्य	१	६-टी०
भृगुकच्छ	नगरस्य	१	६-टी०
ताम्रलिप्ती	नगर्याः	१	६-टी०
आवणगिह	स्थानविशेषस्य	१	१२
चित्तमिलिका	यस्त्र विशेषस्य	१	१४
द्रोण	कलाचार्यस्य	१	४४-टी०
भीष्म	" "	१	४४-टी०
अंग	देश विशेषस्य	१	५१
सगह	" "	१	५३
कोसंबी	" "	१	५१
थूणा	" "	१	५१
कुणाल	" "	१	५१
साली	धान्य विशेषस्य	२	१
धीही	" "	२	१

विशेषनाम	कस्य	निर्देश	स्थलम्
गोधूम	" "	२	१
जव	" "	२	१
जवजव	" "	२	१
मुद्ग	" "	२	१
माष	" "	२	१
तिल	" "	२	१
कुलत्थ	" "	२	१
लोयए	वन्न विशेषस्य	२	२४
जंगिए	" "	२	२४
भंगिए	" "	२	२४
सानए	" "	२	२४
पोत्तए	" "	२	२४
मुंजचिप्पए	" "	२	२४
एप्प	पशु विशेषस्य	२	२५
घायरिय	साधोर्विशिष्टपदस्य	३	१२
एवञ्जाय	" "	३	१२
पविन्ती	" "	३	१२
थेरे	" "	३	१२
गणी	" "	३	१२
गणहरे	" "	३	१२
गणावच्छेदए	" "	३	१२
पारंचिय	प्रायश्चित्त भेदस्य	४	२
अणयट्टप्प	" "	४	३
गंगा	नद्याः	४	३२
जङ्गणा	" "	४	३२
सरऊ	" "	४	३२
कौसिणा	" "	४	३२

विशेषनाम	कस्य	निर्देश	स्थलम्
कुणाल	देशस्य	४	३३
मही	नद्याः	४	३२
एरावई	नद्याः	४	३३
नैपयिका	आसनविशेषस्य	५	२२-टी०
उत्कटिका	" "	५	२६
वीरासनिका	" "	५	२६
दण्डासनिका	" "	५	२९
आम्रकुण्डिका	" "	५	२६
तिल्ल	तैलस्य	५	४०
घय	खाद्यविशेषस्य	५	४०
नवनीय	" "	५	४०
वसा	अभ्यङ्गविशेषस्य	५	४०
पाणाङ्गाय	हिंसायाः	६	२
मुषावाय	मृषावादस्य	६	२
अदिन्नादान	चौर्यग्रहणस्य	६	२

॥ चतुर्थं परिशिष्टं समाप्तम् ॥

पंचमं परिशिष्टम्

टिप्पणम्

१-वंशी मूलं-

यो गृहाद् बहिर्द्वाराग्रवर्ति स्थंडिकारूप अलिंदकः, या वा 'अपसारिका' पटालिका, कुत्र ? इत्याह-गेहस्य पार्श्वे वा पुरतो वा पृष्ठतो वा तद्वंशीमूलं नाम गृहम् ।

२-सागारिक पिण्डः

सागारिक इति शय्यातरः, उपाश्रय दाता इत्यर्थः । तस्य पिण्डः सागारिक-पिण्डः । शय्यातर पिण्ड ग्रहणे आचार्यैर्विधिषा दोषाः प्रदर्शिताः । तेषु प्रथमस्तीर्थ-कराणामाज्ञाखण्डनं द्वितीयः प्रत्यासन्नतया पुनः पुनर्भिक्षा ग्रहणे आहार शुद्ध्यभावः, तृतीयः लोलुपता वृद्धिः शय्यादायकेन मुनीनां सर्वा भिक्षादि व्यवस्था विधेया इति शक्या शय्या दुर्लभा भवेत् इति चतुर्थः । अतश्च मुनिभिः शय्यातर पिण्डो न प्राह्यः ।

वृत्तिकारेण पूर्वं तावत् कः सागारिकः कदा व शय्यातरो भवति, कतिविधः शय्यातर पिण्डः? इति प्रपञ्चितस्तत्र प्रथमं कः सागारिकः इति प्रदर्शयति--

सेजायरो पभूवा, पभू संदिट्टो व होइ कायव्वो ।

एग मणेगे व पभू, पभू संदिट्टे वि एमेव ॥

शय्यातरः प्रभुर्वा प्रभु सन्दिष्टो वा कर्त्तव्यो भवति । तत्र प्रभुः-उपाश्रय स्वामी । प्रभु सन्दिष्टस्तु तेनैव प्रभुणा यत् कृत प्रमाणतया निर्दिष्टः । यः प्रभुः स एको वा स्यादनेको वा, प्रभु सन्दिष्टोऽपि 'एवमेव' एकोऽनेको वा भवति ।

कदा सागारिको भवति ? एतस्य बहुविधं प्रतिवाक्यमस्ति तद्यथा-कश्चिद्बद्धति-क्षेत्रे प्रत्युपेक्षिते सति यदा प्रतिश्रयोऽनुज्ञापितस्तदा सागारिको भवति । अन्यो ब्रूते-यदा तस्य गृहस्याङ्गणं प्रविष्टाः । अपरो भणति-यदा वसतिम् 'अतिगताः, प्रविष्टाः । कश्चिदाह-यदा स्वाध्यायः कर्त्तुमारब्धः । एवं पञ्चदशमतान्निदर्शय आचार्यः आदि-

शक्ति-एते सर्वेऽप्यनादेशाः कुतः ? इत्याह-अनुज्ञापितावग्रहादिषु निक्षिप्तान्तेषु दिव-
सत-एव व्याघातो भवेत्, व्याघाताच्चान्यां वसतिमन्यद् वा क्षेत्रंगताः ततः कस्या-
सौ शय्यातरो भवतु ? आवश्यकादिषु च चतुर्थयाम-पर्यन्तेषु वसति व्याघातेन
घोधिकस्तेनादि भयेन चाऽन्यत्र संक्रामतां कस्य शय्यातरो भवितुमर्हति । आदेशः
पुनरयं-“निर्व्याघाते” व्याघाताभावे यद्यन्यां वसति न गताः तत्रैव रात्रावुषिता-
स्ततो भजना कर्तव्या । स वा शय्यातरो भवेत् इतरो वा अन्य उभयं वा । अन्यत्र
स्थाने सुप्त्वा ‘चरमं’ प्राभातिकमावश्यकमन्यत्र कुर्वन्ती तदा यस्यावग्रहे रात्रौ
सुप्ता यद्वग्रहे च प्राभातिक प्रतिक्रमणं कृतं तौ द्वावपि शय्यातरो भवतः । इदं
प्रायः सार्थादिषु सम्भवति, आदि शब्दात् चौरावस्कन्द भयादि परिग्रहः । इतरथा
तु ग्रामादिषु वसतां ‘भजना’ विकल्पना ।

अथ कतिविधः शय्यातर पिण्डः ? तत्राऽह-द्विविधो वा चतुर्विधो वा षड् विधो
वा अष्टविधो वा द्वादशविधो वा शय्यातरस्य पिण्डो भवति । तद्विपरीतः ‘पुनः’
‘अपिण्डः’ शय्यातर पिण्डो न भवति । द्विविधः-शय्यातरपिण्डः-आहार उपधिश्च ।
“विदु” त्ति द्विगुणितौ द्वौ-चत्वारो भवन्तीति कृत्वा चतुर्विधः शय्यातर पिण्डः पुन-
रथम्-अन्नं पानं औधिकोपकरणं औपग्रहिकोपकरणंचेति । तथा अशनादयश्चत्वारः
औधिकोपधिः औपग्रहिकोपधिश्चेति षड्विधः । अन्नं पानं वस्त्रं पात्रं ‘सूच्यादयः’
शूची-पिष्पलक-नख रदनिका-कर्ण शोधन रूपाश्चत्वार इत्यष्टविधः । तथाऽशना-
दीनि वस्त्रादीनि सूच्यादीनि चेति त्रीणि चतुष्कानि द्वादश भवन्ति । तद्यथा-अशनं १
पानं २ खादिमं ३ स्वादिमं ४ वस्त्रं ५ पात्रं ६ कम्बलं ७ पादप्रोच्छ्रमं ८ सूची ९
पिष्पलकौ १० नखच्छेदनकं ११ कर्ण शोधनकं १२ चेति ।

तृण डगल-क्षार-मल्लक-शय्या-संस्तारक-पीठ-लेपाः, आदि शब्दात् कुट्ट-
मुखादिकं च एष शय्यातर पिण्डो न भवति । यदि च शय्यातरस्य पुत्रादिः शैवो
वस्त्र-पात्र सहितः प्रद्वजितुमुपतिष्ठते तदा स सागारिक पिण्डो न भवति, अतः कल्पते
सोपधिरप्यसौ प्रवाजयितुम् । टी०

३-कुलिका कृताणि-इत्यादिः-

कुलिका-कुड्यमुच्यते, ततः कुलिकाकृतानि नाम कुड्यालीनानि कृत्वा स्थापि-
तानि । मृदपिंडादि निर्मितं कुड्यम् ।

सौवीर विकट-द्राक्षा-खजूरादिभिर्द्रव्यैर्निष्पाद्यते तद् मद्यं सौवीरविकटम् ।

सीत्रोद्ग वियड-विकृतं शीतोष्णादि शस्त्रेण विकारं प्रापितम्, प्राशुकीकृत-मित्यर्थः । तत्र प्रथमभंगे उष्णोदकमेवशीतीभूतं तन्दुलधावनादिकं वा । तृतीय भंगे उष्णोदकमुद्धृतत्रिदण्डम् ।

पाण्डिहारिय-भुक्तोहरितं भूयोऽस्माकं प्रत्यर्पणीयमिति यत् प्रतिज्ञातं तत्-प्रातिहारिकम् ।

अनुद्घातिकः—

अनुद्घातिकः—न विद्यते उद्घातो लघुकरणलक्षणो यस्य तपोविशेषस्य तद्-अनुद्घातं यथाश्रुतदानमित्यर्थः । तद् यस्य प्रतिसेवाविशेषतोऽस्ति सोऽनुद्घातिकः । तपोगुरुप्रायश्चित्ताहोऽनुद्घातिक उच्यते ।

अथवा—उद्घातो नाम भागपातः सान्तरहानं वा स विद्यते यस्मिन्-असावुद्घातिकस्तद्विपरीतोऽनुद्घातिकः । तपोगुरुप्रायश्चित्ताऽर्हः ।

त्रयोऽनुद्घातिकाः प्रज्ञप्ताः । उद्घातो नाम भागपातः । सोऽस्त्येषु त उद्घा-तिकाः, तद्विपरीता अनुद्घातिकाः ।

तपोगुरुप्रायश्चित्तस्थानमपि—अनुद्घातिकमुच्यते, तन्मासिकं, चतुर्मासिकम्, पारमासिकादिभेदाद्बहुविधम् ।

५—पारश्चिकः—

पारश्चिक इति दशम प्रायश्चित्तस्थानम् । अस्यार्थः—पारं-तीरं गच्छति येन प्रायश्चित्तेनाऽऽसेवितेन तत् पारश्चिकम् । पारं पुनः संसार समुद्रस्य तीरभूतम्, अने-नासेवितेन साधुर्मोक्षं गच्छतीति भावः । यद्वा शोधेः पारं-पर्यन्तमश्नति यत् तद् पाराश्चिकम्, अपश्चिगं प्रायश्चित्तमित्यर्थः । ततो येन तपसा पारं प्रापितेन अञ्चयते श्री श्रमणसंघेन पूज्यते तत् पाराश्चिकं पाराश्चितं वाऽभिधीयते तद्योगाद् साधुरपि पाराश्चिकः । पाराश्चिकः समासेन द्विविधः, तद्यथा—आशातना पाराश्चिकः प्रतिसेवि-पाराश्चिकश्च ।

प्रतिसेवना पाराश्चिकः सूत्रोक्तः त्रिप्रकारः । आशातनो पाराश्चिको जघन्येन-

पणमासान् उत्कर्षतश्च द्वादश मासान् भवति । एतावन्तं कालं गच्छन्नियूढः—
वहिर्भूतमिच्छति । प्रतिसेवना पाराञ्चिको जघन्येन सम्बत्सरं उत्कर्षतो द्वादश
वर्षाणिनियूढ आस्ते । सच कारणे यथोक्तकालादर्वागपि गच्छं प्रविशतीति भावः ।

अथ के पुनः पाराञ्चिकमर्हन्तीति प्रदर्शयति आचार्यः संहननं वज्रकृषभनाराचम्,
वीर्य-धृत्या वज्रकुड्य समानता, आगमः— जघन्येन नवम-पूर्वान्तर्गतमाचाराख्यं
चृतीयं वस्तु उत्कर्षतो दशमपूर्वमस्मूर्णम्, तच्च सूत्रतोऽर्थतश्च यदि परिजितं भवति,
एतैः संहननादिभिर्दिधिना च तदुचित समाचारेण यः 'समप्रः' सम्पूर्णः । 'तपरवी-
नाम' सिंह निक्रोडितादि तपःकर्मभावितः । 'निग्रहयुक्तः' इन्द्रिय-वषायाणां निग्रह-
समर्थः । 'प्रवचन सारोऽभिगन्तार्थ' परिणामित प्रवचन रहस्यार्थ इति । किञ्च यस्य
गच्छन्नियूढस्य तिलजुषत्रिभागमात्रोऽपि 'नियूढोऽहम्' इत्यशुभो भावो न विद्यते
स नियूढाणां यः 'अर्हः' योग्यः । शेषस्य एतद्गुण विकलस्य नियूढाणा नाऽस्ति,
न कर्तव्येत्यर्थः । एतैः—संहननादिभिर्गुणैः सम्प्रयुक्तः पाराञ्चिकार्हं स्थानंप्राप्नोति ।
यः पुनरेतद्गुण विप्रमुक्तः 'तादृशे' पाराञ्चिकपति प्राप्तेऽपि सूत्रेण प्रायश्चित्तं
भवति ।

६—अनवस्थाप्यम्—

अनवस्थाप्यम् — 'यो हि आसेवितादिचार दिशेषः सन्-अनाचरित तपोविशेषः
तद्दोषोपरतो महाव्रतेषु ना स्थाप्यते-नाधिक्रियते-असौ महाव्रतेषु स्थापनाऽयोग्यः ।
नवमं वा प्रायश्चित्तस्थानम् अनवस्थाप्यमभिधीयते ।

७—सम्भोग वृत्तिः—

समान-समाचाराणां साधूनां सहभोजनं सम्भोगः । सच उपध्यादि भेदाद्
द्वादशधा, तथाचाह—“दुबालसविहे सम्भोगे पण्यत्ते, तं जहा—‘उवहिसुथ भक्तपाणे’
अंजली पगहेत्तिय । दायणे य विकाए य, अध्मुट्टाणेति आवरे ॥ किइकम्मस य
करणे, वेयावच्चरतेइ य । समोसरणं संतिसिज्जा य, कहाए य पवधणे ॥ १ ॥
सम० ॥ २ ॥ परस्परं वस्त्र पात्राद्युपधीनां भक्त पानयोश्च आदानप्रदानं साम्भोगिकस्य
साम्भोगिकेनैव भवति, श्रुतसम्बन्धे तु साम्भोगिकस्य, प्रत्यसाम्भोगिकस्य वोपसम्पन्नस्य

श्रुतस्य वाचना प्रच्छन्नादिकं विधिना कुर्वन् शुद्धएव । ४ अञ्जलिप्रग्रहः-वन्दनादिकम् । तथाहि 'साम्भोगिकानाम् अन्यसाम्भोगिकानां वा संविग्नानां वन्दनकं प्रणामः-सोऽञ्जलिप्रग्रहः' अर्थात् नमः क्षमाश्रमणेश्च इति भणनम् । आलोचना-सूत्रार्थ-निमित्त निषद्याकरणं च कुर्वन् शुद्धः । ५ दानं-साम्भोगिकः--साम्भोगिकाय घृत्नादिभिः शिष्यगणोपग्रहासमर्थे साम्भोगिके । अन्यसाम्भोगिकाय वा शिष्यगणं यच्छन्, शुद्धः । ६ निकाचनं-शय्योपध्याहारैः शिष्यगणप्रदानेन स्वाध्यायेन च साम्भोगिकः साम्भोगिकं निमन्त्रयन् शुद्धः । ७ अभ्युत्थानम्-आसनत्यादिरूप सत्कारः-अयमपरं सम्भोगासंभोगस्थानम् । ८ कृत्तिकर्म-वन्दनकम् । ९ वैयावृत्यम् आहारोपधि दानादिना प्रश्रवणा पात्रकाद्यर्पणादिना अधिकरणोपशमनेन साहाय्यदानेन वा उपष्टम्भकरणम्--उपकारकरणमित्यर्थः । १० समवसरणम्-व्याख्यानादिषु यत्र बहवः साधवो मिलन्ति तत् समवसरणम् । ११ सन्निषद्या-एकस्मिन्ने-चाऽऽसने सहोपवेशनम् । १२ कथाप्रबन्धः-वादादिकथानां धर्मकथाया वा सहैव करणम् इति संक्षेपार्थः, विस्तरार्थस्तु सम्प्रदायादवन्तेयम् ।

८-स्थानायतिकाऽऽदिः-

स्थानायतं नाम ऊर्ध्वस्थान रूपमायतं स्थानम्, तद्यस्यामस्ति सा स्थानायतिका ।

प्रतिमास्थाथिन्-प्रतिमया एक रात्रिकथादिकया कायोत्सर्ग विशेषेणैव तिष्ठतीत्येषंशीतो यः स प्रतिमास्थायी ।

निषद्या-निषदन्तं निषद्या उपवेशन प्रकारः-सच उक्कुटुक-गोदोहिक-समपादपुत पर्यङ्क-अद्वपर्यङ्क भेदैः पञ्चविधाः ।

वीरासनं नाम यथा सिंहासने उपविष्टो भूयस्तपाद् आस्ते तथा तस्याप्यनयने कृतेऽपि सिंहासन इय निविष्टो मुक्त जानुक इव निरालम्बनेऽपियद् आस्ते । दुष्करं-चैनत्, अतएव वीरस्य साहसिकश्चासनं वीरासनमुच्यते, तद् अस्या अस्ति-इति वीरासनिका ।

६-पुलाकं-

तिविहं होइ पुलागं, धरण्ये गंधे य रसपुलाए य ।
चउगुरुगाऽऽयरिआइं, समणीणुद्धहरग्गहणे ॥

त्रिविध पुलाकं भवति, तद्यथा-धान्यपुलाकं, गन्धपुलाकं रसपुलाकञ्च । अथ
त्रोऽपि धान्यपुलाकादीनि व्याचष्टे--

निष्पावाइधण्णा, गंधे वा दिगपलंडु लसुणाई ।
खीरं तु रस पुलाओ, चिचिणिदक्खारसाईय ॥

निष्पावा बल्लास्तदादीनि धान्यानि पुलाकम् । तथा 'वाइगं' विकटं, पलाण्डुल-
शुने च प्रतीते, तदादीनि यानि उत्कट गन्धानि तद्गन्ध पुलाकम् । यत् पुनः क्षीरम्,
ये च चिच्चिणिक्काया गोस्तनिकाया रसो वा आदिशब्दादपरमपि यद् मुक्तमति-
सारयति-तत्सर्वमपि रसपुलाकम् ।

अथ किमर्थमेतानि पुलाकान्युच्यन्ते ? इत्याह--

आहारिया असारा, करेति वा संजमाउ णिस्सारं ।
निस्सारं च पवयणं, दट्ठुं तस्सेविणिं विंति ॥

इह पुलाकमसारमुच्यते, तत आहारितानि बल्लादीनि यतोऽसाराणि सन्ति
ततः पुलाकानि भण्यन्ते । संयमाद्वा संयममङ्गीकृत्य यतः क्षीरादीनि निस्सारं
साध्वीं कुर्वन्ति, ततस्तान्यपि पुलाकानि, प्रवचनं वा निस्सारं, तेषां विकटादीनां
सेवनशीलां संयतीं दृष्ट्वा जना ब्रुवते ततस्तानि पुलाकान्युच्यन्ते ।

कल्पस्थितिः-

कल्पः-आचार मर्यादा, सच जिनकल्प, स्थविरकल्पस्थितकल्पाऽस्थितकल्प
भेदाद्बहु प्रकारः । शास्त्रोक्त प्रलम्बादिरूपो वा, तस्य समासतः षट् प्रकारा स्थितिः-
मर्यादा भवति, अत उक्तं षड्विधा कल्पस्थितिः ।

सामायिक संयत कल्पस्थितिः--

भरतैरावतक्षेत्रे मध्यवर्तितीर्थकृतां विदेह जिनानाञ्चशासने सामायिक-
संयतो भवति, तस्य कल्पस्थितिः-सामायिकसंयत कल्पस्थितिः, अत्र चाऽयं विशेषः-

सामायिकसंयमे हि चत्वारि नियतकल्पाः पडनियतकल्पाश्च भवन्ति । तत्र शय्यातर-
पिण्ड-चतुर्धाम-पुरुष ज्येष्ठकृतिकर्मरूपो चतुर्धा नियतकल्पो वेदितव्यः । छेदोपस्था-
पनीयं नाम यत्र संयमे पूर्वपर्यायस्य छेदेन व्रतेषूपस्थापनम्-आरोपणं क्रियते
तत्छेदोपस्थापनकम्, तद् द्विधा सातिचारं निरतिचारञ्च । तत्र निरतिचारं यद् इत्वर-
सामायिकस्य शिष्यस्य-आरोप्यते । पार्श्वनाथ साधोः मञ्ज्यामधर्मप्रतिपत्तौ ।
सातिचारम्-यन्मूलप्रायश्चित्तवतः--साधोर्भवति यथाचोक्तम्--परियायस्सछेत्रो,
जत्योवट्टान्णवण्णसुच्छेदे । छेदोवट्टान्णमिह तमण्णइयारेतरं दुव्विहं ॥ सेहस्स निरइयारं
तित्थंतरं संकमेव तं होज्जं । मूलं गुणं घाइणो सा, -इयारमुभयं च ठियकप्पे ।

सातिचारछेदस्य प्रथम-जिनशासने संवत्सररूपोत्कृष्टा तपोभूमिः, मध्यम तीर्थ-
करतीर्थेऽष्टमासिकी, श्रीवीरतीर्थे च षण्मासिकी ज्ञातव्या ।

छेदोपस्थापनीयस्य दशधा कल्पस्थितिः, तद्यथा--

आचेलक्कुहेसिय-सिज्जायर-रायपिंड-कितिकम्मे ।

वत-जेड्ड-पडिक्कमणे-मासं पज्जोसवणं कप्पे ॥

आचेलक्यम् १ औदेशिकं २ शय्यातरपिण्डः ३ राजपिण्डः ४ कृतिकर्म ५
व्रतानि ६ ज्येष्ठः । पुरुष ज्येष्ठो धर्मः ७ प्रतिक्रमणं ८ मासकल्पः ९ पर्युषणकल्पश्च ।
सर्वेष्वेतेकल्पाः प्रथम चरम जिनयोस्तीर्थे निश्रमतो भवन्ति ।

निर्विशमानादिः-

प्रथम चरम तीर्थकृच्छ्रासने यदा केचिन्मुनयः परिहार विशुद्धिकल्पं प्रविशन्ति
तेषां कल्पस्थितिः-निर्विशमानकल्पस्थितिः, अत्रचायं त्रिविधः-तीर्थकृतां पादमूले ये
विद्वांसः प्रस्तुतं कल्पं प्रतिपन्नास्तःएवाऽन्यांस्तत्र कल्पे स्थापयन्ति । इदमत्रहृदयम्-
इयमेवाऽस्य कल्पस्य स्थितिर्यत् तीर्थकर समीपे वाऽसुं प्रतिपद्यन्ते, तीर्थकर समीप-
प्रतिपन्न साधु सकाशे वा, नाऽन्येषाम् ।

अध्वन्यतः सातिरेकाष्टवर्षेषु ये प्रव्रज्यां गृहीत्या विशतिवर्षैरधीत-दृष्टिवादाः,
परिणिष्ठित ज्ञान-दर्शन-चारित्र्याः, अध्वन्यतोऽपि नवपूर्वादिदः धृत्यादिगुणयुक्तास्ते
कल्पमर्हन्ति ।

त्रिपुण्येषु अध्वन्येन सप्तविंशति पुरुषा भवन्ति, प्रत्येकस्मिन् गणे नवभिः मुनिभिः

परिहारमारभ्यते, तत्र च नवानां मध्यादेको कल्पस्थितः—गुरुस्थानापन्नः, चत्वारः परिहारिकाः, चत्वारश्चाऽनुपरिहारिकाः। परिहारिका यदि वर्षर्तावारभन्ते तदा जघन्येनाऽष्टमंतपः, मध्यमं दशमम्, उत्कर्षेण द्वादशम्। शिशिरेचेत्तदा षष्ठाऽष्टम-दशमरूपेण क्रमशः जघन्यादिकमवसेयम् श्रीष्मत्तो—चतुर्थ—षष्ठाऽष्टमरूपाणि जघन्य-मध्यमोत्कृष्ट तपांसि ज्ञेयानि।

पारणकेचाऽऽचाम्लेन पारयन्ति। अनुपरिहारिकाः कल्पस्थितश्च प्रतिदिवस-माचाम्लं कुर्यन्ति। परिहारिकाः प्रथमतः परमासान् यावत्प्रस्तुतं तपोवहन्ति, ततोऽनु परिहारिकाः अपि परमासान् वहन्ति, इतरे तु तेषामनुपरिहारिकत्वं प्रतिपद्यन्ते। तैरपि व्यूढे सति कल्पस्थितः परमासान् वहति, ततः शेषाणामेकः कल्पस्थितो भवति। एकः पुनरनुपरिहारिकत्वं प्रतिपद्यते। एवमेतेऽष्टादश मासाभवन्ति। ते परिहारिकाः षड्भिर्मासैर्गतैस्तपसि व्यूढे सति 'निर्विष्टाः' निर्विष्टकायिका भवन्ति। एवं परिहार तपः समाराधयतां कल्पस्थितिः निर्विशमानकल्पस्थितिः, समापित परिहाराणां या कल्पस्थितिः सा निर्विष्टकायिक कल्पस्थितिः।

जिनकल्पस्थितिः—

धृति-बल-वीर्यं संहननादि संयुताः मुनयो जिनकल्पाय समर्था भवन्ति। जिनकल्प-स्थिति ग्रहणेन उपलक्षणत्वात्सर्वेषामपि गच्छ निर्गतानां स्थितिः परिगृह्यते। जिन-कल्पे नास्ति—अपवादपदम्।

स्थविर कल्पस्थितिः—

प्रलम्बादि षड्विध कल्पस्थिति पर्यन्ता, द्विपद युक्ता उत्सर्गाऽपवाद पदद्वय युक्ता स्थविरकल्पस्य स्थितिर्भवति। विस्तारस्तु—आचाराङ्गादिशास्त्रान्तरादवसेयः।

॥ इति पंचमं परिशिष्टं समाप्तम् ॥